



# RAM KOSH

## HINDI SANSKRIT DICTIONARY

BY

P. RAM LAL SHASTRI,

First Sanskrit Teacher, Government High School.

JHUNG.

PUBLISHED AND SOLD

BY


PUNJAB PRINTING WORKS, LAHORE.

---

1915.

*1st Edition, 2,000.*

*Price Rs. 3*



# रामकोश

## हिन्दी-संस्कृत डिक्शनरी

पं० रामलाल शास्त्री,

गवर्नमेंट हाई स्कूल भंग द्वारा विरचित.

प्रकाशक वा मुद्रक

पं० चरणदास वी. ए.

पंजाब प्रिंटिंग वर्क्स, अनारकली लाहौर.

दिसम्बर १९२५



# “रामकोश” की

# भूमिका

## ❀ मङ्गलाचरण ❀

- (१) उस शान्ति और सुख के परम धाम, विश्वम्भर, भगवान् लक्ष्मी नारायण के चरणों में सविनय प्रणाम और इस “रामकोश” के पूर्ण करने में सामर्थ्य प्रदान करने के बदले में अनकानक धन्यवाद समर्पण करता हुआ—मैं पहिले पूज्यपाद श्री पं० जगन्नाथ जी शास्त्री (संस्कृत टीचर गवर्नमेंट श्रेष्ठ नीति हाई स्कूल रावलपिण्डी) के तथा धैकुण्ठवासी पूज्यपाद श्री पं० लक्ष्मणदत्तजी शास्त्री (संस्कृत प्रोफेसर प्रिन्स आफ वेल्स कालिज जम्मू) और धैकुण्ठवासी पण्डित कुलपति पूज्यपादारविन्द श्री पं० गङ्गाधर जी (प्रधान पण्डित श्री महाराजा साहिब जम्मू वा काश्मीर) के चरणों में साञ्जलि प्रणाम समर्पण करता हूँ—कि जिनके द्वार से विद्या की भित्ता प्राप्त करके आज मैं इस छोटे से “रामकोश” के निर्माण में समर्थ हुआ हूँ। इसी सम्बन्ध में मैं हिन्दू सभा अमृतसर तथा धर्म निष्ठ-गो-ब्राह्मण प्रति पालक (-His-Highness) श्री महाराजा साहिब जम्मू वा काश्मीर का भी शुद्धान्तःकरण से धन्यवाद प्रकाशित करता हूँ कि जिनके पवित्र दान से स्थापित विद्यालयों में मैंने उक्त पूज्यपादों से जित्ना पाई है।

## श्रीमान् भारत सम्राट् की कृपा ।

(२) आज से पूर्व कई सदियों तक भारतवर्ष में विद्या से शून्य, स्वार्थान्ध मूर्खों का आधिपत्य रहने के कारण सम्पूर्ण भाषाओं की माता और सर्वथा परिष्कृत होने के हेतु ही इस नाम को धारण करने वाली " संस्कृत " की अवनति होजाने से इस देश के निवासी अपने प्राचीन षडों के गौरव के भूलने के साथ २ ही अपनी मान मर्यादा को भी तिलाञ्जलि दे चुके थे-कि इतने में महा महिमशाली, विद्या और सभ्यता के पूर्ण प्रेमी, प्राचीन आविष्कारों के पुनरुद्धारक, सारे संसार में शिष्टता के सञ्चार का संकल्प धारण किये हुए अंग्रेज महाशयों का इस पुराय भूमि भारतमें प्रवेश हुआ। हमारे सौभाग्यवश षड्द्वारे सारेभारतका साम्राज्य ब्रिटिश गवर्नमेण्ट को प्राप्त होजाने से भारतवासियों में उत्तरोत्तर सुख शान्ति और विद्या का प्रचार बढ़ता हुआ यहाँ तक पहुँचा कि सन् १६११ ई० में देहली के महा साम्राज्य अधिवेशन में पधारे हुए, सारे संसार के चक्रवर्त्ती होने योग्य, परम माननीय, भारत के सम्राट् श्रीजार्ज पञ्चम ने पचास लाख रुपया प्रति वर्ष शिक्षा विभाग में राजकोश से प्रदान करके राज भक्त भारतीय प्रजा के शिक्षित करने के लिये अपनी उदारता और विद्या में रुचि का पूर्ण परिचय देकर भारतवासियों को सदा के लिये कृतज्ञ बना दिया । इससे उत्साहित होकर अब ब्रिटिश राज्य से पहिले अन्धकार के समय को भूलते हुए, देशवासी विद्या के प्रेम में मग्न होकर नाना प्रकार के विद्यालयों को स्थापित करके अपनी २ भाषा तथा धर्म मर्यादा को उन्नत करने में पूर्ण उद्योग कर रहे हैं ।

### गवर्नमेण्ट की कृपा ।

(३) प्राचीन भाषा, सभ्यता तथा आविष्कारों की रक्षा करने की नीति के अनुसार गवर्नमेण्ट ने इस देश के अपने समस्त

विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में संस्कृत को भी यथायोग्य स्थान देकर हिन्दुओं के धर्म और मान मर्यादा की रक्षा का परिचय देने से हम लोगों को जो अनुग्रहीत किया हुआ है, इसलिये हम उदार गवर्नमेण्ट के परम कृतज्ञ हैं । और देशवासियों के उद्योग से सञ्चारित संस्थाओं में तो उनकी अपनी २ भाषा और धर्म मर्यादा के प्रचार के लिये सरकार की उदार नीति के अनुसार और भी विशेष उचित स्वतन्त्रता प्राप्त है । जिससे कि हम लोग पूर्ण लाभ उठा रहे हैं ।

### श्रीमान् डाइरेक्टर साहिव की कृपा ।

- (४) यद्यपि भारत की प्रधान भाषा हिन्दी है । परं तथापि भिन्न २ प्रान्तों में उस २ प्रान्त के निवासियों के विशेष सुभीते के विचार से गवर्नमेण्ट ने उसी २ प्रान्तीय भाषा को ही वहाँ प्रधानता दी हुई है । इसी नीति के अनुसार पञ्जाब शिक्षा विभाग के " कोड " में देशी भाषा का आसन केवल उर्दू ही के भाग्य में था, परन्तु अब हमारे सौभाग्य वश विचारशील, उदार हृदय, पञ्जाब शिक्षा विभाग के डाइरेक्टर श्रीनरेवल मिस्टर जे. सी. गौडले महाशय की कृपा से हिन्दी को भी वही स्थान प्राप्त हुआ है जो कि पहिले केवल उर्दू के भाग में ही था । अर्थात् अब के नये " पेनुंक्शन कोड ( शिक्षा विभाग के नियम पुस्तक ) " में हिन्दी उर्दू और पञ्जाबी को समानता दी गई है । इस कृपा के लिये हम उक्त डाइरेक्टर साहिव के परम कृतज्ञ हैं ।

### “ रामकोश ” की आवश्यकता ।

- (५) अब जब कि गवर्नमेण्ट की कृपा और देशवासियों के उद्योग से सब स्थानों में संस्कृत और हिन्दी को उचित स्थान प्राप्त है तो फिर भी यदि इन दोनों भाषाओं के प्रचार में न्यूनता या इन में



## श्रीमान् भारत सम्राट् की कृपा ।

(२) आज से पूर्व कई सदियों तक भारतवर्ष में विद्या से शून्य, स्वार्थान्ध मूर्खों का आधिपत्य रहने के कारण सम्पूर्ण भाषाओं की माता और सर्वथा परिष्कृत होने के हेतु ही इस नाम को धारण करने वाली " संस्कृत " की अवनति होजाने से इस देश के निवासी अपने प्राचीन षडों के गौरव के भूलने के साथ २ ही अपनी मान मर्यादा को भी तिलाञ्जलि दे चुके थे-कि इतने में महा महिमशाली, विद्या और सभ्यता के पूर्ण प्रेमी, प्राचीन आविष्कारों के पुनरुद्धारक, सारे संसार में शिष्टता के सञ्चार का संकल्प धारण किये हुए अंग्रेज महाशयों का इस पुराय भूमि भारतमें प्रवेश हुआ। हमारे सौभाग्यवश बढ़ते-र सारेभारतका साम्राज्य ब्रिटिश गवर्नमेण्ट को प्राप्त होजाने से भारतवासियों में उत्तरोत्तर सुख शान्ति और विद्या का प्रचार बढ़ता हुआ यहाँ तक पहुँचा कि सन् १६११ ई० में देहली के महा साम्राज्य अधिवेशन में पधारे हुए, सारे संसार के चक्रवर्ती होने योग्य, परम माननीय, भारत के सम्राट् श्रीजर्ज पञ्चम ने पचास लाख रुपया प्रति वर्ष शिक्षा विभाग में राजकोश से प्रदान करके राज भक्त भारतीय प्रजा के शिक्षित करने के लिये अपनी उदारता और विद्या में रुचि का पूर्ण परिचय देकर भारतवासियों को सदा के लिये कृतज्ञ बना दिया । इससे उत्साहित होकर अब ब्रिटिश राज्य से पहिले अन्धकार के समय को भूलते हुए, देशवासी विद्या के प्रेम में मग्न होकर नाना प्रकार के विद्यालयों को स्थापित करके अपनी २ भाषा तथा धर्म मर्यादा को उन्नत करने में पूर्ण उद्योग कर रहे हैं ।

## गवर्नमेण्ट की कृपा ।

(३) प्राचीन भाषा, सभ्यता तथा आविष्कारों की रक्षा करने की नीति के अनुसार गवर्नमेण्ट ने इस देश के अपने समस्त

विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में संस्कृत को भी यथायोग्य स्थान देकर हिन्दुओं के धर्म और मान मर्यादा की रक्षा का परिचय देने से हम लोगों को जो अनुगृहीत किया हुआ है, इसलिये हम उदार गवर्नमेण्ट के परम कृतज्ञ हैं । और देशवासियों के उद्योग से सञ्चारित संस्थाओं में तो उनकी अपनी २ भाषा और धर्म मर्यादा के प्रचार के लिये सरकार की उदार नीति के अनुसार और भी विशेष उचित स्वतन्त्रता प्राप्त है । जिससे कि हम लोग पूर्ण लाभ उठा रहे हैं ।

### श्रीमान् डाइरेक्टर साहिव की कृपा ।

- (४) यद्यपि भारत की प्रधान भाषा हिन्दी है । परं तथापि भिन्न २ प्रान्तों में उस २ प्रान्त के निवासियों के विशेष सुभीते के विचार से गवर्नमेण्ट ने उसी २ प्रान्तीय भाषा को ही वहां प्रधानता दी हुई है । इसी नीति के अनुसार पञ्जाब शिक्षा विभाग के " कोड " में देशी भाषा का आसन केवल उर्दू ही के भाग्य में था, परन्तु अब हमारे सौभाग्य वश विचाराशील, उदार हृदय, पञ्जाब शिक्षा विभाग के डाइरेक्टर श्रीनरेबल मिस्टर जे. सी. गौडले महाशय की कृपा से हिन्दी को भी वही स्थान प्राप्त हुआ है जो कि पहिले केवल उर्दू के भाग में ही था । अर्थात् अब के नये " पेञ्जुकेशन कोड ( शिक्षा विभाग के नियम पुस्तक ) " में हिन्दी उर्दू और पञ्जाबी को समानता दी गई है । इस कृपा के लिये हम उक्त डाइरेक्टर साहिव के परम कृतज्ञ हैं ।

### “ रामकोश ” की आवश्यकता ।

- (५) अब जब कि गवर्नमेण्ट की कृपा और देशवासियों के उद्योग से सब स्थानों में संस्कृत और हिन्दी को उचित स्थान प्राप्त है तो फिर भी यदि इन दोनों भाषाओं के प्रचार में न्यूनता या इन में

## श्रीमान् भारत सम्राट् की कृपा ।

(२) आज से पूर्व कई सदियों तक भारतवर्ष में विद्या से शून्य, स्वार्थान्ध मूर्खों का आधिपत्य रहने के कारण सम्पूर्ण भाषाओं की माता और सर्वथा परिष्कृत होने के हेतु ही इस नाम को धारण करने वाली " संस्कृत " की अवनति होजाने से इस देश के निचासी अपने प्राचीन बड़ों के गौरव के भूलने के साथ २ ही अपनी मान मर्यादा को भी तिलःञ्जलि दे चुके थे-कि इतने में महा महिमशाली, विद्या और सभ्यता के पूर्ण प्रेमी, प्राचीन आविष्कारों के पुनरुद्धारक, सारे संसार में शिष्टता के सञ्चार का संकल्प धारण किये हुए अंग्रेज महाशयों का इस पुराय भूमि भारतमें प्रवेश हुआ। हमारे सौभाग्यवश बढ़तेर सारेभारतका साम्राज्य ब्रिटिश गवर्नमेण्ट को प्राप्त होजाने से भारतवासियों में उत्तरोत्तर सुख शान्ति और विद्या का प्रचार बढ़ता हुआ यहाँ तक पहुँचा कि सन् १६११ ई० में देहली के महा साम्राज्य अधिवेशन में पधारे हुए, सारे संसार के चक्रवर्त्ती होने योग्य, परम माननीय, भारत के सम्राट् श्रीजार्ज पञ्चम ने पचास लाख रुपया प्रति वर्ष शिक्षा विभाग में राजकोश से प्रदान करके राज भक्त भारतीय प्रजा के शिक्षित करने के लिये अपनी उदारता और विद्या में रुचि का पूर्ण परिचय देकर भारतवासियों को सदा के लिये कृतज्ञ बना दिया । इससे उरसाहित होकर अब ब्रिटिश राज्य से पहिले अन्धकार के समय को भूलते हुए, देशवासी विद्या के प्रेम में मग्न होकर नाना प्रकार के विद्यालयों को स्थापित करके अपनी २ भाषा तथा धर्म मर्यादा को उन्नत करने में पूर्ण उद्योग कर रहे हैं ।

### गवर्नमेण्ट की कृपा ।

(३) प्राचीन भाषा, सभ्यता तथा आविष्कारों की रक्षा करने की नीति के अनुसार गवर्नमेण्ट ने इस देश के अपने समस्त

विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में संस्कृत को भी यथायोग्य स्थान देकर हिन्दुओं के धर्म और मान मर्यादा की रक्षा का परिचय देने से हम लोगों को जो अनुगृहीत किया हुआ है, इसलिये हम उदार गवर्नमेण्ट के परम कृतज्ञ हैं । और देशवासियों के उद्योग से सञ्चारित संस्थाओं में तो उनकी अपनी २ भाषा और धर्म मर्यादा के प्रचार के लिये सरकार की उदार नीति के अनुसार और भी विशेष उचित स्वतन्त्रता प्राप्त है । जिससे कि हम लोग पूर्ण लाभ उठा रहे हैं ।

### श्रीमान् डाइरेक्टर साहिव की कृपा ।

- (४) यद्यपि भारत की प्रधान भाषा हिन्दी है । परं तथापि भिन्न २ प्रान्तों में उस २ प्रान्त के निवासियों के विशेष सुभीते के विचार से गवर्नमेण्ट ने उसी २ प्रान्तीय भाषा को ही वहाँ प्रधानता दी हुई है । इसी नीति के अनुसार पञ्जाब शिक्षा विभाग के " कोड " में देशी भाषा का आसन केवल उर्दू ही के भाग्य में था, परन्तु अब हमारे सौभाग्य वश विचारशील, उदार हृदय, पञ्जाब शिक्षा विभाग के डाइरेक्टर औरनेयल मिस्टर जे. सी. गौडले महाशय की कृपा से हिन्दी को भी वही स्थान प्राप्त हुआ है जो कि पहिले केवल उर्दू के भाग में ही था । अर्थात् अब के नये " प्रेजुक्शन कोड ( शिक्षा विभाग के नियम पुस्तक ) " में हिन्दी उर्दू और पञ्जाबी को समानता दी गई है । इस कृपा के लिये हम उक्त डाइरेक्टर साहिव के परम कृतज्ञ हैं ।

### “ रामकोश ” की आवश्यकता ।

- (५) अब जब कि गवर्नमेण्ट की कृपा और देशवासियों के उद्योग से सब स्थानों में संस्कृत और हिन्दी को उचित स्थान प्राप्त है तो फिर भी यदि इन दोनों भाषाओं के प्रचार में न्यूनता या इन में



प्रायः सब प्रकार के हिन्दी ( चाहे देशी हैं या विदेशी ) शब्दों का समावेश करके उनकी संस्कृत लिखकर उचित शब्द नियत कर दिये हैं जिससे कि संस्कृत को व्यावहारिक बोल चाल की भाषा बनाने की इच्छा रखने वालों को पूर्ण सहायता मिल सकती है ।

## हिन्दी को लाभ ।

- (६) वर्तमान हिन्दी ( जो कि अनेक प्रकार के विदेशी शब्दों के मेल से वर्णसंकर सी हो रही है ) भी इस " रामकोश " की सहायता से अपनी सर्वा माता संस्कृत का ही शब्द रूपी दुग्ध पान करके परम पुष्टि का प्राप्त होकर विदेशियों के ऋण को चुकाती हुई शुद्ध हिन्दी या आर्य भाषा बन कर फिर नये तिर से अपने भाषी भारतवासियों के गौरव को बनाने में समर्थ हो सकती है । क्योंकि इस कोश में सब प्रकार के व्यवहार में आने वाले देशी तथा विदेशी ( हिन्दी में व्यवहृत ) शब्दों का संस्कृत अनुवाद करते समय एक २ के साथ अनेक संस्कृत शब्द लिखे गये हैं, जिनमें कई तो कठिन और कई अति सुगम हैं, उनमें से पिछले ( सुगम ) शब्दों का यदि हिन्दी में व्यवहृत विदेशी शब्दों के स्थान में प्रयोग किया जाए तो निःसन्देह यह ( वर्तमान हिन्दी ) विदेशियों के ऋण से मुक्त होकर अपना मुख उज्वल करके भारतवासियों की पूर्ण भाषा बन सकती है ॥

## “ रामकोश ” की गति ।

- (७) यद्यपि यह कहना तो अत्युक्ति होगा कि " रामकोश " सब प्रकार और सब विषयों के हिन्दी शब्दों का समावेश रखता हुआ उक्त कामनाओं को सर्वथा पूर्ण करने में समर्थ है । परन्तु तथापि इतना तो भाननीय निष्पक्ष विद्वानों की सेवा में निवेदन कर सका हूँ कि जिस प्रकार नागरी प्रचारिणी सभा काशी

आदि के उद्योग से वैज्ञानिक कोश आदि इंगलिश से संस्कृत में अनुवाद होकर अपने २ ( विज्ञान आदि ) विषयों में हिन्दी के परम उपकारक सिद्ध हुए हैं। इसी प्रकार व्यावहारिक देशी तथा विदेशी ( हिन्दी में व्यवहृत ) शब्दों का संस्कृत में अनुवाद करके यह " रामकोश " संस्कृत को व्यावहारिक भाषा और हिन्दी को शुद्ध हिन्दी या आर्य भाषा बनाने के लिये सर्वथा उपयोगी सिद्ध होगा। यह इसके बनाने वाले को पूर्ण विश्वास है ॥

## स्कूल और कालिज के विद्यार्थियों को विशेष लाभ ।

- (८) वर्तमान में देशी भाषाओं की संस्थाओं में, यद्येष्ट प्रबन्ध आदि न होने के कारण देशवासियों की प्रवृत्ति अपनी सन्तान को अंग्रेज़ी स्कूलों और कालिजों में ही शिक्षित करने की अधिक देखी जाती है, इसी कारण आज उन स्कूलों और कालिजों में सहजों की संख्या में विद्यार्थी शिक्ता पा रहे हैं। और वहाँ इस समय राज भाषा होने के कारण अंग्रेज़ी ही की सब से प्रधानता है। अर्थात् जितने भी पाठ्य विषय हैं, उनमें अंग्रेज़ी साथ २ ही रहती है। इसलिये जहाँ इस कोश का ढंग अंग्रेज़ी रक्खा है, वहाँ शब्दों के तथा धातुओं के उच्चारणों में और कोश में आए हुए पदों के उन धातुओं और शब्दों के उच्चारणों के साथ सम्यन्ध जितजाते में जो संकेत दिये गये हैं, उनमें भी अंग्रेज़ी के अक्षरों और अंकों से काम लिया है। और साथ ही इसके जहाँ व्याकरण के नियम देने की आवश्यकता प्रतीत हुई है, वह भी इंग्लिश में दिया गया है। तांकि स्कूल और कालिज के विद्यार्थियों के लिये पूर्ण उपकारक होने से बहुजन संख्या के लिये उपयोगी सिद्ध होसके। इस प्रकार यह " रामकोश " स्कूल और

कालिज के विद्यार्थियों ( जिनकी दूसरी भाषा संस्कृत होती है ) के लिये परम उपकारक होने पर भी केवल अंग्रेजी की ( a b c ) वर्णमाला तथा ( 1 2 3 ) अंक मात्र जानने वाले ( जो कि हिन्दी का ज्ञाता हो ) के लिये भी वैसा ही उपयोगी है, जैसाकि उक्त विद्यार्थियों के लिये । इसलिये प्राह, विशारद और शास्त्री के विद्यार्थी भी इस से अनुवाद और प्रस्ताव बनाने में पूर्ण लाभ उठा सके हैं ॥

## “ रामकोश ” के देखने की अपूर्व रीति ।

- ( ६ ) प्रथम तो हिन्दी से संस्कृत कोश का बनना ही नवीन आविष्कार है, पर सम्भव है कि कोई विद्वान इस विषय का पुस्तक लिख रहा हो या लिख चुका हो या अब लिखे । परन्तु इसके देखने की रीति तो केवल मेरा ही निकाला हुआ मार्ग है, जो कि आज तक किसी हिन्दी या संस्कृत कोश में दृष्टि गोचर नहीं हुआ । सो यह कि इस पुस्तक की समाप्ति के पीछे संज्ञा शब्दों को ६ छय ( १ पुल्लिंग २ स्त्रीलिंग ३ नपुंसकलिंग ४ सर्वनाम ५ संख्या वाचक और ६ विशेषण ) भागों में विभक्त कर के १२२ की संख्या में सब का प्रत्येक विभक्ति में पूर्णतया उच्चारण लिख दिया है । इसके अनन्तर प्रत्येक गण के दो २ धातुओं ( एक परस्मैपदी और एक आत्मनेपदी ) का भी, अनुवाद करने में पूर्ण उपयोगी, और सर्वदा व्यवहार में आने वाले ६ छय ( लट्, लङ्, लृट्, धिप्रि-लिट् और लृट् ) लकारों में पूर्ण उच्चारण दे दिया है । इसके आगे धातु को कर्मवाच्य या णिजन्त बनाने के नियम ( सब से अच्छे प्रतीत होने के कारण ) तो छान्दर भगडार कर की ग्रामर से लेकर जैसे के जैसे ही स्कूल और कालिज के विद्यार्थियों के विशेष सुभिते के लिये इंग्लिश में बने बनाने रख दिये हैं ॥



(१०) इस से लाभ यह है कि जब किसी हिन्दी शब्द का अनुवाद संस्कृत में संज्ञा शब्द से किया गया है तो m. f. n. Pro. num. और a उसके साथ लिखकर 1 2 3 आदि में से कोई एक श्रंक भी उसके आगे लिखा हुआ है । जिसका तात्पर्य यह है कि अनुक २ शब्द m ( Masculine पुंलिंग ) f ( feminine स्त्रीलिंग ) n ( neuter नपुंसकलिंग ) Pro. ( Pronoun सर्वनाम ) num. ( numeral संख्यावाचक ) और a ( adjective विशेषण ) में से किसी एक श्रेणी का है और उसके आगे 1 2 3 आदि श्रंकों के देने से यह अभिप्राय है कि अनुक श्रेणी के उस संख्या के शब्द की तरह इसका उच्चारण होता है । जैसाकि हिन्दी का एक शब्द कोश में " वन " आया है उसका संस्कृत में अनुवाद जब " उद्यान " शब्द से किया है तो उस ( उद्यान ) के आगे " nI " इस प्रकार लिखा है । सो इस से यह समझना चाहिये कि यह शब्द neuter नपुंसकलिंग है और इसका उच्चारण नपुंसकलिंग की श्रेणी में लिखे हुए I पहिले शब्द की तरह करना चाहिये । साँ वहाँ देखने से आपको " फल " शब्द मिलेगा । इस से आप जान लेंगे कि उद्यान शब्द का लिंग तो नपुंसक है और उच्चारण इसका " फल " शब्द का न्याई है । जिसका पूरा उच्चारण देख कर अपने श्लिष्ट शब्द का भी उच्चारण आप वही ही सुगमता से कर सकेंगे ॥

(११) जब किसी हिन्दी पद का अनुवाद संस्कृत में किसी धातु से किया गया है तो उसके आगे पहिले 1 2 3 आदि कोई श्रंक लिख कर उसके साथ P A. U लिखा हुआ है । जिनका क्रम से Parasmaipadi परस्मैपदी Atmnejadi आत्मनेपदी और Ubhayapadi उभयपदी-तात्पर्य है । और उल्लिखित श्रंकों के साथ देने से उस ( धातु ) का पहिला दूसरा आदि

गण प्रतीत होजाता है। यद्यपि संज्ञा शब्दों की न्याई धातुओं को पूरी तरह से अपने वश में नहीं किया जासका, तथापि उस २ गण के आरम्भ में उसका विकरण Conjugational sign सत्र लकारों Tenses and moods के प्रत्यय Terminations और विशेष स्थल में गुण वृद्धि आदि करने के नियम साथ लिख देने से इस प्रकरण को भी सुगम बनाने का पूरा यत्न किया गया है। जहां कहीं हिन्दी पद की व्याख्या में कर्मवाच्य लिखना पड़ा है। वहां उस संस्कृत धातु के आगे "pass." और जहां णि जन्त अपेक्षित है, वहां "c." ऐसे संकेत कर दिये हैं, जिनका क्रम से तात्पर्य "Passive vice कर्मवाच्य" और "Causal णि जन्त" कहने से है। इन दोनों प्रकार के रूप बनाने की विधि धातुओं के उच्चारण के अनन्तर स्पष्ट इंग्लिश में ही लिख दी है। जिस से कि इस क्रम के अनुसार एक साधारण योग्यता का विद्यार्थी भी बिना संस्कृत ग्रामर की सहायता के कठिन से कठिन भी हिन्दी का उचित संस्कृत में अनुवाद कर सकता है ॥

### सहायकों का धन्यवाद ।

(१२) सत्र १९१३ फरवरी मास में डिवीयनल टूर्नामेण्ट के समय कांग में पधारे हुए, परम माननीय, मुलतान डिवीयन के स्कूलों के इन्स्पेक्टर राय बहादुर श्रीमान् लाला सुन्दरदास साहिब M. A. सूरि को यह पुस्तक, उनकी इसके विषय में पवित्र सम्मति जानने के लिये दिखाया तो उन्होंने ने इसके अपूर्व ढंग को बहुत ही पसन्द किया, जिस से कि इसकी सफलता में मेरा विशेष उत्साह बढ़ा। इस गुणग्राहिता के बदले में मैं उक्त श्रीमान् की सेवा में शुद्ध हृदय से धन्यवाद समर्पण करता हूं। इसके अनन्तर पूना के वामन शिवराम पपटे M. A. मुम्बई के डाक्टर रामकृष्ण गोपाल भगदारकर M. A., C. I. E. कलकत्ता के

महाशय राजकृष्ण घनर्जी और नागरी के परमभक्त स्वर्गवासी मेरठ के पं० गौरीदत्त जी भी मेरे धन्यवाद के पात्र हैं। क्योंकि इनकी पुस्तकों से मुझे पूर्ण सहायता मिली है ॥

- (२३) यद्यपि यह पुस्तक आजसे आठवर्ष पूर्व बनने लगा था, और पाञ्चवर्ष होने को हैं कि समाप्त भी होचुका था, परन्तु कईएक अकथनीय सांसारिक विघ्नों के कारण इसके प्रकाशित होने में (इसके) प्रस्तुत होनेकी तरह विलम्ब ही होता गया। सन् १९१२ दिसम्बर की छुट्टियों में लाहौर यन्त्रालयों में इसके मुद्रित कराने के लिये फिरते हुए मैंने यह पुस्तक पं० चरणदास जी बी. ए. को दिखाया, तो उन्होंने इसका आदर करके इसके दो संस्करण तक मेरे साथ सांझी बनकर अपने ही यन्त्रालय "पब्लिशिंग वर्क्स" में अपने ही व्यय से मुद्रित करना स्वीकार किया। जिसके लिये मैं उक्त परिद्वत जी की सेवा में धन्यवाद अर्पण करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थी हूँ कि उनको भी इस काममें सफलता प्राप्त हो।

### सम्पादक की विनति ।

- (१४) मैंने इससे पहिले केवल दो तीन छोटे २ अनुवाद पुस्तक ही लिखे हैं, सर्व साधारण तथा हिन्दी और संस्कृत का उपकारक यह पहिला ही पुस्तक सम्पादन किया है। इसलिये पुस्तक लिखने के तत्त्व को समझने वाले विद्वानों तथा अन्य परिद्वत महाशयों, स्कूल या कालिज के अध्यापकों की सेवा में सविनय प्रार्थना है कि ये इस पुस्तक में हुई २ भूलों या त्रुटियों को देख कर मेरे दोषों पर घृणा न करते हुए कृपया मुझे उन भूलों या त्रुटियों की सूचना दें तांकि मैं उन उर्दार महानुभावों के धन्यवाद सहित उन्हें सुधार कर दूसरे संस्करण में प्रकाशित करूँ।
- (१५) हे विश्वनाथ ! अन्त में तेरे चरणों में प्रार्थना है कि तू मेरे इस यत्न को सफल कर और कृपाकर कि हमारे परम माननीय श्री

मान भारत सम्राट् जार्ज पञ्चम की सदा ही जय होना कि-उस विद्या प्रचार के लिये अपने राज कोशको खुला रखने वाले की कृत्र छाया में रहकर हम सुख और शान्ति से अपना जीवन व्यतीत करें ॥

## Abbreviations and Expressions OF GRAMMATICAL TERMS.

“रामकोश” में दिये हुए व्याकरण के  
संकेत और उनका विवरण ।

- A—Atmne padi—आत्मनेपद ।  
 A—Adjective—विशेषण ।  
 Abl.—Ablative—पञ्चमी ।  
 Acc.—Accusative—द्वितीया ।  
 Adv.—Adverb—क्रिया विशेषण ।  
 C.—Causal—णिजन्त ।  
 Comp. — Compound—समास ।  
 D.—Denominative—नामधातु ।  
 Dat.—Dative—चतुर्थी ।  
 Ex.—Expressed—अभिप्रेत ।  
 F.—Feminine—स्त्रीलिंग ।  
 Gen.—Genitive—षष्ठी ।  
 Ind.—Indeclinable—अव्यय ।  
 Inf.—Infinitive—तुमुजन्त ।  
 Inst.—Instrumental—तृतीया ।  
 Loc.—Locative—सप्तमी ।  
 M.—Masculine—पुंल्लिंग ।

N.—Neuter—नपुंसकलिंग ।

Nom.—Nominative—प्रथमा ।

P.—Parasmaipadi—परस्मैपद ।

Pass.—Passive—कर्मवाच्य ।

Pl.—Plural—बहुवचन ।

Pro.—Pronoun—सर्वनाम ।

S.—Substantive—संज्ञा शब्द ।

U.—Ubhayapadi—द्वभयपदी ।

V. i.—Verb intransitive—अकर्मक्रिया ।

Voc.—Vocative—सम्बोधन ।

V. t.—Verb transitive—सकर्मक्रिया ।

- (a) इसके अतिरिक्त जो 1 2 3 आदि अंग्रेजी के अंक दिये गये हैं। वे यदि m. f. n. pro. a. और num. के साथ आए हों तो उसका तात्पर्य यह है कि इस श्रेणी के इतने शब्द की न्यर्हि जानो और यदि वे :—
- (b) किसी धातु के आगे आए हैं उन से उस धातु का गण Conjugation जानना चाहिये ।



I. All praise is due to the Almighty through whose grace I have been enabled to finish this Book successfully. I offer my deepest salutations to Pt. Jagan Nath Shastri, Teacher, Government Shrishniti School, Rawalpindi, and to the late Pt. Lakhshman Datt Shastri, Professor of Sanskrit, Prince of Wales College, Jammu, and to Pt. Ganga Dhar, Rajpandit to H.H. the Maharaja of Kashmir, from whom I have received all my education, as well as to H. H. the Maharaja of Kashmir and to the Hindu Sabha, Amritsar, in whose institutions I have drunk at the foundation of knowledge.

II. *The Kindness of British Rule*—The rule of a civilized and highly educated nation, while beneficial to the country in every respect, is especially so in the domain of literature. Indian literature had been consigned to oblivion for centuries past. It was her good fortune to come under the benign rule of England, whose efforts have been directed from the very beginning to restore ancient Sanskrit literature to the position once occupied in the remote past.

On the memorable occasion of the Coronation Darbar at Delhi, His Most Gracious Majesty King George V, Emperor of India, made a grant of Rs. 50 lakhs per year for the spread of education in India and has thus given a finishing touch to the sacred task of spreading education amongst people who before the advent of the British rule were altogether denied the benefits of education.

III. *The Kindness of the Government of India*—The policy of the Government of India has always been to popularize the ancient language and now Sanskrit and Hindi are given a prominent place in the curriculum of Schools and Colleges. Private Schools, though receiving grants from Government, have freedom, subject to certain restrictions, to introduce religious education.

IV. *The Kindness of the Director*—Some years ago Hindi and Urdu were not placed on the same level in schools in the Panjab; but our noble-hearted Director, the Hon'ble Mr. J. C. Godley, has now, in the new Education Code, given the same status to Hindi as to Urdu and has thus laid the whole Hindu community under a great obligation.

V. *The Need of Ram Kosh*—Now when through the kindness of Government Sanskrit and Hindi have been given a prominent place in the Schools and Colleges,

is the incumbent duty of those who are learned in the languages to remove all blemishes from them. To make Sanskrit once more the spoken language of the country and to purge Hindi of all foreign mixture are the two goals which the efforts of literary men have been directed for the last quarter of a century or so. With the advent of foreign civilization, the mixture of different nations and the introduction of new modes of life and thought, Hindi has borrowed words from different foreign languages and has thus become unintelligible to those Sanskrit scholars who have never learnt any foreign language. Those who, besides Sanskrit, are scholars of some foreign language also have managed to tide over the difficulty by coining Sanskrit words for foreign expressions, but here each man has gone his own way and it is generally experienced that for one foreign word, there is not one Sanskrit word which may be admitted by all as the exact equivalent of the foreign word, but that there are scores of them, none of which has acquired the force of authority in the general Sanskrit literature. It was the intention of removing this vagueness from Sanskrit that actuated me many a year back to compile a lexicon which should settle once for all the exact Sanskrit equivalents for foreign words that have been finding their way into Sanskrit ever since it ceased to be the spoken language of the people. I have endeavoured to accomplish this end by giving Sanskrit word for foreign words of common use.

VI. *Gain to Hindi*—In the Kosh I have everywhere given two sets of Sanskrit words for Hindi words (whether of foreign or of Sanskrit origin). One of these is more difficult than the other. The less difficult of these words can very conveniently be used in Hindi, and thus the Kosh will tend to purge Hindi of foreign mixture.

VII. *The Extent of Ram Kosh*—The Book, of course, does not lay claim to anything like giving Sanskrit equivalents for Hindi words of all sorts and descriptions. But just as the Nagri Parcharni Sabha, Kashi, in their Vigyanak Kosh (Dictionary) have given Sanskrit words for Hindi words borrowed from foreign languages and so this Kosh has tried to do the same for Hindi words that are used in our daily life. The Sanskrit terms of the Vigyanak Kosh are now being freely used in treatises on physical science and the

words of the Ram Kosh by being similarly used in Hindi will tend to purify the Hindi language.

VIII. *The Special Advantage to the Students of Schools and Colleges.*—On account of their adherence to antiquated methods and their lax tone of discipline, Sanskrit schools run on old lines, are losing their popularity and Sanskrit as well as for English education boys are sent to schools conducted on new lines. I have, therefore, compiled this Dictionary after the method of English Dictionaries and all references to declensions and conjugations are given at the end of the book, and the rules of Grammar, wherever needed, are given in English, so that the book may be especially useful to the students of schools and colleges. But this does not in any approachable degree, detract from the fitness of the book for the students of purely Sanskrit schools, for any one familiar with the English alphabet and numbers can derive the full amount of benefit from the book.

IX. *The New Method of Ram Kosh*—The method of arrangement is purely my own way. At the end of  
 declensions of संज्ञा words  
 uline 3, feminine 2,  
 10, and adjectives 20.

As for the verbs, two verbs (one prasm, one atman) of every conjugation have been declined in the six tenses and moods which are ordinarily used in translation. Rules for the passive voice and causals have been copied from Dr. Bhandarkar's Grammar.

With every संज्ञा words there is written (*m, f, u,*) pro, noun, adj. and numeral like 1, 2 or 3. This means that the word is masculine, feminine, neuter, pronoun, numeral or adjective, and is to be declined like first or second or any other word as the case may be of a particular group given at the end of the book. To take the example, the Sanskrit word in the Kosh for वन (gardens) is उद्यान n. l. This means that the word is of neuter gender and is to be declined like the first word given in the group of neuter declensions.

With the verbs in the Kosh is written same numeral like 1, 2, 3, etc., and a letter P. A or U, which means that the verb belongs to that particular conjugation and is Prasmaipad, Atmnaipada, or Ubhaipadi. It must be frankly admitted that verbs have not been so fully dealt with as संज्ञा words; yet by giving the conjugational signs and the terminations of all moods



and tenses and by inserting, wherever necessary, the rules of गुण and वृद्धि, I have tried to make this part of the Kosh also intelligible and useful. Wherever it has been found necessary to give a verb in the passive or the casual form as an equivalent for some Hindi verb, the abbreviations pass and C have been attached to the Sanskrit words and rules for these special forms are given in Appendix in English. The result of this elucidation is to make work of translation an extremely easy one, even for a student of ordinary capacity.

In February 1913 I presented this book to R. B. Lala Sundar Das Suri, Inspector of Schools, Multan, for favour of an expression of opinion. He was much attracted by the new method of the book and asked me to finish the work as soon as possible. I offer my hearty thanks to Rai Bahadur for the encouragement I have received at his noble hands.

My thanks are due to Pandit Vaman Shivram Apte., M. A. of Poona, to Dr. Ramkrishnan Gopal Bhandarkar of Bombay, to Pandit Rajkrishnan Banerjee of Calcutta, and to the late Pandit Gauri Datt of Meerut, for the valuable information I have received from their books.

Pt. Charan Das, B.A., Proprietor, of the "Panjab Printing Works," Lahore, has been kind enough to bring out the book at his own expense for which I am deeply obliged to him.

I have yet written only two or three small books on translation. This is my first attempt at a book like the present one, and I crave *indulgence* from my learned readers who may discover a few blemishes here and there. I shall be highly obliged to them if they will let me know any defects in the book, and I shall take all pains to see that such defects are removed from the book as soon as possible.

---



## विश्वयोनिः परिपातु विश्वतः

नमस्तुङ्ग शिरश्चुम्बि चन्द्र चामर चारवे ।

त्रैलोक्य नागरम्भ मूलस्तम्भायशम्भवे ॥

अ श्रीकृष्ण m I, (अकारोवासुदेवस्य  
name of Shri Krishn)  
अकङ्क मद्, अभिमान m I, अङ्कार,  
गर्व m 2, औद्धत्य n 1, उद्धतता f,  
2(—ना=अङ्क 8 u, सगर्व a 1  
सू I. P, अभिमन् 4 A, औद्धत्यं  
आचर् Ip) (—वाङ्=सगर्व a 2,  
अभिमानिन् a 11, उद्धत a 1,  
अकथ्य अकथ्य a 1, अकथनीय a 1,  
यक्तुमशक्य a 1, अवचनीय a 1,  
अकथर महत्तर a 2, महीयस्, श्रेयस्,  
a 15,  
अकरा बहु मूल्य, महा मूल्य, a 1,  
महाहं (षि) a 2,  
अकृल मति, बुद्धि, f 4, प्रज्ञा f 2,  
मनीषा f 1, श्रेयशी f 6,  
अकृल प्रतिभिन्त्य n-1, m 1, प्रति-  
ध्याया, प्रतिमा f 2, प्रतिमूर्ति f 4,

(वर—प्रतिकूल a विरुद्ध a 1.)  
(—लेना=आलोकलेख्यं कृ 80, चित्रं  
निर्मा 3p, प्रतिध्यायां ग्रह, ७ p),  
अकृसर प्रायस्, बहुधा, अनेकशस्,  
भूयोभूयस्, असकृत्, वारंवारं सुह-  
सुहः, ind,  
अकसीर रसायन, तेजोवर्द्धन n 1,  
आशु रोग हर n 2, a 2,  
अकस्मात् अकस्मात्, देवात्, देवयोगात्  
असमर्थितं, यदृच्छया, adv,  
अकारय व्यर्थ, निष्फल, निरर्थक, a 1,  
वृथा, adv,  
अकाल दुर्भिक्ष n 2, दुष्काल, गीवाक  
m-1, प्रयाम m 2,  
अकिञ्चन दरिद्र a 2, निर्धन अधन,  
a 1,  
अकीर्ति दुष्कीर्ति अपकीर्ति f 4, अप्रतिष्ठा,  
वाच्यता f 1, अपकर्ष m 2,  
अपयशास्, n,

अकुलाना v t, वि-सं—भ्रम् c, आ-  
कुली कृ 8 u, मुद् c. v, i,  
आकुली भू i p, मुद् 4 p, सं-  
भ्रम् 4 p,  
अक्रूर दयालु m 8, दयावत् a 9,  
कारणिक a 1, सृष्टि a 1, अक्रूर  
a 2, c  
अकेला एक Pro. I, 2, num 1,  
अद्वितीय a 1, एकाकिन् a 11,  
अक्षत अक्षत-तण्डल m 1, ग्रीहि m 5  
(?) अरपृष्ट a 1, अविद्ध a 1,  
अक्षय-अक्षय, अनश्वर a 2, अवि-  
नाशिन् a 11,  
अक्षर अक्षर n 2, वर्ष m 1, (2)  
सनातन a 1, अखण्डय a 1,  
अक्षौहिणी अक्षौहिणी f 5, पूर्णसेना  
सर्वाङ्ग युक्त-सम्पन्नसेना f 2,  
अखण्ड समस्त-अखण्ड, सम्पूर्ण a 1,  
अखरोट अखोट m, I, and n, I,  
अखलाक साधुता, सम्यता, शिष्टता,  
f 2, सद्गुण m 1, सदाचार m 2  
अखाड़ा रङ्ग m 2, रङ्ग भूमि f 4,  
रङ्ग भू f 11,  
आखिल समस्त, आविल, कृत्स्न, सकल  
adj, 1, निःशेष a 2, सर्व  
pro, I,  
अखीर अन्त m 1, अन्तिम a 1,  
समापन, निर्वर्तन n 1,

अगङ्गं धगङ्गं अस्तव्य स्ततया, निरर्थकम्  
adv,  
अगन अग्नि m 4, अनल m 1,  
(—बोट=अग्नि नौका f 2. वा  
ष्पीय नौ m 13,  
अगम अगम्य, अगाध adj 1, गम्भीर  
a 2, दुरवगाह, अतलस्पर्श a 1.  
अगर यदि ind, (—चह=यद्यपि ind)  
अगल्लव प्रायः, प्रायशस् प्रायेण ind  
नाम, आपिनाम, किल, स्यात् ind  
अगला अग्रिम adj 2, आदिम, प्रा-  
चीन a 1, प्रथम, पूर्वं pro 3,  
अग्रगामिन् a 11,  
अगवा अग्रगामिन् adj 11, अग्रणी  
m 7, मुखर m 2, or adj 2,  
मुख्य, शिक्षक, प्रधान a 1,  
अग्नि अग्नि m 4, अनल m 1, वै-  
श्वानर m 2,  
अगाड़ी अग्र n 2, अग्रभाग m 1,  
(2) अग्रतः, स्तोकान्तर किञ्चिदग्रे ind  
(—पिछाड़ी=अश्ववन्धनी f 5,  
वन्धनरञ्जु f 9, पादरञ्जु f 9,  
अगोचर अदृश्य, अलक्ष्य, अगोचर  
adj 2, इन्द्रियातीत a 1,  
अघाना तुष् 4th conj p, तृष् 4th  
conj p, (—अथाजाना=अतितृष्  
a भू 1 p, अति भोजनं कृ 8 u,  
अघोर शान्त a 1, रुचिकर, अनुद्वेगकर  
अगर्ह a 2,

अङ्ग अङ्ग m 1, चिन्ह n 1, 2 संख्या  
गणना f 2,

अङ्ग अङ्ग, अययव m 1, गात्र, शरीर  
n 2, देह, काय m 1,

अङ्गद बालि पुत्र, m 2, अङ्गद m 1,  
अङ्गरेज आङ्गल, अङ्गल राजात a 1,

अङ्गल भू भव

अङ्गरेजी आङ्गल भाषा f 1,

अञ्चकन कम्बुक, निचोल m 1, प्रा-  
वरक, प्रावार 2,

{ अचर, स्यावर, स्थिर a 2, अचल a 1  
{ अचल (2) वृत्त m 2, पर्वत, नग m 1

अचरज आश्चर्य n 2, or adj 2,

अचला अचला f 2, स्थिरा f 1,  
पृथिवी मही f 5, भू f 11,

अच्छा प्रशस्य, प्रशस्त, a 1, भद्र  
a 2, साधु a 6, (अच्छी तरह से  
सुधु, प्रशस्यतया adv).

अचानक भकरमात्, दैवात्, दैववशात्,  
यदृच्छया adv,

अचार उपकरण, स्थान n 1, सन्धित  
द्रव्य n 2,

अचारज आचार्य m 2, (स्त्री) आ-  
चार्याणी f 5,

अचेत अचेतन. लुप्तसंज्ञ, असंज्ञ, बुद्धि  
भद्र, संज्ञाहीन a 1,

अचम्भा विरमय m 1 अद्भुत a 1,  
आश्चर्य, चित्र a 2,

अज अजन्मन् m 23, जन्म रहित, अज  
a 1, (2) अज, छाग m 1,

अजगर नाग, अजग, अजग m 1,  
सर्प, सर्प सुप m 2, फणिन् m 31

अजन्मा see अज

अज्ञानवी विदेशीय, परदेशीय, अपरिचित  
a 1, अदृष्ट पूर्व a 2,

अज्ञच अचम्भित, आश्चर्यान्वित a 1,  
साश्चर्य, आश्चर्य a 2,

अजर अजर a 2, जरा-रहित or  
हीन a 1,

अजस अयस् अपयसास् n 15, अर्थात्  
f 4 अपवाद m 1,

अजय पराजय, अजय m 1,

अजा अजा f 2, छागी f 5,

अजान अनभिज्ञ, अपरिचित, अज्ञ, a 1  
अज्ञानिन् a 11,

अजायव अद्भुत, चमत्कृत a 1, आ-  
श्चर्य, a 2,

अजित अजित, अपराजित, जेतुमराक्य  
a 1,

अजी ? महाराय a 1, भद्र, आर्य a 2  
भगवन् from भगवत् in voc,

these are used in voc,  
only,

अङ्गी प्रिय a 2, दयित, प्रियतम a 1  
चिराञ्जीविन् a 11,

अजीव अपूर्व, अदृष्ट पूर्व a 2, अद्भुत  
a

अजीर्ण अपाक m 1, अजीर्ण m 1,  
 अग्नि मान्द्य n 1,  
 अजोग अनुचित, अयोग्य, अयुक्त,  
 अनुप पक्ष a 1, अर्नह a 2,  
 (adv, अनुचितम्, अयोग्यम्,  
 अयुक्तम् अनर्हताया )  
 अज्ञ अज्ञ, अनभिज्ञ a 1, अवेदिन्  
 अज्ञानिन्, a 11,  
 अज्ञात अज्ञात, अविदित, अनवगत, अन-  
 तुभूत a 1,  
 अञ्जलि अञ्चल m 1, n 1, दशा  
 f 2, नस्तय m 1, प्रान्त m 1,  
 अञ्जन अञ्जन, कञ्जल, नेत्र रञ्जन  
 n 1,  
 अञ्जलि अञ्जलि m 4,  
 अटक अन्त राय m 2, विम्र, प्रति-  
 बन्ध, व्यःपात m 1,  
 अटकाव व्यवधान n 1, प्रतिषेध m 1,  
 निवारण n 1,  
 अटकना कृष् with अव, स्तम्भ with  
 अव, रथा with अव passive,  
 अटकल तर्क m 2, अनुमान n 1,  
 जहा f 2,  
 अटकल पच्चू अनुमिति f 4, (२)  
 विधि m 4, रीति f 4,  
 अटका ओदन m 1, पक्ष तण्डुल n 1  
 अटकाना रथा with अव c, स्तम्भ  
 with वि 9 p, याध् I A,

कृष् with अव, 7 p,  
 अटकाव see अटक  
 अटन भ्रमण, विनारण, पर्यटन, n 1,  
 यात्रा f 1, (—करना चर् with  
 वि 1 p, अट् I p,  
 अटपटाङ्गी असमीक्ष्य कारिन् a 11,  
 अविवेकिन् a 11, प्रमत्त, असाव-  
 धान a 1,  
 अटल स्थापिन् a 11, नित्य, नियत,  
 निश्चित a 1, भुव a 2,  
 अट्टहास अट्टहास m 1, सशब्द कट्टहास  
 m 1, उच्चैर्हसन n 1, हिसन n 1  
 अटारी वरण m 1, प्रमीव m 2,  
 वितर्दि f 4, वितरदी f 5,  
 अटी सूत्र-संघात, शुद्ध, कूर्च m 1,  
 सूत्रपोदलिका f 2,  
 अटोरन आवायन n 1,  
 अठोतरसां अष्टोत्तर शत n 1,  
 अट्टा वास यष्टि, संडीन यष्टि f 4, नीड  
 m 1, n 1, वासस्थान n 1,  
 अट्ट see अटक, (2) निर्वन्ध, अ m 1  
 आग्रह m 2,  
 अट्टना see अटकना,  
 अट्टाना see अटकाना,  
 अट्टियल स्वैरिन् a 11; अविनेय, दुर्दम  
 a 1, निर्वन्धवत् a 16,  
 अट्टोसपट्टोस प्रतिवेशिता प्रतिवासिता,  
 समीर्यता f 2,

अडंगवडंग. अनर्थकम्, अयाधार्यम्,  
 असंबद्धम् adv,  
 अद्वाइ सार्द्धम् n 1,  
 अद्यु अद्यु a 6, सूक्ष्म, अत्यल्प a , 1  
 अण्ड n 1, कोष m 2, पेशि f 4,  
 (—देना=अण्ड मोक्षणं कृ 8 u,  
 अण्डानि सू 2 p,  
 अण्डज अण्डज a 1, अण्डजन्मन्  
 a 11, अण्डोत्पत्तिम् a 9, पक्षिन्  
 m 11, मत्स्य m 1, सर्प m 2,  
 अत अति ind, बहु a 6, भूरि a 5,  
 प्रचुर a 2,  
 अतएव अतएव, अस्मादेतोः, इति हो  
 तोः, तत् ind,  
 अतन (नु) अकाय m 1, अशरीर m 2  
 मदन, काम m 1, मैथुनेच्छा f 2,  
 अतल्ल रसातल, पाताल n 1,  
 अतल्लस चीनांशुक n 1, सौय m 2,  
 कौश, कौशेय m 1, दुकूल n 1,  
 अतसी अतसी f 5, शय m 1,  
 अताई गायक m 1, ( स्त्री=गायिका  
 f 2. ) गन्धर्व m 2,  
 अतालीक अध्यापक m 1, ( स्त्री=  
 अध्यापिका f 2. ) शिक्षक, आचार्य  
 m 2, गुरु m 9,  
 अतार रसविकेत् m 11, औषधविक-  
 तिन् m 31. भेषजकार m 2,  
 अति अति, अत्यन्तम्, प्राचुर्येण, भूरि-

तया ind,  
 अतिधि अतिधि m 4, यात्रिक m 2  
 प्राचुर्यिक, आवेशक, आगन्तुक,  
 अभ्यागत m 1, and a 1,  
 अतिरिक्त अतिरिक्तम्, विनाशक, विहाय  
 अन्तरा, अन्तरेण कृते ind,  
 अतिशय अतिशय m 1, आधिक्य n 1  
 अतिसार अतिसार m 2, विरेचन रोग  
 m 2,  
 अतीत अतीत, गत, भूत, व्यतीत a 1,  
 (२) अभ्यागत m 1, अतिधि  
 m 4,  
 अतुलित अपरिमित, अमित, अतुल्य,  
 अतुलित a 1,  
 अतोल्ल अपरिमित, अविचारित, अगणित  
 अपरिच्छिन्य a 1,  
 अत्यन्त अत्यन्तम्, अति ind, (२)  
 अत्यन्त, भूयिष्ठ, प्रतुरंतम, a 1,  
 अत्यल्प अद्यु, a 6. सूक्ष्मतम, अल्पतम  
 अल्पून्, अत्यल्प, a 1,  
 अत्याचार अतिक्रम, अत्याचार m 2,  
 च्युति f 4, भ्रंश, अन्वाय m 1,  
 विचलन n 1,  
 अग्नि अग्नि m 5,  
 अथ अथ, अनन्तरम्, पश्चात् ind (2)  
 अधुना ind,  
 अथवा अपवा, वा, किंवा ind,  
 अथर्वेण अथर्वन् m 22, अथर्व m 2,

अथाह अगाध a 1, गम्भीर, गभीर a 2.  
 अद् अर्द्ध a 1,  
 अद्द संख्या f गणना f 2, (२)  
 संख्यक a 1,  
 अद्ना निकृष्ट, नीच, अधम a 1, कातर  
 a 2,  
 अद्व आदर m 2, मान, सौजन्य n 1,  
 (—करना=मन् c.)  
 अद्दरक आर्द्रक, शृङ्गवेर n 2, गुल्म-  
 मूल n 1,  
 अदल्लवदल्ल परिवर्तन n 1, परिवृत्ति  
 f 4, (—करना=परिवृत् c.)  
 (—होना=परिवृत् 1 a, परिवृत्ति  
 प्राप् 5 p.)  
 अंदा करना अर्प् with सम् 10 p,  
 अपा कृ 8 u, मूल्यं दा 3 p,  
 अदावत वैर n 2, शत्रुता f 2, स्पर्धा  
 f 2, (—करना or रखना=स्पर्ध  
 1 a, शत्रुतां आचर् 1 p,  
 अदृश्य अगोचर a 2, अलक्ष्य, गुप्त  
 मद्रश्य a 1,  
 अन्दी पणान्य भाग m 1, कपर्दिकाष्टक  
 n 1,  
 अद्भुत अपूर्व, अद्भुत पूर्व, विचित्र, आ-  
 अर्थ a 2, अद्भुत a 1,  
 अद्वितीय एक pro,num 1, एकाकिन्  
 a 11 अनुपम, अनुपम a 1,  
 अद्भैत अद्भैत n 1, एकता f 2 शङ्करमत

n 1, वेदान्त सिद्धान्त m 1,  
 (—वादी=एकता वादिन्, अद्भैतवा-  
 दिन्, शङ्करमतसुयायिन् अध्यात्म  
 वादिन् a 11,  
 अध अर्द्ध a 1, (—कचरा=अर्द्धपक,  
 अपक, अपारिपक a 1),  
 अधम अधम, नीच, निकृष्ट, a 1, कातर  
 a 2,  
 अधर ओष्ठ m 1, अधर n 2, रदनधद्  
 दन्तधद् m 20, दन्तयासस् n 15  
 अधर्म अधर्म, दोष m 2, पाप, अकृत्य  
 कुकृत्य n 1,  
 अधर्मी पापिन् a 11, पापाचार a 2,  
 दोष भाज् a 12, पाप a 1,  
 अधर्मिन् a 11,  
 अधवाङ् अर्द्धभाग m 1, अर्द्धमान n 1  
 अधार आधार, आश्रय m 2, अधिकरण  
 n 1,  
 अधार्मिक अधार्मिक, पापाचार a 2,  
 धर्म रहित a 1, पापिन्, अधर्मिन्  
 a 11,  
 अधिक अधिक, उत्कृष्ट उत्तम a 1,  
 विशेष a 2,  
 अधिकता विशेषता, अधिकता, उत्कृष्ट  
 ता, उत्तमता, f 2, आधिक्य n 1,  
 विशेष m 2,  
 अधिकार अधिकार m 2, स्वत्व, स्वाम्य  
 प्रभुत्व n 1,

अधिकारी स्वामिन्, अधिकारिन् a 11,  
 (२) शासक m 1, (स्त्री-शासिका)  
 प्रबन्ध कर्तृ m 11, (स्त्री=प्रबन्ध-  
 करी) अधिकृत a 1,  
 अधिमास अधिकमास, मालिन्मुचमास  
 अधिमास, वृद्धिमास m 1,  
 अधिराज महाराज, राजाधिराज m 1,  
 राजराजेश्वर m 2, (स्त्री=राजराजे-  
 श्वरी f 6,  
 अधिदेशन संस्थान, अधिवेशन, सम्मेलन  
 n 1, संयोग, संगम m 1,  
 अधिष्ठाता प्रधान, मुख्य a 1, अध्याप-  
 मिन् a 11, अधिपति m 4, अधि-  
 ष्ठातृ m 11, (—स्त्री=अधिष्ठात्री)  
 f 6) अप्यह a 2,  
 अधीन आश्रित, वशाभूत, अधीन a 1,  
 वशावर्तिन्, आज्ञाकारिन् a 11.  
 अधीर a 2, धैर्य रहित a 1, साहसिन्  
 क्षिप्रकारिन् असन्तोषिन् a 11,  
 अधुना अधुना, संप्रति, सांप्रतम्, इदानीम्  
 ind,  
 अधूरा अर्द्धसिद्ध, असंपन्न, अपूर्ण a 1,  
 अधेङ् मध्यमवयस्क, गत यौवन a 1,  
 अधेला पणार्द्ध भाग m 1, पणार्द्धकं  
 n 1, पणार्द्धमुद्रा f 1,  
 अधैर्य अधैर्य n 2, धैर्यच्युति f 4,  
 अधीरता f 2, धैर्य राहित्य n 1,  
 अधोमुख अधोमुख, नत मुख, नमी मूत,

नत शिरस्क a 1,  
 अधोङ्गी स्थूल चर्मन्, n 13,  
 अध्ययन अध्ययन, पठन n 1, अध्यास  
 m 1, (—करना=अधी 2 a,  
 पृ 1 p, अभ्यास 4 p.)  
 अध्यक्ष see, अधिष्ठाता, स्वामिन् a 11  
 अध्यापक अध्यापक शिक्षक, पाठक m 1  
 अध्यापन अध्यापन, पाठन, शिक्षण, n 1  
 शिक्षा f 1,  
 अध्याय अध्याय, खण्ड, परिच्छेद m 1  
 सर्ग m 2, प्रकरण n 1,  
 अन् निषेधवाचकोऽव्ययः यथा—न अश्व  
 इति अनश्वः  
 अनकारीष शांभ्र, त्वरितं, ऋडिति, सं  
 पदि, अचिरेण ind,  
 अनखाना (अमक्षण, अनशन, n 1,  
 उपवास, m 1, अनाहार m 2,  
 (२) कुप 4 p, क्रुद्ध a भू 1 p,  
 अनघङ् अशिक्षित, अपठित, अपठित,  
 a 1, अरचित a 1,  
 अनाग्निन्त असंख्य, अगाणित, असंख्यात,  
 गणनातीत a 1,  
 अनजान अज्ञात, अपरिचित, अनभिज्ञ  
 a 1, मूर्ख a 2, अज्ञानिन् a 11,  
 अनदेखा अनीक्षित, अनालोचित, अवि-  
 चारित, अदृष्ट a 1,  
 अनन्त अन्त रहित, असीम, अनन्त,  
 a 1,



अनपढ़ा अशिचित, अपठित, a 1,  
 अनवन विसंवाद, मत भेद, विरोध m 1,  
 (—करना=विसंवाद, 1 p, (—होना-  
 विभिद् passive व मत भेदो भू  
 1 p,)  
 अनविन्धा अविद्ध, अद्विज, अचत a 1,  
 अनव्याह्रा अविवाहित, a 1, कुमार  
 m 2, (स्त्री-कुमारी f 6, अतृद  
 a 1,  
 अनमेल विषमता, प्रति कूलता, f 2,  
 विरोध m 1,  
 अनमोज अमूल्य, बहु मूल्य a 1,  
 महार्थ a 2,  
 अनर्थ अन्याय, अनर्थ m 1, अनीति  
 f 4, (—करना=अत्याचर् 1 p,  
 अन्यायेनवर् 1 a,  
 अनल अनल m 1, वहि, अग्नि m 4  
 अनसमभक्त अतृद, मतिहीन a 1, नि-  
 र्बुद्धि a 4, मूर्ख a 2,  
 अनहित अहित, n 1, अशीति f 4,  
 अनहोनी असम्भव a 1, असंभाव्यता  
 f 2,  
 अनाज अन्न, धान्य, n 1,  
 अनाड़ी मूढ़, आमीष, अशिचित a 1,  
 मूर्ख a 2,  
 अनाथ अनाथ, असहाय, a 1, अतृति  
 a 4, निराश्रय a 2,  
 अनादर अपमान n 1, अनादर, ति-

रस्कार m 2, (—करना=तिरस् कृ  
 8 u, अपमन् 4 a, न अनुबध्  
 4 a,  
 अनादि आदि रहित, नित्य a 1, सनातन  
 m 1, n 1, स्त्री=सनातनी),  
 अनापास अनापास, अयत्न, सुगम, m 1  
 सुख n 1,  
 अनार दाडिम m 1, n 1, (tree  
 फरक m 2, दाडिम, डालिम m 1  
 अनित्य अनित्य, क्षणिक a 1, नाशवत्  
 a 16, नश्वर a 2,  
 अनीति अन्याय, अनर्थ, m 1, अनीति  
 f 4, असम्भ्यता f 2,  
 अनुकम्पा दया, कृपा, अनुकम्पा, f 2,  
 अनुग्रह m 2,  
 अनुकूल अनुकूल, a 1, अनुकूलम्  
 adv, अनुसारम्, adv, अनुसार  
 a 2,  
 अनुग्रह see अनुकम्पा,  
 अनुचर अनुचर, फिकर m 2, सेवक,  
 श्लय, दास m 1, अनुगामिन् अनु-  
 सारिन्, अनुयायिन् a 11,  
 अनुचित अनुचित, अयोग्य, अयुक्तव  
 अनुपपन्न, a 1, अनर्ह a 2,  
 अयुक्तम्, अनुचितम् adv,  
 अनुपम अनुपम, अनुल्य, अद्वितीय a 1  
 अनुपान अगदवाहन, औषध प्रवहण,  
 अनुपान n 1,

अनुमान अनुमान n 1, तर्क, विचार  
m 2, अनुमा f 2, अनुमिति f 4  
(—करना=अनुमा 3 p, विचर् c  
तर्क 1 a,

अनुमोदन अनुमोदन, समर्थन n 1,  
प्रशंसा f 2, सहमवित्त n 1,  
(—करना=अनुमुद् 1 a, समर्थ  
10 p, प्रशंस् 6 p),

अनुराग अनुराग m 2, स्नेह m 1,  
प्रेमन् m 23, प्रीति f 4,

अनुरोध अनुरोध m 1, आज्ञा पालन  
n 1, (—करना=अनुरुध 4 a)  
with acc),

अनुवाद अनुवाद, विपरिणाम m 1,  
विपरिणमन n 1, (—करना=विप-  
रिणम् 1 p, भाषान्तरं प्राप् c,  
अनुपद् 1 p),

अनुशासक शासक, अधिप, न्यायाधीश,  
m 1, प्रबन्धकर्तृ, अधिष्ठातृ m 11

अनुशासन, अनुशासन, आज्ञापन, n 1  
आज्ञा f 2, शिक्षा f 1, (—करना-  
शाम् 2 p, आज्ञा c),

अनुष्ठान सम्पादन, करण, अनुष्ठान,  
धार्मिक कृत्य, p 1, कार्य, कर्तव्य,  
a 2,

अनुसन्धान अनुसंधान, अवेक्षण, निरू-  
पण, विचारण n 1, विमर्श m 1,  
(—करना=अव+रिञ्च 1 a, निरूप

10, विचर् c, अनुसंधा 3 p,  
अनुसार अनुकूल, अभिमत, सद्भा,  
मनोस a 1, प्रिय a 2, अनुकूलम्,  
अनुसारम् adv,

अनूठा अपूर्व, विचिन a 2, अद्भुत a 1  
असाधारण a 1,

अनूप अनुपम, श्रेष्ठ, उत्तम a 1,  
अनेक अनेक, a 1, बहु a 6 कतिचित्  
ind,

अनोखा असाधारण, अद्भुत a 1,  
अपूर्व a 2,

अन्त सीमन् m 23, सीमा f 2, समा-  
प्ति f 4, अन्त m 1,

अन्त काल अन्तकाल, मृत्यु समय,  
प्रयाणकाल, अन्त समय m 1,

अन्तःकरण अन्तःकरण, चित्त n 1,  
अन्तरीन्द्रिय n 2, मन् 5,

अन्तःपुर माहिषीगृह, अन्तःपुर n 1,  
राजपत्नीवास m 1,

अन्तर्ही अन्त्र n 2, used in pl,  
(जठर, उदर n 2), नाडी f 5,

अन्तर n 2, अन्तराल, व्यवधान n 1,  
(२) विशेष m 2, (३) अन्त्यन्तर  
n 2, मध्य n 1,

अन्तरङ्ग सम्बन्धिन् m 31, मित्र n 2  
सहृद् m 20, (—सभा=मित्र  
मण्डली f 5, पूनकारिणी सामेति  
f 4,

अन्तरा गदिपाद m 1, यति f 4,  
 अन्तरिक अन्तरिक a 2, गुप्त a 1,  
 अन्तरिक्ष आकाश, स, गगन n 1,  
 अन्तरिक्ष n 2,  
 अन्तरीप भूशिरस् n 15, अन्तरीप n 2  
 m 2,  
 अन्तर्यामी अन्तर्यामिन्, सादिन्, a 11,  
 अन्तर्गत a 1,  
 अन्तरध्यान अदृश्य a 1, अनाविर्भाव,  
 अप्रादुर्भाव m 1, अलक्ष्य a 1,  
 अन्तरपट आवरण, व्यवधान n 1,  
 तिरस्करणी f 5, ज्वानिका f 2,  
 अन्तिम अन्तिम, चरम, अन्य a 1,  
 शेष m 2,  
 अन्ध (न्धा) नेत्र रहित a 1, प्रज्ञानेत्र  
 a 2, प्रज्ञाचक्षुस् a like आशिस्  
 22 if fem. or mas.  
 and if neuter like 17,  
 धनुस्, अन्ध a 1,  
 अन्धियारा अन्धकार m 2, तमस्,  
 अन्धतमस् n 15,  
 अन्धेर अन्याय m 1, अनीति f 4,  
 (२) वात्या f 2,  
 अन्धेरा अन्धकार m 2, ध्वान्त n 1,  
 तमिस्र, तिमिर n 2, तमस्, अन्ध-  
 तमस् n 15,  
 अन्धेरी कोठरी तमोद्दृष्ट  
 प्रथम m 2,

अन्न अन्न, धान्य, भोज्य, भोजन n 1,  
 भक्ष्य n 2,  
 अन्नकूट अन्न, प्राचुर्य n 2, अन्नाधिक्य  
 n 1,  
 अन्नजल अन्नजल, वार्यज n 1,  
 अन्न प्रासन अन्न प्राशन n 1, अन्न  
 संस्कार m 2,  
 अन्न पूर्णा अन्न पूर्णा f 2, अन्नाधिष्ठात्री  
 f 6,  
 अन्ना धात्री पति m 4,  
 अन्नो धात्री f 6,  
 अन्य अन्य pro 2, अपर, इतर द्वितीया  
 pro 3, अपरिचित a 1,  
 अन्यत्र, अन्यस्मिन् स्थाने अन्यत्र ind,  
 अन्यथा अन्यथा, अन्येन प्रकारेण प्र  
 कान्तरेण ind,  
 अन्याय अन्याय m 1, अनीति f 4  
 अनर्थ m 1, अधर्म m 2,  
 अन्यायी अन्यायिन्, अन्यायकारिन्  
 a 11, अनीतिमत् a 9,  
 अन्वय अन्वय, सम्बन्ध m 1, पदयोजन  
 f 2,  
 अन्वेषण अन्वेषण, मार्गण, अनुसन्धा  
 निरूपण n 1, (— करना=अन्वि  
 4 p, मृग् 10 u, निरूप् 10 u  
 अथ अथ, अथो, अन्तरम् in com  
 n 15, इन्की  
 1.

अपगति दुर्गति, अपगति f 4, (२)  
 अपमृत्युं m 8,  
 अपजस see अपकीर्ति,  
 अपना स्व, निज, in comp, (अप-  
 नायत=स्वत्व n 1, आत्मता f 2,  
 अपभ्रंश अपभ्रंश m 2, व्याकरण वि-  
 रुद्ध a 1, देशभाषण n 1,  
 अपमान, अवमान n 1, तिरस्कार,  
 अनादर m 2, (—करना=अवमन्  
 4 a, तिरस्कृ 8 u),  
 अपरिमित अपरिमित, अगणित, प्रमाण  
 रहित a 1, अप्रमेय a 2, असंख्य  
 a 1,  
 अपरम्पार अनन्त, असीम a 1. अपार  
 a 2,  
 अपराध m 1, दोष m 2, पाप n 1,  
 अपराधी अपराधिन्, पापिन् a 11,  
 अपरिचित अज्ञात, अदृष्ट, अपरिचित  
 a 1, अदृष्टपूर्व a 2,  
 अपवित्र अशुद्ध, मालिन, अनिर्मल a 1,  
 अपवित्र a 2,  
 अपवित्रता मालिनता, अपवित्रता f 2,  
 अशुद्धि f 4, मालिन्य n 1,  
 अपसव्य सव्येतर n 2, अपसव्य n 1,  
 अदक्षिण पार्श्व n 1,  
 अप्सरा अप्सरस् f 24, स्वर्गात्मिका f 2,  
 देवात्मिका f 2, नाकस्त्री f 8,  
 अपार असीम, अनन्त, अगणित, असंख्य  
 a 1,

अपील पुनर्विचार-प्रार्थना f 2, (2)  
 याचना f 2, (—करना=पुनर्विचारं  
 प्रार्थ 10 p, (2) याच् 1 a,  
 अपूर्व अपूर्व a 2, अद्भुत, नवीन,  
 अतुल्य, अदृष्ट, a 1,  
 अपेक्षा आशा, तुलना f 2, अपेक्षा f 1  
 (2) आशांसा, प्रत्याशा, प्रतीक्षा f 2  
 अप्रमाण अप्रमाण, प्रमाण रहित a 1,  
 (2) अस्वीकार m 2, (—करना=  
 अस्वीकृ 8 u, नो प्रमाण c),  
 अफरना v, i, शिव 1 p, प्र-उत् रक्षा  
 1 a, उन्-मृप् 1 p,  
 अप्कीम अहिफेन n 1,  
 अध अधुना, सम्प्रति, सांबतम्, इदानीम्,  
 ind.  
 अधभूत जीवन्मुक्त a 1,  
 अध तक अद्यावधि अद्यावन्, अधुना  
 पर्यन्तम् ind,  
 अवरक अभ्रक n 2,  
 अवरा तुला पटं n 1, नृलिकावस्त्र n 2  
 अवरुं f 11,  
 अवतर कृतित, दूषित, दुर्ललित a 1,  
 अवला अवला f 2, स्त्री f 8, मूढमात्री  
 f 5,  
 अवलक विहित a 1, कर्पुर a 2,  
 अवर मेष, वारिवाह, जलद m 1, अभ्र  
 n 2,  
 अवाक मौनम्, नृणांम्, ind, मूक a 1,  
 अवाच् m, f, like वाच,

अविद्या अविद्या, मूर्खता, मन्द मतिता,  
 अज्ञानिता f 2, अज्ञान n 1,  
 अघोर विलम्ब अतिकाल m 1,  
 अयोध मूर्ख a 2, अयुद्ध a 1, (2)  
 मूर्खता f 2, अज्ञान n 1,  
 अभय अभय n 1, अभीति f 4, (2)  
 निर्भय, अभय भय रहित a 1,  
 अभरण आभरण, भूषण n 1, अलङ्कार  
 m 2,  
 अभाग अभाम्य, मन्द भाम्य, दुर्दैव n 1,  
 दैव पूतिकूलता f 2,  
 अभाव अभाव, नारा m 1, असत्ता f 2  
 अभिनय अभिनय m 1, नाटक-कांडा  
 f 2,  
 अभिप्राय आशय, अर्थ, m 1, अभि-  
 प्राय m 2, तात्पर्य n 2,  
 अभिमान मद, प्रमाद m 1, अहङ्कार,  
 गर्व m 2, अभिमान n 1,  
 अभिमानो मत्त a 1, प्रमादिन्, अभि-  
 मानिन् a 11, सैगर्व, साहङ्कार a 2  
 अभियोग अभियोग m 1,  
 अभिलाषा इच्छा, कामना f 2, अभि-  
 लाषा, स्पृहा f 1,  
 अभिलाषी अभिलाषिन् a 11, इच्छावत्  
 a 16, स्पृहालु a 6,  
 अभिप्रेक सिञ्चन, राजतिलक-स्नान n 1  
 राव्याभिप्रेक, अभिप्रेक m 2,  
 अभी अधुनेव, सपदि, सद्यः, आदिनेव  
 काले ind.

अभीष्ट इच्छित, वाञ्छित, इष्ट, अभीष्ट,  
 a 1, (2) स्वीकृत a 1,  
 अभूषण see आभरण  
 अभ्यास अभ्यास m 1, आवृत्ति, नित्य-  
 वृत्ति f 4, अनुशीलन, नित्यानुष्ठान  
 n 1, (--कर्ना=अभ्यास 4 p,  
 आ-वृत् c, ),  
 अभ्यासी अभ्यासिन् a 11, अनुशीलन-  
 वत्, अभ्यासवत् a 16,  
 अभ्यागत अतिथि m 4, प्राणुषिक m 1  
 अभ्यागत a f m 1,  
 अभ्रक अभ्रक n 1,  
 अमङ्गल अशुभ, अमङ्गल n 1,  
 अमचूर आम्रचूर्ण n 1,  
 अमर अमरं a 2, अपर्य a 1, मरण  
 रहित a 1, नित्य स्थायिन् a 11,  
 अधिनाशिन a 11,  
 अमरुद् अमरुत्, कर्पाट फल n 1,  
 अमल निर्मल, शुद्ध, a 1, पवित्र a 2,  
 (2) मादक द्रव्य n 2, मद कारक  
 n 1, (--करना=आचर 1 p,  
 अनु-स्था (ति-द्) 1 p),  
 अमलदारी राज्य, आधिपत्य, स्वाम्य  
 n 1,  
 अमानत न्यास m 1, निक्षेप m 2,  
 (--रखना=न्यस 4 p, निक्षिप् 6p  
 अमावस्या अमावस्या, अमावास्या f 1,  
 कृष्णपक्षान्तिमवासर m 2,

अमित अलंघ्य, अलंघनीय a 1, अवश्यं-  
 भाविन् a 11,  
 अमित अमित, अपरिमित, असंख्य a 1,  
 अमुक अमुक, a 1, एक num I,  
 अमूल्य उत्तम a 1, महार्थ a 2, श्रेष्ठ,  
 अमूल्य a 1,  
 अमृत अमृत n 1, पीयूष n 2, सुभा  
 f 2,  
 अम्ब आम्र m 2, (if a fruit)  
 आम्र n 2,  
 अम्बर अम्बर n 2, आकाश n 1, (2)  
 वस n 2,  
 अम्बारी शिविका f 2, याप्ययान n 1,  
 अम्बत अम्बत, कर्पाट कस n 1,  
 अय अयि ? हे, भो: ? ind,  
 अयन अयन n 1, सूर्य गति f 4, मार्ग  
 m 2, गति f 4, (—दक्षिणायन  
 n 1, and उत्तरायण n 1),  
 अयाना शिशु m 8. बालक m 1,  
 अपक्व बुद्धि a 4, or m 4,  
 अयुत अयुत n 1, दश सहस्राणि n 2,  
 (in pl.),  
 अयोग्य अयुक्त, अनुचित, मयोग्य a 1,  
 अयोग्यता, अयुक्तता, अक्षमता f 2,  
 अनौचित्य, असामर्थ्य n 1,  
 अयोध्या अयोध्या f 2, साकेत n 1,  
 अरक रस m 1, सार m 2, तत्व n 1,  
 अरज आयाम, परिणाह m 1,

अरज अभ्यर्चना, प्रार्थना, याचना f 2,  
 विशिष्टि f 4, निवेदन n 1,  
 (—करना=अभ्यर्घ्, प्रार्थ् 10,  
 याच् 1 A ), (2) आयाम m 1,  
 विशालता f 2, विस्तृति f 4.  
 परिणाह m 1,  
 अरज्जी प्रार्थना-पत्र, स्मारक पत्र n 2,  
 अभ्यर्चना-लेख m 1, or प्रार्थना  
 अभ्यर्चना f 2, अनिवेदन n 1,  
 अरणा अरुण महिष m 2, वन महिष  
 m 2,  
 अरणि अग्नि-यंत्र m 2, अरणि m 4,  
 अर्धी अर्थिन् a 11. याचक m 1, भिडु  
 m 1, (अर्थ=अभिप्राय m 2),  
 अरदली आनुपन्निक m 1, अनुचर,  
 परिचर m 2.  
 अरदास अर्पण, निर्वपण n 1, उपायन  
 n 1, उपहार m 2, बलि m 4,  
 (—करना=अर्च, अर्पयति) उपहारी  
 कृ 8 u,  
 अरब हण देश m 1,  
 अरब अर्बुद n 1, शत कोटि m 4,  
 अरविन्द कमल, कुमुद, अरविन्द n 1,  
 अरवी हण देशीय a 1, (2) हणभाषा  
 f 1,  
 अराधना आराधना, सेवा, पूजा f 2,  
 (—करना=आराध् 10 u, पूज्  
 10 p,  
 अरि अरि m 5, अराति m 4 शत्रु

अरिष्ट अरिष्ट n 1, रोग, असाध्य-रोग  
 m 2, दुःख n 1,  
 अरी अर्थ ? ind,  
 अरुचि अरुचि f 4, अनिच्छा f 2, (2)  
 जठर रोग m 2, उदर व्याधि m 4  
 अरुण अरुण m 1, रक्तता f 2, रक्त  
 प्रभा f 1, रक्तान्धकार m 9,  
 अरोगी रोग-रहित, नरिज, स्वस्थ, प्रकृति-  
 स्थ a 1, अरोगिन् a 11,  
 अरुण्ड एरण्ड m 1,  
 अर्क अर्क, सूर्य, मित्र m 2, (2) see  
 अरक,  
 अर्घ पूजा-जल n 1, अर्घ m 2,  
 अर्घा अर्घ-दान n 2,  
 अर्चना अर्चना, पूजा, सेवा f 2, शुष्पा  
 f 2,  
 अर्जु=परिणाह, आयाम m 1,  
 अर्जुन अर्जुन m 1, गाण्डीविन् m 31  
 अर्थ अर्थ. m 1, अभिप्राय m 2,  
 आशय m 1, प्रयोजन n 1,  
 अर्थोत् वस्तुतः तत्त्वतः; अर्थोत् ind,  
 अर्द्ध अर्द्ध, a 1, अर्द्धभाग m 1,  
 अर्द्धाङ्ग अर्द्धगात्र n 2, (2) पक्षावात  
 m 1,  
 अर्पण दान, समर्पण, अर्पण, उपायन  
 n 1, (—करना=समर्प 10 p.  
 उपायनी कृ 8 u, दा 3 p,  
 अर्षाटा उर्षाव m 2, दीर्घनाद् m 1,  
 अलकाव पदवा f 5, उपाधि f 4,

अलकावलि चूर्ण कुन्तल, अलक n 1,  
 अलक्षण अपलक्षण; अपशकुन n 1,  
 अशुभ a 1,  
 अलक्ष्य } अलक्ष्य, अगोचर, अतीन्द्रिय  
 अलख } a 2, अदृश्य a 1,  
 अलग भिन्न a 1, पृथक् adv,  
 अलंकार भूषण, आभूषण, आभरण n1  
 अलंकार m 2,  
 अलंकृत भूषित, शोभित, अलंकृत a 1,  
 शोभायत् a 16.  
 अलवृत्ता वृत्तम्, असंशयम्, ind, (2)  
 परन्तु, किन्तु ind,  
 अलभ्य दुर्लभ, अप्राप्य, दुष्प्राय अलभ्य  
 a 1,  
 अलहृदा भिन्न; विलक्षण, पृथक्कृत a1  
 (2) पृथक् adv,  
 अलसी उमा, लुमा f 2, अलसी f 5  
 (2) अलसी वंज n 1,  
 अलान आलान n 1, गजबन्ध-गुण  
 m 1,  
 अलावा विना ind, अतिरिक्तम् ind,  
 अलाप आलाप m 1, गानस्वर m 2,  
 अलि अलि m 4, अमर m 2, मधु-  
 मारिका f 2,  
 अलीला रोगिन् a 11, व्याधि प्रस्त,  
 अस्वस्थ a 1,  
 अलोना अलंघण, लघणहीन, असंघन  
 a 1, अस्वाद a 6,

अलौकिक लोक विरुद्ध a 1, अदृष्ट पूर्व  
 शपूर्व a 2,  
 अल्प अल्प, स्तोक a मप्रचुर a 2,  
 लघु, अवहु a 6,  
 अदृष्ट यौवनोन्मत्त, अशिमित a 1,  
 निर्वृद्धि a 4,  
 अह्लाह परमात्मन m 23, ईश्वर, पर-  
 मेश्वर m 2,  
 अवकाश अवकारा, समय, रिक्त समय  
 m 1, अवसर m 2, कार्यनिवृत्ति  
 f 4, (—मिलना=सावकारा a ५  
 1 p.)  
 अवगुण अपशुण m 1, दुर्व्यसन, दुरा-  
 चरण n 1,  
 अवज्ञा अवज्ञा f 2, अपमान n 1,  
 अनादर m 2, (—करना=अव-ज्ञा  
 9 u, अनादर कृ 8 u),  
 अवतार अवतरण, जन्म धारण n 1,  
 आविर्भाव m 1, अवतार m 2,  
 (—सेना=आविर्भू 1 p, अवतर-  
 1 p),  
 अवध भारत-पश्चिमोत्तर-प्रान्त, अवधदेश  
 m 1, (2) अयोध्या f 2,  
 अवधि सीमा f 18, इयत्ता f 2,  
 अवधि f 4, अवसान n 1, अन्त  
 m 1,  
 अवयव अङ्ग n 1, अवयव m 1,  
 अवलम्बन आश्रय, आधार m 2, अव-  
 लम्बन, शरण n 1, (—करना=

अवलम्बन् 1 A, आश्रि 1 u, शरण  
 गम् 1 p),  
 अवलोकन दर्शन, निरीक्षण, अवलोकन  
 निरूपण n 1, (—करना=दृष्ट 1 p  
 निरीक्ष 1 A),  
 अवशिष्ट मुक्त, अवशिष्ट, उद्धृत a 1,  
 अवशेष m 2,  
 अवशेष, उद्धृत, शेषभाग m 1, अव-  
 शिष्ट, अधिक a 1,  
 अवश्य अवश्यम्, तत्त्वतः, नूनम्, असं-  
 शयम् ind,  
 अवश्यक आवश्यक, अपरित्याज्य a 1,  
 अपरिहार्य a 2,  
 अवश्यकृता आवश्यकता, अपेक्षा, आकांक्षा  
 f 2,  
 अवसर समय, अवकाश प्रसंग m 1,  
 अवसर m 2,  
 अवस्था अवस्था, दशा f 2, आयुस्  
 n 17,  
 अवसान अवसान n 1, अन्त m 1;  
 समाप्ति f 4,  
 अवाह किंवदन्ती f 5, जन श्रुति f 4,  
 अविनाशी नाश रहित, नित्य a 1,  
 अनश्वर a 2, अविनाशिन a 11,  
 अघेर विलम्ब m 1, काष्ठात्यय m 1,  
 आतिकाल m 1, (—होना=वि-  
 लम्बो-भू 1 p, अतिकालो-जा 4 a,  
 (—करना=विलम्ब 1 A, चिर 1  
 10 p),



अव्यय अव्यय a 1, अनश्वर a 2,  
 अशक्त, असमर्थ, शक्तिहीन, निर्बल a 1,  
 अशरणी स्वर्ण-कनक-मुद्रा f 1, निष्क  
 n 2,  
 अशराफ भद्र, प्रतिष्ठित a 1, सदा-  
 चारिण a 11, साधु a 6, सुशील  
 a 1,  
 अशुद्ध अपवित्र a 2, अशुद्ध, मलिन  
 a 1,  
 अशुभ अमङ्गल, पाप n 1, (2) अहित,  
 अशुभ a 1, अप्रिय a 2,  
 अशान्ति होम, असन्तोष m 2,  
 असन्तुष्टता f 2, भशान्ति f 4,  
 अश्व अश्व m 1, तुरग, तुरंग m 2,  
 अश्वमेध अश्व मेध m 1, अश्व यज्ञ  
 m 1,  
 अश्विनी, अश्विनी f 5, प्रथम नक्षत्र  
 n 2,  
 अधश्चा अविश्वास m 1, भक्तिहीनता,  
 अधश्चा, घृणा, f 2,  
 अपाङ्ग आपाद m 1, तृतीयमास m 1  
 अपाङ्गी गोधू मास, वसन्त लग्नात्त n 1  
 अपघातु धात्वष्टक n 1, (सुवर्ण, रजत,  
 n 1, ताम्र n 2, रीति f 4,  
 कांस्य n 1, लोह m 1, सीसक  
 m or n 1),  
 अप्सिद्धि अष्टसिद्धि f 4, (आषिम्न,  
 लषिम्न, महिम्न, गहिम्न, m 22,

प्राप्ति f 4, आकाङ्क्ष, ईशित्व n 1  
 कामाव सायिता f 2,  
 अष्टांग प्रणाम दण्डवत् प्रणाम, साष्टांग  
 प्रणाम m 1, (—करना=दण्डवत्  
 कृ S u. साष्टांग नम्र l p),  
 असंख्य अगणित, असंख्यात, अनन्त,  
 असंख्य a 1,  
 अस एवम्, इत्थम् ind,  
 असत्य अन्वृत, असत्य n 1, मिथ्या ind  
 असन्तुष्ट सन्तोष रहित, अशान्त, अ-  
 सन्तुष्ट a 1,  
 असन्तोषी सन्तोष रहित, अशान्त,  
 असन्तुष्ट a 1,  
 असभ्य सभानर्ह, अनौर्य a 2, अशिष्ट,  
 अविनति, अयोग्य, असम्प्य a 1,  
 असमर्थ अशक्त, निर्बल, असमर्थ a 1,  
 असम्भव अशक्य, असंभाव्य, असाध्य  
 असंभव a 1,  
 असम्मत अस्वीकृत, अनर्भाष्ट, असम्मत,  
 a 1, अनभिमत a 1,  
 असाध्य चिकित्साऽपाकर्तुमशक्य, अवि-  
 चिकित्स्य, असाध्य a 1,  
 असार निस्तत्व a 1, असार, निःसार  
 a 2,  
 असावधान प्रमत्त, निरवधान, असावधान  
 अमनोयोग a 1, अस्माद्व्यकारि  
 a 11, निस्पेह a 2,  
 अलि अलि m 4, अद्र, करवाल m 1,

असीस आशीर्वादं m 1, आशिनं f 22  
 (—देना=आशिषा संयुज् c, आ-  
 शीर्वादं दा 3 p),  
 असुर m 2, पापाचार a 2, निशाचर  
 m 2, (—स्त्री=निशाचरी f 6,  
 रावस, दैत्य m 1,  
 अखोसिवेशन परिपद् संसद् f 17,  
 समिति f 4, सभा f 2,  
 असौज आशिन मास m 1,  
 अस्त अस्तमन n 1, अस्तमय m 1,  
 अस्त a 1, (—होना=अस्तं गम्  
 1 p),  
 अस्तर अन्तःपटल, आस्तरण, अन्तराच्छा-  
 दन n 1, आस्तर m 2,  
 अस्तव्यस्त असंबद्ध, असंगत, अबद्ध,  
 अयुक्त, अस्तव्यस्त, a 1,  
 अस्थि अस्थि n 5,  
 अस्ती अस्तीति f 4,  
 अहंकार अभिमान n 1, मद, प्रमाद  
 m 1, अहंकार m 2, (—करना=  
 अहंक् 8 u, आभेमन् 4 A),  
 अहंकारी मत्त, साद्येप a 1, सगर्व a 2  
 अहंकारिन्, प्रमादिन्, a 11,  
 अहद प्रतिज्ञा f 2, (—नामा=प्रतिज्ञा  
 पय n 2, प्रतिज्ञा लेख m 1),  
 अहमक मूर्ख a 2, मूढ, जड, मन्द  
 a 1, मन्द बुद्धि a 4,  
 अहमकाना मूर्खता, आह्वेन, मूढवद्,  
 adv,

अर्हनिश नक्तंदिनम् ind, अर्हरान  
 n 2,  
 अहल योग्य a 1 in comp,  
 (—कार=कर्म चारिन् a 11),  
 (—मजलिस=सभ्य a 1, (—शरहा  
 =धर्म प्रवर्तक a 1), (—अहले  
 इल्म=विद्वन् m 28, (स्त्री) विदुषी)  
 अहल्या अहल्या f 2, गीतम पत्नी f 5  
 अह्वान व्यवस्था f 2, वृत्त, वर्खन n 1  
 वृत्तान्त, उदन्त m 1,  
 अहसान उपकार m 2, प्रसाद m 1,  
 कृपा f 1, (—मन्द=कृतज्ञ a 1)  
 (—करना=उपकु 8 u, प्रसादेन  
 अनुग्रह 9 p,  
 अहार आहार m 2, अशन, भोजन  
 n 1, निराहार m 2, उपवास  
 m 1, (—करना=आह 1 p,  
 अग्र 1 a),  
 अहातह परिसर भूमि f 4, प्राकण-  
 न 1,  
 अहि अहि m 4, सर्प m 2, मुंजह,  
 नाग m 1,  
 अहिफेन अहिफेन, अफेन n 1,  
 अहीर गोपाल, गोप m 1, (श्री, गोपी  
 f 5,  
 अहेर आलेट m 1, मृगया f 2,  
 अहो अहो, हीही आश्चर्य ind.  
 आ आगन्ध imp. 2np.

आह्न नियम m 1; धर्म m 2; कार्या-  
 कार्ये विधि f 4, व्यवस्था f 2,  
 न्याय m 1,  
 आर्शिना दर्पण n 1, आदर्श m 1,  
 आंश नेत्र n 2, नयन n 1, यशुम्  
 n 17, अक्षि n 4, (—वचना  
 or बुगना=अलक्षित-निवृत्तं गम्  
 1 p, or अपकम् 1 u, 4 p,  
 or अपस् 1 p. निः शब्दं चल  
 1. p), (—दिलाना=भूमिज्ञेन or  
 कटाक्षेण तर्जं 10 p, निरीष् 1 a),  
 आंगन प्राङ्मण्डप n 1, परिसर भूमि f 4  
 आञ्चल अञ्चल n 1, प्रान्त, वस्तव  
 m 1, दशा f 2,  
 आञ्जना अञ्जनेन नेत्रे रज्ज् c,  
 आन्त अन्य n 2 pl, (अन्वाधि) पुरी-  
 त् f 16 शिरा f 1, अन्तर्नाडी  
 f 5,  
 आंधी वात्या f 2, वाताली f 5, प्र-  
 भञ्जन, जवानिल, कंकावात (with  
 raining), m 1,  
 आंसु अश्रु n 7, नेत्राणु n 6, वाष्प,  
 अक्ष n 2, नेत्रजत्र n 1 (—बहाना  
 =अध्याधि मुच 1 p,  
 आक अर्क m 2,  
 आकर्षण आकर्षण, आवर्जन n 1,  
 अनुकर्ष m 2, (—करना=आ-समा  
 कृप् 1 p, आवृन् 10 p, वि-अ-  
 लुम् c विमुद् c) (—वरने वाला

प्रसोमक m and n 1, (रत्न),  
 प्रलोभिका, आकर्षक, मनोहर a 2)  
 आकधत परिणाम m 1, फल n 1  
 अन्तर्गति f 4,  
 आकांक्षा इच्छा f 2, आकांक्षा, सृष्टि,  
 अपेक्षा f 1,  
 आकार आकार m 2, आकृति, श्रुति  
 f 4,  
 आकाश, आकार, गगन, स n 1,  
 शस्य a 1,  
 आकुल व्याकुल, आकुल, चुम्ब n 1,  
 (—होगा=आकुली भू 1 p, चुम्ब  
 4 p,  
 आक्रमण आक्रमण n 1, आक्रम m 2  
 अवस्कन्द, अभियोग, आपात m 1;  
 (—करना=अभिहु 1 p, आक्रम  
 1 u, and 4 p, आपत् 1 p,  
 अभिप्रया 2 p),  
 आक्षीर अन्त m 1, अन्तिम a 1, चरम  
 a 2,  
 आक्षिरकार अन्ततः, फलतः adv.  
 आक्षेप मृगया f 2, आक्षेप m 1,  
 आच्छादन, मृगय्य n 1,  
 आक्षीर अपस्कर, अवस्कर m 2;  
 आग अग्नि m 4, अन्त, हुताशन m 1  
 वैश्वानर m 2, तनूनपात् m 20,  
 (—बुक्ताना=अग्नि निर्वा c, प्र-उप-  
 शम् c; (—लगना=चुम्ब a मृ  
 1 p (2) अग्निः ज्वल् 1 p),

(—सुखगाना=अग्निष्वा (धम्) 1 p,  
सुखमारुतेन पू. 10 p),

आगत आगत, समागत, उपस्थित a 1,

आगम आगम m 1, शास्त्र n 2,

आगमन समागमन, प्रापण, आगमन n 1

उपरिपति f 4,

आगा सम्पुत्तीन a 1, अग्रभाग, शिरो-

भाग, अग्रदेश m 1 मुख n 1,

(—पीडा=अग्रतः पृष्ठतश्च, सर्वतः,  
पूर्वापरम् ind).

आगाज्ज आरम्भ m 2, (—करना=  
आरम्भ 1 a,

आगामा आगामिन् भाविन् a 11, भवि  
ष्यन् a 10.

आगार स्थान, निवास स्थान n 1, वास  
m 1,

आगाहे परिचित, अभिज्ञ a 1. ज्ञात

a 7 (—करना=सून् 10 p, विज्ञा  
c, परिचय कृ. c),

आगाही सूचना, विज्ञापना f 2, परिचिति  
f 4,

आगे सम्पुत्ते, अग्रे ind ( in loc.  
sing'.

आग्रह बलात्कार, आमह m 2, निर्वन्ध  
m 1, हठ m 1, (—करना=  
निरन्ध 9 p,

आचमन उपस्पर्शन, ईषत्पान, आचमन  
n 1, उपस्पर्शी m 2, (—करना=  
आचम् 1 p, उपस्पृश 6 p, ईषट्-

आचम् 1 p, उपस्पृश 6 p, ईषट्-  
अस्पराः पा 1 p,

आचरण आचरण n 1, आचार, व्यवहार

m 2, (—करना=आचर. 1 p,

कृ 8 u. व्यवहर. 1 p),

आचार see आचरण,

आच्छादन आचरण, अव्युत्थन, पिधान

आच्छादन n 1, (—करना=रथग

10 p, अव्युत्थद् 10 p, प्र-स-आ

छद् 10 p, प्र-सं-आ-वृ 5 p),

आज्ज अद्य ind. वर्तमानदिवसे lcc.

sing. (—कल=एषु दिवसेषु lcc.

pl.), (—आजकल करना=विलम्ब

1 a, कालं लिप् or व्याधिप् 6p,

आजाना आगम् 1p, सहसा आपन् 1p

आज्जम प्रधान, महत्तम a 1, (—वजीर=  
प्रधान सचिव m 1, प्रधान मन्त्रिन

a 11, प्रधानामात्य m 1).

आज्जमाईश परीक्षा f 1, परीक्षण, निरू-

पण n 1 (2) निर्णय, निश्चय m 1

(—करना=परीच् 1a, निरूप 10p

निर्णी 1 p निधि 5 u),

आज्जमुद्दा परीक्षित, निरूपित, निर्णीत,

निश्चित a 1,

अज्जार व्याधि m 4, रोग m 2,

अज्जारी रोगिन् a 11, व्याधित, व्यधि

प्रस्त a 1,

आजिज्ज अनाप, दीन, असहाय a 1,

आजिजी दीनता, नम्रता f 2,  
 आजीविका आजीवन n 1, निर्वाह  
 m 2, प्राण यात्रा f 1, आजीविका  
 f 2,  
 आज्य आज्य, घृत n 1,  
 आज्ञा आदेश m 1, शासन n 1,  
 आज्ञा f 2, (—देना or करना=  
 आदिष् 6 p, आज्ञा c, (माज्ञाप-  
 यति),  
 आटा चूर्ण, पिष्टान्न n 1,  
 अ उ अष्टम् num. 8, (—पहर=अहो  
 रात्र n 2 नक्तदिवस् ind.  
 आठवां अष्टम a 1, (स्त्री) अष्टमी),  
 आड़ रक्षण, नाण, शरण n 1, आश्रय,  
 संश्रय m 2, (—लेना=शरणं or  
 शरणार्थं गम् 1 p, स-आशि I u.  
 (—की आड़ में=सशयः, सपदि, तत्  
 वण मेव, हुतम् ind  
 आहत नियोगि पद n 1, नियोज्यत्व n 1  
 प्रतिहस्तता, प्रतिनिधिता नियोगिता,  
 नियोगिता f 2,  
 आहती नियोगिन् a 11, प्रतिहस्त a 1  
 प्रतिनिधि a 1,  
 आतशक उपदेश m 1, उपदेश रोग  
 m 2,  
 आतिश अग्नि m 4, अनल, हुताशन  
 m 1, (—वाज=अग्नि क्रीडा-  
 सम्पादक m 1, अनल कड़िक a 1  
 (—परस्त=अग्नि पूजक सूर्योपासक

a 1), (—दान=हस्तिका f 2),  
 आतुर व्याकुल, अविश्रान्त, अशान्त a 1  
 आतुर a 2,  
 आत्मा प्राण, जीव m 1, आत्मन् m 23  
 आदत्त अम्पास, स्वभाव m 1, अदृष्टि  
 f 4, (—दुरी=दुर्व्यसन n 1, दुरा-  
 चरण n 1, दुराचार m 2, दुष्प्र-  
 कृति f 4), (—अच्छी=सदाचार  
 m 2, सदाचरण n 1),  
 आदम प्रथम, आदिम a 1, अदि पुरुष  
 m 2, (2) जन m 1,  
 आदमी मनुष्य, नर m 2, जन m 1,  
 आदमीयत मनुष्यता, सम्पत्ता f 2,  
 आदर सम्मान, मान n 1, आदर, सत्कार  
 m 2, (—करना=सं-मन् c. आठ  
 6 p, पूज् 10 p, सत्कृ 8 u,  
 सं भू c),  
 आदि आदिम, प्रथम a 1, (2) आरम्भ  
 m 2, आदि n 5, (—पुरुष=  
 ईश्वर m 2, स्वयम्भू m 32,  
 आदित्य सूर्य m 2, आदित्य m 1,  
 राशि m 5, (—वार=रविवार or  
 रविवार m 2),  
 आदिल न्याय कर्तृ a 7, सत्यात्मन् a 17  
 न्यायिन् a 11, सालिक a 1,  
 आदेश आदेश m 1, आज्ञा f 2,  
 शासन n 1, (2) योगि प्रथमं m 1  
 आद्योपान्त आद्यन्तम्, पूर्वापरम् adv.  
 (2) सर्व pro., 1, समस्त a 1,

आधा अर्द्ध, अर्द्ध-भाग m 1, अर्द्ध  
m, n, 1,  
आधान स्थिति f 4, स्थापन, आधान  
n 1, धारण n 1, (गर्भ—=दोहद,  
गर्भधारण n 1),  
आधार अधिकरण, अवलम्बन n 1,  
आधार, आश्रय m 2,  
आधासीसी अर्द्ध शिरोवेदिना f 2, अर्द्ध-  
शिरोजति f 4,  
आधीन अधीन a 1, वरावर्तिन, आज्ञा-  
कारि a 11,  
आधी रात अर्द्धरात्र n 2, निर्णाय m 1  
आन लज्जा f 2, संकोच m 1, (2)  
समय m 1, (—की आन मे=  
मद्यः, सपदि, दुःखम्, भ्रष्टिति ind.),  
आनन आनन, मुख, मुखमण्डल, वदन,  
आस्य n 1,  
आनन्द आनन्द m 1, हर्ष m 2, मुख  
n 1, प्रसन्नता f 2, (—लेना=  
आनन्दम्-अनुभू 1 p),  
आनरेवन्न प्रतिष्ठित, मानारूपद, माननीय  
a 1,  
आनरेरी अर्धतनिक a 1,  
आना सत्राणक n 1, रूपक षोडशारां  
m 1, (v) आनम् 1 p,  
आनाकनी अस्वीकृति f 4, अर्द्ध f 4  
(2) अपेदेश, व्यपदेश, m 1,  
(—करना=अप or व्यप-दिग् 6 p  
अर्द्धि द्वा c),

आन्दोलन सञ्चोभण, आन्दोलनं, विलोडन  
n 1, प्रचर m 2, वादानुवाद m 1  
(—मचाना or करना=संभव-अ-  
नुभू c, उद्विन् c, विलुङ् c,  
प्रचर् c),  
आप भवत् pro. 4, थापत् a 9,  
(अपने—=स्वयम् ind.),  
आपत्ति, विपत्ति, f 4, आपद्, अपद्  
f 17, दुःखदशा f 2,  
आपदा आपद् f 17, see आपत्ति,  
आपल बन्धुवर्ग, भ्रातृवर्ग m 2, भ्रातृता  
f 2, (—मे=परस्परम्, अन्योन्यम्  
adv.),  
आफ्त see आपत्ति,  
आफ्ताव सूर्य, दिवाकर m 2, रवि m 5  
आफिस कार्यालय m 1,  
आव अर्प f 19, जल n 1, वारि n 3,  
(2) शोभा प्राभा f 2, युति f 4,  
प्रकारा m 1, (—हयात=अमृत n 1  
(—जोश=उष्णोदक n 1, (—ज्=  
सोतोबल n 1), (—दाना=अचोदक  
n 1), (—शीर=क्षारम् n 6),  
(—हवा=जलवायु m 8), (—पारी  
सिम्बन n 1, वारितिक m 4, वृषि  
f 4),  
आवाद समृद्ध, वासिन a 1,  
आवादी समृद्धि f 4, जनजाति m 1,  
आविद् जानिन् a 11, प्र्यान रत a 1,  
जानवत् a 16,

आभरश्च आभरश्च, भूषण n 1, अलं-  
 कार m 2,  
 आभा कान्ति, बुति f 4, आभा, शोभा  
 f 2,  
 आभूषण see आभस्त्र,  
 आभ्र सर्व साधारण a 1, समस्त a 1,  
 सर्वे जन m 1,  
 आभ्र आभ्र m 2, आभ्रकल n 1,  
 सङ्कार m 2, रसाल m 1,  
 आमद्-नी प्राप्ति f 4, आय, लाभ m 1  
 आमद्-रफ्त गमागम m 1,  
 आमने सामने सम्मुखं, अग्रतः adv.,  
 आमला आमलक m, n 1, आमलक  
 वृक्ष m 2, आमलक फल n 1,  
 आमाशय पाक स्थान n 1, आमाराय m 1  
 आमीन तथास्तु, एवम् भवतु adv.,  
 आमेलिश मिश्रण, मेलन n 1, संयोग  
 m 1,  
 आवृत वाक्य n 1, श्लोक m 1,  
 आयंदा आगामिन्, भाविन् a 11,  
 मविच्यत् a 10, अनागत a 1,  
 आयु अवस्था f 2, जीवन n 1,  
 जीवनकाल m 1, आयुस n 17,  
 आयुर्वेद आयुर्वेद m 1, वैद्यक शास्त्र  
 n 2, चिकित्सा शास्त्र n 2,  
 आर लज्जा f 2, (—आनां=लज्ज  
 1 a, लज्जामतु भू 1 p, (2)  
 बंकुरा m 1,  
 आरुर्गन्धा f 2, स्पृहा, आमिसाया

f 1, (—मन्द=अभिलाषिन् a 11  
 स्पृहालु a 6, इच्छावत् a 16),  
 आरती दीप पूजा f 2, पूजा f 2,  
 आरती अत्रुद्य दर्श, यद्गुल्या दर्श m 1  
 आदर्शाभस्त्र n 1,  
 आरा कर पत्र n 2, ककव m 1,  
 (—आ=दासदारण, काकविक m  
 1 or a 1,  
 आराधन पूजा, सेवा f 2, भाक्ति f 4,  
 आराधन, पूजन n 1, (—करना  
 पूज् 10 p, भाक्ति कृ 8 p, सेव  
 1 a, आराध् 10 p,  
 आराम विधाम m 2, सुखानुभव m 1  
 (2) आराम m 2, उपवन n 1,  
 पुष्प वाटिका f 2, वाटिका f 2,  
 प्रमोद स्थान n 1, (—करना=  
 रम् 1 a, सुखमत्तु भू 1 p, विधाम्=  
 4 p, (—कुरसी=सुखासन, विश्रा-  
 भासन n 1, (—गाह=सुख-विधाम  
 स्थान n 1), (—तलव=सुख  
 स्पर्शिन, सुखानु भविन् a 11),  
 आरायश योजन, उपकल्पन, सज्जीकरण  
 n 1, संस्कार m 2, शृङ्गार m 2,  
 (—करना=संस्कृ 8 सज्जीकृ 8 p,  
 शुभ् c, संष्ट 1, 3, u).  
 आरुद्ध आरुद्ध, उपरिस्थित, अधिष्ठित  
 a 1, (—हाना=आरुद्ध 1 p,  
 अधिस्था ( तिङ् ) 1 p, with  
 acc.),

आरोग्य नारोगता, लक्ष्यता f 2, आ-  
 रोग्य n 1,  
 आर्य श्रेष्ठ, कुर्सान a 1, आर्य, भद्र,  
 पवित्र, a 2,  
 आर्यावर्त भारतवर्ष m 2, आर्यावर्त  
 आर्य प्रदेश m 1,  
 आर्यस्य आर्यस्य n 1, अनुयोग m 1,  
 आर्य निवृत्तता f 2,  
 आर्यस्य आर्यस्य, निरुद्ध, अनुयोगशील  
 उदासीन, निरुद्ध a 1,  
 आर्या आर्यस्य m 1, निरुद्ध स्थान n 1,  
 आर्यस्य गुण स्थान n 1,  
 आर्यस्य निरापन n 1, प्रसिद्धिपत्र n 2  
 आर्यस्य m 1, आर्यस्य f 2,  
 (—करना=शुभ 10 p, निरा c,  
 प्रसिद्धि नी 1 p),  
 आर्यस्य विद्वत् a 18, विज्ञानवत्, निरा-  
 वत् a 16,  
 आर्यस्य बुद्धिमत्तया, ज्ञान पूर्वकम्,  
 वि पूर्वकम्, adv.),  
 आर्यस्य श्रेष्ठ, परेण, उत्कृष्ट, विरिष्ट a 1,  
 महत् a 8,  
 आर्यस्य गोलात् m 8, गोलात् फन्द m 1  
 आर्यस्य आर्यस्य, समालोचना f 2  
 आर्यस्य m 2, निरुद्ध, निरुद्ध  
 n 1, (—करना=समा-आर्यस्य  
 10 a, निरुद्ध 1 a, निरुद्ध 10 p,  
 विचार प्रकाश 10 p),  
 आर्यस्य आर्यस्य वीर m 2,

आर्यस्य आर्यस्य, सुख m 2, सुख-  
 गत n 1, सुखस्य f 1, (—करना  
 सुख 8 p, सुख 10 p, सुखस्य  
 आर्यस्य सुखस्य 1 p),  
 आर्यस्य आर्यस्य, अपरिहार्य a 2,  
 अनित्य a 1, आर्यस्य a 1,  
 आर्यस्य मायि a 11,  
 आर्यस्य आर्यस्य आर्यस्य भा-  
 विता f 2,  
 आर्यस्य पाक पुटी f 5, आर्यस्य m 1,  
 आर्यस्य शब्द m 1, रण m 2, आ-  
 र्यस्य न 1, (—करना=आर्यस्य 1 p  
 आर्यस्य 1 a, (2) प्रतिमा 1 a),  
 आर्यस्य पुनर्जन्म n 12,  
 आर्यस्य वृथा प्रमाणस्य, परिग्रहक a 1  
 आर्यस्य a 11, (—करना=आर्यस्य  
 f 2, वृथा n 1),  
 आर्यस्य आर्यस्य, निम्न, आर्यस्य  
 n 1, (—करना=आर्यस्य (हृत्) 1 p  
 आर्यस्य मोहित, लीन, आर्यस्य a 1,  
 (—करना=आर्यस्य 4 p, आर्यस्य a 1,  
 1 p),  
 आर्यस्य अर्थ, आर्यस्य m 1, आर्यस्य  
 m 2, तत्पर्य n 2,  
 आर्यस्य परिचित a 1, मित n 2, वत्  
 m 8,  
 आर्यस्य आर्यस्य, सुख f 2, अपेक्षा f 1,  
 (—करना=आर्यस्य 1 a, अपेक्षा 1 a  
 आर्यस्य 10 p),



आशिक मोहित, आसक्त a 1, (—मशक  
प्रेमियुगल n 1, स्नेहि द्वन्द्व n 1,  
आशिकी शृङ्गार स्नेह m 1, प्रीति f 4,  
आसक्तता f 2, व्यामोह m 1,

आशीर्वाद आशीर्वाद m 1, आशीर्वचन  
n 1, आशिस् f 22; (—देना  
or करना=आशीर्वचन कृ 8 p, आ  
शिषा सयुज c),

आश्चर्य आश्चर्य, अर्प्य, विचित्र a 2,  
अद्भुत, विस्मायक a 1,

आश्रम आश्रमनिवास m 1, आवास m 1  
आश्रम m 2, (2) fourashr-  
mas, ब्रह्मचर्य n 2, गृहस्थ m,  
वानप्रस्थ, सन्यास m 1),

आश्विन आश्विन-मास m 1, षष्ठे मास  
m 1,

आषाढ आषाढ मास, तृतीय मास m 1  
आस आशा f 2,

आसन पीठ, स्थान, उपवेशन धामन n 1  
(2) योग्यास विधि m 4,

आसमान आकाश, गगन, खं n 1,  
आस पास सर्वतः, परितः निकटे ind.

आसान सुगम, सुमाध्य, अयत्न साथ्य a 1  
आसानी सुल n 1, अयत्न, अल्पवस्तु

m 1, अनायास m 1,  
आसामी दोषित; अपराधिन् a 11,

आसक, दण्ड्य a 1,  
आसार लक्षण, चिन्ह n 1,

आसायज विधाम m 2, आमोद,  
प्रमोद m 1, सुख n 1,

आस्तिक ईश्वर वादिन् a 11, आ-  
स्तिक a 1,

आस्तीन वसनभुज m 1, अयुजायुक्तिव  
स्व n 2,

आसूदा अग्निन्, धनशालिन् a 11,  
प्रसन्न, तुष्ट a 1, धनपात्र a 2,

(—हाल=धन शालिन्, सुखिन् all  
आह शोकानिल, उच्छ्वास, निःश्वास

m 1, (—भरना=शोकेनदीर्घ, निः  
श्वस् 2 p, शुच् 1 p, शोकोच्चा-

सान् शुच् 1 p),  
आहट गति ध्वनि m 1, पाद रन्द

m 1,  
आहन अयत् n 15, लोह m 1,

आहा अहो, आश्चर्यम् ind.  
आहार भोजन, अन्न n 1, भक्ष्य a 2,

आहार m 2, (—करना=आह (हर)  
1 p, भक्ष 10 p),

आहिस्ता शनैस्, मन्दमन्दम् adv.  
आहुति आहुति f 4, हवन n 1, होम

m 1, (—हालना or करना=हु  
3 p, (बुहोति),

इकंठ्ठा संगृहीत, एकत्रित, उपानित a 1  
(—करना=उप-अर्जु 10 p, वि

(चय्) 1 p),  
इकतालीस एक चत्वारिंशत् f 16,

इकसीस एक निशत् f 16,  
 इकथात् मान n 1, प्रतार m 1,  
 (—मद=प्रतिष्ठित, मान्य a 1),  
 (—करना=स्वीकृ 8 p, मन् 4 a),  
 इकरार प्रतिज्ञा f 2, संविद् f 17,  
 प्रतिश्रव m 2, नियम m 1,  
 (—करना=आशु (शु) 5 p, अभ्युप  
 गम 1 p, अज्ञीकृ 8 p, प्रतिज्ञा  
 9 p),  
 इकरारी नियम कर्तु a 7, प्रतिज्ञाविशिष्ट  
 स प्रतिज्ञा a 1,  
 इकजोता एक पुत्र, अद्वितीय पुत्र m 2,  
 इकसठ एक पट्टि f 4,  
 इकाई एक num. 1, एकाइ m 1,  
 इका छुद्र घोटक यान n 1, एक रथ  
 m 1, एकाध्व यान n 1,  
 इकीस एक निशति f 4,  
 इक्यावन एक पन्चाशत् f 16,  
 इक्यानध्व एक नवति f 4,  
 इक्यासी. एकाशीति f 4,  
 इक्वाकु इक्वाकु m 8,  
 इक्षतजाफ विरोध m 1, अतमता f 2,  
 इक्षतियार अधिकार m 2, सामर्थ्य n 1  
 अधीनता f 2,  
 इच्छा कांवा, अपेक्षा f 1, इच्छा f 2,  
 (—करना=दध् (च्छ) 3 p, स्पृह  
 10 p),

व्यारत्त m 1, (—करना=बाधत्  
 c),  
 इजलास संसद् f 17, सम्मेलन n 1,  
 राज सभा f 2, न्यायालय m 1,  
 इजुद्दार बर्षण, निवेदन, आख्यान, ज्ञापन  
 n 1, (—देना=प्रतिपद् c),  
 इजाजत प्राप्ता, अनुज्ञा f 2, स्वीकृति  
 f 4, (—देना=अनुज्ञा 9 p, स्वी-  
 कृति प्रकाश c), (—पाना=अनुज्ञा  
 लभु 1 a or प्राप्. 5 p),  
 इजारा व्यापारण n 1, (—दार=कृत  
 संविद् a 12, नियम कर्तु a 7),  
 इज्जत मान n 1, प्रतिष्ठा f 2, प्रताप  
 m 1, (—दार=प्रतिष्ठित, मान्य a 1  
 प्रताप शालिन् a 11),  
 इत उत भत्र तत्र, इतस्ततः ind. :  
 इतना एतावत् a 16, इत् a 16,  
 इतमीनान विश्वास m 1, विश्रान्ति,  
 संतुष्टि f 4, (—होना=विश्वम् 2p  
 इतवार आदित्य-रवि-वार m 2  
 इतायत अधीनता, वश यतिता f 2,  
 आनाकारिन् n 1,  
 इतिहास इतिवृत्त, आख्यान n 1, आ-  
 ख्यायिका f 2, इतिहास m 1,  
 इत्तिफाक अविरोध m 1, ऐक्यता f 2,  
 ऐक्य n 1, (2) आकरिमक घटना  
 f 2,  
 इत्तिफाकिया, अकम्मा:

इत्थम् इत्थम्, एवम्-ind,  
 इत्यादि इत्यादि, एतन्नृति a 4,  
 इदानीम्, इदानीम्, अधुना, संप्रति, सं-  
 प्रतम् ind.  
 इधर इतः अस्मिन् पार्श्वे ind (—उधर  
 इतस्ततः ind.  
 इनकम आय m 1, (—द्वैकसं=रामस्य  
 n 1, कर n 2),  
 इनदिनो एषुदिनेषु Loc. pl.,  
 इनाम पारितोषिक n 1, (—पाना=  
 पारितोषिक लभ 1 a),  
 इनायत कृपा f 1, दया f 2, अनुग्रह  
 m-2, (—करना=अनुग्रह 9 p),  
 इनक्वाय परिवर्तन n 1,  
 इनकार अस्वीकार m 2, प्रतिषेध, नि-  
 षेध-m 1, (—करना=अस्वीकृ 8p  
 निविध 1 p),  
 इच्छ अङ्गल n 1, अङ्गल प्रमाण n 1,  
 or a 1, पणमान n 1,  
 इच्छानियर वस्तुविधावत् a 16, वास्तु  
 विद्याविशारद a 1, यन्त्रकला-कुशल  
 or अभिज्ञ a 1,  
 इच्छील काश्यप्य पुस्तक n 1,  
 इनगोड़ा इष्ट का शकल, सुधा शकल n1.  
 इन्तकाल परिवर्तन n 1, परिष्कृति f 4,  
 (2) मुद्यु m. 8. (—करना=रथा-  
 नान्तरे प्राप्-८, संचर ८), (-चदाना  
 नाम परिवर्तन कृ 8 u, नामान्तरं  
 लित् I p, नाम परिष्कृ ८),

इन्तखाव निर्धारण- n 1. (—करना=  
 निधु 10 p),  
 इन्तजाम प्रबन्ध, विन्यास m 1, संविधा  
 रचना f 2, (—करना=संविधा 3p  
 र्च 10 p, प्रबन्ध कृ. 8 u,  
 इन्तजार. आशा f 2, प्रतीक्षा f 1,  
 (—करना=प्रतीक्ष 1 a),  
 इन्तहा अन्त m 1, समाप्ति f 4, अन्व-  
 सान n 1,  
 इन्द्र सुरेन्द्र, इन्द्र, महेन्द्र m 2, देवराज,  
 पाक शासन m 1,  
 इन्द्रजाल छद्मन् n 12, छल, इन्द्रजाल  
 n 1, कपटक्रीडा f 2, वञ्चन कृति  
 f 4,  
 इन्द्राणी इन्द्राणी, शची, इन्द्र पत्नी f 5,  
 इन्द्री इन्द्रिय n 2, गो m 12, कार्य-  
 साधक शरीर भाग m 1,  
 इन्साफ न्याय, निर्णय m 1, (—करना=  
 न्याय माचर् 1 p, न्यायन वर्त् 1a  
 इन्है एतान् or तान् acc. pl.,  
 इवराणी (यहूदी) (इण=भाषा f 1),  
 इवाद्दत भक्ति f 4, पूजा, उपासना,  
 प्रार्थना f 2, (—करना=पूज 10p  
 प्रार्थ 10 a, उपास् 2 a), (-खाना  
 उपासनालय m 1, मन्दिर n 2),  
 इवारत वाक्य सेधात m 1, प्रस्ताव m 1,  
 गद्य n 1,

दि a 4

इमतिहान परीक्षा f 1, परीक्षण, निरीक्षण  
 निरूपण n 1, (—लेना=परीक्ष् 1a  
 निरूप् 10 p), (—देना=परीक्षायां  
 प्रविष्ट् a भू 1 p, परीक्षा दा 3p),  
 इमदाद् सहायता f 2, साहाय्य n 1,  
 उपकार m 2, (—देना=उपकृ  
 8 u; साहाय्यं कृ 8 p,  
 इमला वाक्य लेख, शुद्धि-लेख m 1,  
 इमली चिन्ता, डिका, अम्लिका, आम्लिका  
 f 2, आम्लिका f 5,  
 इमरत अमृत n 1, सुधा f 2,  
 इमरती अमृती f 2, शर्करिला f 2,  
 इमरोज्ज अथ ind.,  
 इमसाल वर्तमान वर्ष, n 2, वर्तमान  
 संवत्सर m 2,  
 इनाम कुलपति m 1, गुरुजन m 1,  
 प्रधान पुरुष m 2, प्रधान a 1,  
 इमारत निर्माण, विमान, भवन n 1,  
 हर्ष n 2, (—करना=or बनाना  
 भवन निर्मा c), विरच् 10 p,  
 (—बनाने वाला=रथपति m 4,  
 निर्मातृ a 7, शिल्पिन् a 11,  
 इरसाल प्रेषण n 1, (—करना=प्रेष्  
 10 p.  
 इरादा संकल्प m 1, विचार m 2,  
 इच्छा f 2, (—करना=इष् (च्छ)  
 6 p, संकल्प् c, विचर् c),  
 इर्द-गिर्द समन्तात्, परितः, सर्वतः,  
 ind.

इलजाम दोष m 2, कलङ्क m 1,  
 दोषरोपण n 1, (—लगाना=दोषमा  
 रोप् 10 p),  
 इलहाम ईश्वरीय ज्ञान n 1, आकाश-  
 वाणी f 5,  
 इलाका मण्डल, निबन्धन n 1, (2)  
 भू संपत्ति f 4,  
 इलाज चिकित्सा f 2, (—करना=विचि  
 कित्स् 1 a), see चिकित्सा,  
 इलायची एलाकल n 1,  
 इलाही ईश्वर, परमेश्वर m 2, पर-  
 मामन् m 23,  
 इलतजा प्रार्थना f 2, निवेदन n 1,  
 चाट्टिक f 1, (—करना=प्रार्थ् 10a  
 निविद् c विनयेन याच् 1 a),  
 इलतमास अनुनय m 1, प्रार्थना f 2,  
 निवेदन n 1, (—करना=अनुनी  
 (नय्) 1 p, प्रार्थ् 10 a,  
 निविद् c),  
 इलतत दुर्वृत्ति, दुष्प्रकृति f 1,  
 इलम विद्या f 2, विज्ञान n 1, (—इललाक  
 नीति विद्या f 2), (—तर्वत्=वि-  
 ज्ञान विद्या f 2), (—गव=योगविद्या  
 f 2), (—इलाही=ब्रह्म विद्या f 2,  
 वेदान्त m 1), (—हिन्दसा=रेला  
 गणित विद्या f 2), (—मूसकी=  
 गायन विद्या f 2), (—नज्म=ज्यो-  
 तिर्विद्या f 2), (—...  
 विद्या f 2).

इशक स्नेह m 1, प्रीति f 1, प्रेम n 13, काम प्रीति f 1, (-इकीकी-  
सान्विक स्नेह m 1, सान्विक प्रीति  
f 1, सत्य स्नेह m 1),

इशारा संकेत m 1, इकित n 1,  
(-करना=इकितेनज्ञा c, or  
धृ c),

इदितयाक उकमडा, उकटेन्चा f 2,  
आंतुनय n 1, (2) प्रीति f 1,

इदितहार विज्ञापन n 1, प्रसिद्धिपत्र,  
सूचनापत्र n 2, सूचना f 2,  
(-देना=प्रसिद्धि नीं 1 p, विज्ञापन  
द्वारा सूच् 10 p),

इष्ट इष्ट, अभीष्ट, इच्छित, अभिमत n 1,  
प्रिय a 2, (-देव=उपास्य देव,  
प्रियतम देव. m 1), (-मिष=  
सुहृद् m 20, प्रियमित्र, हार्दिक  
मित्र n 2,

इस इस् pro., 9, एतद् pro. 8,  
(-लिये=एतदर्थम्, अतः ind.)

इसलाम महम्मद मत n 1.

इसलामी महम्मद मतातुयायिन् a 11,  
यवन a 1, माहम्मद a 1,

इसलाह संशोधन, प्रति समाधान n 1,  
(2) शोध शोधन n 1, (-करना=  
सं-वि-परि-शुध् c, पापत्यक्ता धर्म  
माचर् 1 p),

इस्तआमान्त उपयोग, उपभोग m 1,  
स्वन n 1, इस्तआमलक n 1, अतु

भव m 1, (-करना=उपयुज् 7a  
व्यवह 1 p, व्यापृ c, अतु धृ 1 p,  
सेव् 1 a),

इस्तीफा परित्याग, प्रत्यादेश m 1,  
उत्सर्ग, परापेय m 2, स्वयनिच्छति  
f 1, (2) त्याग पत्र n 2, त्याग  
लेख m 1), (-देना=पद or  
रयान or भूति-उ-मुज् 6 p, परि  
त्यन् 1 p),

इस्म नामन् n 12, अभिषेय, अभिधान  
n 1, आल्या, संज्ञा f 2, (-नार=  
नामकपेय adv.,

इहां इह, अत्र ind.

इहतिराज आधिप. m 2, शंका f 2,  
(-करना=आधिप् 6 p, शंक् 1 a)

इहतियात, सावधानता f 2, अचेता,  
रत्ता f 1, अवधान n 1, मनोयोग  
m 1, (-रखना or करना=अवे  
1 a, मनोयोगं दा 3 p, सावधान  
a धृ 1 p),

इहसान } कृपा f 1, दया f 2, उप-  
अहसान } कर m 2, (-मद=कृतज्ञ  
a 1),

इस् इत्तु, गुडेत्तु m 9, (-स्त (सं)  
इत्तु स्त m 1),

इन्नना Sप्राकर्षण, ग्रहण, धारण m 1 (v)  
धृ 10 p, कर् 1 p),

इजाद आविष्कार m 2, प्राहुभाव m 1,  
(-करना=आविष्कृ 8 p, प्रा-  
इर्भ c),

ईजा दुःख n 1, हानि f 4,  
 ईजाद् अधिक a 1, विशेष m 2, वृद्धि  
 f-4, (—करना=वृष् c, आधिक्यं  
 कृ 8 p),  
 ईट इष्टका, सुधा f 2, (—का पर=नाश  
 m 1), (—का काम करने वाला=  
 सुधा जीविन् a 11),  
 ईटा खोया सुधा चूर्ण, इष्ट का चूर्ण n 1  
 ईटोड़ा इष्ट का-सुधा-शकल n 1,  
 ईत मश, मशक m 1, दश m 1,  
 प्राचिका f 2, वन मचिका f 1,  
 ईद यवन महोत्सव m 1, (—गाह=  
 यवनोपासना स्थल n 1),  
 ईधन इधन, दास्य काष्ठ n 1,  
 ईमान धर्म m 2, मत n 1, विश्वास  
 m 1, (वे=अधार्मिक a 2, धर्म  
 रहित a 1, असत्या चारिन् a 11),  
 ईमानदारी धर्म भाव m 1, सत्यता,  
 सदाचारिता f 2,  
 ईर्ष्या विद्वेष, द्वेष m 2, मालम्य n 2,  
 ईर्षा f 1, असूया f 2,  
 ईरान पारस देश m 1,  
 ईरानी पारसीक a 1,  
 ईश ईश m 1, ईश्वर m 2, राजन् m 23  
 स्वामिन् a 11,  
 ईशान ईशान कोण, पूर्वांतर कोण n 1,  
 ईश्वर ईश्वर, परमेश्वर m 2, स्वामिन्  
 a 11, अधिपति m 4,

ईसा काइस्ट नामन् a 17, किश्चियनमत  
 प्रवर्तक a 1.  
 ईसाई काइस्ट मतानुयायीन् a 11,  
 उकसना s, उत्तेजन n 1, संतोभ m 2  
 (v) संतप् -1 p, सरणाय यन् 1 a  
 संसुम् -1 p, (2) प्रोत्सह् 1 a,  
 उकसाना s, उदीपन उत्पापन n 1 (v)  
 उद्दीप्, स-वि-सुम्, उथा, प्रोत्सह् c  
 उकहू घँठना उत्कटका सन or अवसक्  
 यिकासनं कृ 8 p, अवनत सकृधि  
 a आम् 2 a,  
 उक्त उक्त, कथित, वसित, उपरि कथित,  
 पूर्वांक्त a 1,  
 उक्ति कथन, भाषण, वचन n 1, उक्ति  
 f-4,  
 उक्ताना व्याकुली भृ 1 p, उद्विन् 1a  
 उद्विम्न a भृ 1 p,  
 उखड़ना s, उन्मूलन n 1, उच्छेद m 1  
 (v) उन्मूल्, उच्छिद् pass.  
 उखल उल्लसल, उदुत्तल n 1,  
 उखेड़ना s, उच्छेद m 1, उन्मूलन n 1  
 (v t) उन्मूल् 10 p,  
 उच्छिद् 7 p, (उच्छिद् c),  
 उहली अहल n 1, (—भर=अहुल  
 प्रमाण a 1),  
 उगना s, रोहण, उद्रेदन n 1 (v, i)  
 रह् (रिह) 1 p),  
 उगाज (ली) निर्गर्जन n 1, उद्गाज

m 2, (—करना=उद्गृ ( गिर )  
 1 p, निर्गणं निष्कात् 10 p,  
 उगोहना s, आदान, अधिगमन n 1,  
 उपलब्धि f 4, (v, t) उद्ग्रह 9p  
 प्रति इप् (इच्छ्) 6 p, साध् c,  
 उपाज् 10 p, संग्रह 9 p, समाह  
 1 p,  
 उघड़ना s, आविर्भाव, प्राड्भाव, उदय  
 m 1, (v, i) उद्-र 2 p, आ-  
 विभू 1 p, प्राड्भू 1 p),  
 उघाना (v, t) अव-धि 5 p, संग्रह  
 9 p, एकीकृ 8 u, समाह 1p, (s)  
 समाहार m 2, संग्रह m 2,  
 उचक्रना उत्-स्था ( तिप् ) 1 p, उत्  
 पद् 4 a, (2) उत् नी ( न्य् ) 1p  
 उत् शिप् 6 p, (3) स्तल् 1 p,  
 विस्त्रलित a भू 1 p,  
 उचक्राना उत्-स्था c, उत् पद् c, (2)  
 उत्शिप् c, (3) विस्त्रल् c,  
 उचरना (v, i) प्रस्त्रल् 1 p, अपसर्प्  
 1 p, प्रभंश् 1 a, संम् 1 a,  
 उंचार्ह उचता f 2, उचति, वृद्धि f 4,  
 उचापत ऋण n 1, प्रत्यपादान n 1,  
 उचित उचितम् adv., उचित, योग्य,  
 युक्त, सत्य a 1,  
 उच्च उच्च, उचत, उच्छ्रित, उचंग a 1,  
 (2) उचम, उच a 1, परम, अग्न्य  
 a 2,

उचक्रा चौर m 2, प्रतारक, वञ्चक  
 a 1,  
 उच्छाट उद्विग्न, शोकाकुल a 1,  
 चिन्तातुर a 2, (2) उद्विग्नता,  
 अरुचिता f 2, (—हाना=उद्विग्न  
 1 a, उद्विग्न a भू 1 p),  
 उच्चारण उच्चारण, उदारण n 1,  
 (—करना=उच्चार 1 p, उदार  
 10 p, व्याह 1 p),  
 उच्छिष्ट उच्छिष्ट, भुक्तावशिष्ट a 1,  
 भुक्तराज m 2,  
 उच्छलना s, उत्प्लवन n 1, वलयन,  
 प्लुत n 1, प्लुति f 4, (v, i)  
 उत्पत् 1 p, उत् प्लु 1 a, वल्गु  
 1 p,  
 उच्छालना ऊर्ध्व अम् 4p, उत् शिप् 6p  
 उच्छाह उत्साह, आनन्द m 1, हर्ष m 2,  
 उच्छुद्ध मूलं a 2, मन्द, प्रामीण, अज्ञ a 1,  
 मन्द बुद्धि a 1,  
 उजरत कर्मण्या, भृत्या f 2, वेतन, भाटक  
 n 1, निवेश m 1, निष्कय m 2,  
 (—देना=भृति-कर्मण्यां दो 3 p,  
 भाट् c),  
 उजला उज्वल, श्वेत, निर्मल, शुद्ध a 1,  
 (—पन=उज्वलता, श्वेतता, शुद्धता  
 f 2,  
 उजागर प्रसिद्ध, विख्यात a 1, यश-  
 सिन्धु a 11,

उजाड़ शय्य, निर्जन a 1, वन, अरण्य,  
 निर्जन स्थान n 1, (—वियावान=  
 महारण्य n 1, कान्तार m 2,  
 अरण्यानी f 5), (—करना=  
 विनश् c),  
 उजाह् कुव्ययिन्, अमार्ग व्ययिन् a 11,  
 अपव्ययशील a 1, (2) विनाशक  
 a 1,  
 उजालना शुष् c पू 9 p, प्र-स-मृन् c,  
 पवित्राकृ 8 p, निर्-अव-निन् 3p,  
 उज्वल उज्वल, निमल a 1,  
 उज् अपदेश, व्यपदेश m 1, छल n 1,  
 छन्न n 12, (—करना=दोपात्  
 मृच् c, आत्मानं मृच् c, छन्न-व्यप-  
 देशं कृ 8 p,  
 उटकना प्र-वि-स्तल् 1 p, संस् 1a (2)  
 लु 1a, मृ ( मृ ) 1 p, (s)  
 म्स्तलन n 1,  
 उठना उद्-स्था ( तिष् ) 1p, उद्-ई 2p  
 उठ बैठना जागृ 2 p, सम्यक्-अनतकायं  
 स्था ( तिष् ) 1 p, स्था 1 p.  
 उठती उवानी यौवनासुभ m 2, यौवनो  
 द्वेद m 1, नव यौवन n 1,  
 उठाना उन् स्या c, जागृ c,  
 उड्छु छीना अदर्शनं गम् 1 p, तिरो  
 मू 1 p, अन्तर्धा 3 p,  
 उड्छती क्वर चिद्वन्ती f 5, जन श्रुति  
 f 4,

उड़न खटोला विमान, व्योमयान n 1,  
 उड़ना उद्-डी ( ड्य् ) 1 p, आकाशे  
 चर् 1 p,  
 उड़गण उड़गण, नारागण m 1, तारा  
 मण्डल n 1, तारक n 2, (pl.)  
 उड़ाऊ अपव्ययिन् a 11, अपव्ययशील  
 a 1,  
 उड़ाना उद्-डी ( ड्य् ) c, आकाशे चर्  
 c, उत् सिप् 6 p, उर्ध्व सिप् 6p,  
 or c,  
 उढ़ाना प्रावृ, वरत्रं परिभा, वस्त्रेण परिच्छद्  
 वस c,  
 उतरना अवृत् ( तर ) 1 p, अधोगम्  
 ( गच्छ ) 1 p, उवृत् 1p, अवरोह  
 1 p,  
 उतर पड़ता अवपत् निपत् 1 p,  
 उतार अपचय, द्वाप्त, भवसाद m 1,  
 अवतार m 2, (—चदाव=द्वाप्त  
 वृद्धि f 4, or (d),  
 उतारना अवहद् ( रोद् ), उवृत्, अवसाद्  
 ह्म् c,  
 उतारद् बुध m 1, बुध ग्रह m 2,  
 उतारा भूत बलि m 4,  
 उक्कण्टा उक्कण्टा, आशा, उक्कण्ट्या 12  
 औत्सुक्य n 1,  
 उत्तम श्रेष्ठ, उक्कृष्ट, उत्तम a 1,  
 उत्तर उत्तर, प्रत्युत्तर n 2, प्रतिभाषण  
 n 1 (2) उत्तरा f 1, उत्तर दिश  
 f 14, (उत्तरायण n 1, उत्तर मार्ग  
 m 2, (—देना=प्रतिभाष् 1 p,  
 उत्तर दा 3 p),



उत्तीर्ण परीक्षोत्तीर्ण, कृतकृत्य, कृतार्ण,   
 पारहत, उत्तीर्ण a 1,   
 उत्तेजना s, उत्थापन, उद्दिपन, प्रोत्साहन   
 n 1, (v. t) प्रोत्साह, उत्तञ्ज c,   
 उत्तरा खण्ड उत्तर दिग् देश, हिमालय   
 देश, उत्तरीय देश m 1,   
 उत्थान उत्थान n 1, उद्यम, व्यवसाय   
 m 1, चेष्टा f 2, (2) उद्यय, उद्   
 गम m 1,   
 उत्पन्न, उद्भूत, उत्पन्न a 1,   
 (—होना=जन् (जा) ) a, उद्भू   
 1 p, उद् पद् -4 a, (—करना=   
 उत् पद् c, जन् c,   
 उत्पत्ति जन्मन् n 12, उत्पत्ति f 4,   
 उद्भव m 1,   
 उत्पात उत्पात m 1, उपद्रव m 2,   
 दुःस्त n 1,   
 उत्सव उत्सव, मह, महोत्सव m 1,   
 पर्वन् n 13,   
 उत्साह उत्साह, अण्व्यवसाय m 1; मनः   
 र्थेयं n 2,   
 उथलना उद् विप् 6 p, परिष्ठन्, चल् c,   
 उदक जल, पानीय, उदक n 1, यरि   
 n 3,   
 उद्धि अग्नि, उद्धि, जलधि, जलनिधि   
 m 4, समुद्र, सागर m 2,   
 उद्यय उद्यय, उद्गम, प्रादुर्भाव m 1,   
 (2) उन्नति f 1, उदक्य m 2,

(—होना=उद्- 2 p, उद् गम   
 (गच्छ्) 1 p, प्रादुर्भू 1 p),   
 उदर उदर जठर n 2, तुन्द n 1, कुक्षि   
 n 4,   
 उदान उदान n 1, उदानवायु m 8,   
 उदार अथवात, यदान्य, दानशील, महिच्छ   
 a 1, उदार a 2,   
 उदास चिन्ता कुल, रिक्त, उदासीन,   
 उद्योग्य, अथवात, स्तान a 1,   
 उदासी उदासीनता f 2, विषाद m 1,   
 विमनस्ता f 2,   
 उदासीन विरक्त, अनास्त, उदासीन a 1   
 सन्धासिन् a 11,   
 उदाहरण उदाहरण n 1, स्थान्त m 1   
 (—देना=उदाह (हर) 1 p,   
 स्थान्तेन-उप पद् c),   
 उद्धार मोक्ष, उद्धार m 2, मुक्ति, दुःख-   
 निवृत्ति f 4, (—करना=उद्धार 1 p,   
 दुःखात् मुच c),   
 उद्देश्य प्रयोजन, उद्देश्य n 1, लक्ष्य,   
 तात्पर्य n 2,   
 उद्यम उद्यम, उद्योग, यत्न, प्रयत्न m 1,   
 उद्यान उद्यान, उपवन n 1, आरुम m 2,   
 आक्रीड m 1, (2) अरण्य n 1,   
 उद्यापन प्रतान्त दान n 1, व्रत त्याग   
 m 1, नियम पूर्णता f 2,   
 उद्योग यत्न, उद्यम, उद्योग m 1, (करना   
 यत् 1 a, उद् युज् 1 a),

उद्वेग उद्वेग, विपाद m 1, विचिंता,  
 विपर्ययता, अमनो योगता f 2,  
 उधर तत्र ind. (—से=ततः ind.)  
 उधार ऋण, पर्युदञ्चन n1, (—युक्तानां-  
 ऋणं शुभ् c),  
 उधेइना विरु, उद् घट्, उद् ग्रन्थ  
 परावृत् c, उन्मुच् (मुञ्च्) 6 p,  
 उनतालीस एकोन चात्वास्त्रिंशत् f 16  
 नवत्रिंशत् f 16,  
 उनतीस एकोन त्रिंशत् f 16, नव  
 त्रिंशति f 4,  
 उनसठ एकोन षष्टि f 4, नव पञ्चा-  
 शत् f 16,  
 उनाय कर्केन्दु m 8, सौवीर n 2,  
 फनिल a 1,  
 उनाची रक्त वर्ण, सौवीराम a 1,  
 उनासी एकोनाशीति f 4, नव सप्तति  
 f 4,  
 उनींद्रा अनिद्रा f 1 निद्रा भाव, निद्रा-  
 वरोध m 1,  
 उन्नीस एकोन त्रिंशति f 4, नव दशन्  
 num 10,  
 उन्नति उन्नति, वृद्धि f 4, उपचय m1  
 उन्मत्त उन्मत्त, प्रमत्त, मत a 1, (2)  
 गर्वान्वितं a 1, प्रमादिन् a 11,  
 उन्मद् वातुल, हतशान, सोन्मद, प्रान्त-  
 चित्त a 1, प्रष्ट बुद्धि a 4,  
 उपकार उपकार, अनुग्रह m 2, हित,  
 उपकृत n 1, or a 1, (—करना-

उपकृ 8 p, अनुग्रह 9 p, हित-  
 माचर् 1 p),  
 उपकारी उपकारिन् a 11, उपकारक  
 a 1, उपकर्तु, हितकर्तु a 7,  
 उपक्रम आरम्भ, उपक्रम m 2, भूमिका  
 प्रस्ताविका, उपक्रमणिका f 2,  
 उपजना रुह (रोह्) 1 p, उत्पद् 4 a  
 उपजाऊ शस्यावह, शम्योत्यादक, रुफल  
 अवन्ध्य a 1,  
 उपदेश उपदेश m 1, शिला f 3,  
 बोधन n 1, (2) धर्म शिला f 1  
 धर्म प्रवचन n 1, (—करना=उप  
 दिश् 6 p, युष्, ज्ञा c),  
 उपद्रव उत्पाद, प्रमाथ m 1, उपद्रव  
 m 2, (—करना=प्रमन्थु 9 p,  
 उत्पत् c, उत्पातं or उपद्रवं आचर्  
 1 p),  
 उपनयन उपवीत, यज्ञोपवीत n 1,  
 ब्रह्मपूत्र n2, (2) उपनयन संस्कार  
 m 2, (—करना=उपनी (नय्)  
 1 p),  
 उपनिषद् ब्रह्म विद्या f 2, वेदान्त m1  
 वेदशिरम् n 15, उपनिषद् f 17,  
 उपन्यास कल्पिते तिहास, उपन्यास m1  
 कल्पितकथा f 2,  
 उपवन उपवन n 1, वाटिका f 2,  
 आराम m 2,  
 उपमा सादृश्य n 1, उपमिति f 4,

उपमा f 2, (—देना=उपमा 3 a  
 सादृश्येन उपवर्ण 10 p,  
 उपला पूष m 1 पिष्टक n 1,  
 उपयोगी उपयोगिन् a 11, उपयुक्त,  
 कार्योचित a 1,  
 उपरान्त अनन्तरम्, पश्चात् ind,  
 उपरोक्त उपरि वर्णित, उक्त, पूर्वोक्त,  
 उपरिनिर्दिष्ट a 1,  
 उपस्थित वर्तमान, सन्निहित, अभिमुख,  
 उपस्थित a 1, (—होना=सन्निहित  
 a भू 1 p, उपस्था (तिष्ठ्) 1 p  
 उपहास उपहास, परिहास, अवहास  
 m 1, अवक्षेप m 2, अवहेलना  
 f 2, (—करना=उप-परि-अव-हम्  
 1 p, अवक्षिप् 6 p, अवज्ञा 9 p,  
 उपहार उपहार m 2, उपायन, प्राप्त,  
 श्रुति दान n 1, (—देना=उपायनी  
 कृ 8 p, श्रोत्या दा 3 p),  
 उपादान उपादान, उपादान कारण n 1,  
 उपाध उपाध, विवाद m 1, उपद्रव  
 m 2, कलि m 4, कलह m 1,  
 उपाधी उपाधि a 11, कलहकारक  
 a 1,  
 उपानह उपानह f 2, पादुका f 2,  
 पादत्र n 2, पादु n 6,  
 उपाय उपाय m 1, प्रतीकार m 2,  
 उप पति f 4, (—करना=उपचर्  
 1 p, उपायं कृ 8 p),

उपाजन अधिगम, आय m 1, अर्जन,  
 उपाजन n 1, (—करना=उपाज्  
 10 p, अधिगम (गच्छ्) 1 p,  
 उपासना पूजा, आराधना, उपासना f 2  
 भाक्ति f 4, (—करना=उपास् 2 a  
 पूज् 10 p, आराध् 10 p, भाक्ति  
 कृ 8 p, भज् 1 u),  
 उवकाई वमन, उद्वमनं, वान्त n 1,  
 वमथु m 8, प्रच्छदिका f 2 (—करना-  
 उद्वम् 1 p, उद्वृ 6 p),  
 उवटना अह्न राग m 2, अभ्यञ्जन,  
 संवाहन, मर्दन, वर्षणं n 1, (—मलना  
 अक्षरागेण देहं संशुध् c, संमृज् c,  
 संवह् c),  
 उवलना पच्, कथ्, उक्तथ् pass.,  
 श्रा 2 p,  
 उवला हुआ श्राय, श्रुत a 1,  
 उवात्तना जले पच् 1 p, उक्तथ् 1 p,  
 उवासी जृम्भा f 2, मुख व्यादान n 1,  
 (—लेना=जृम्भया मुखं विदार, 10 p  
 मुखव्यादानं कृ 8 p),  
 उभय उभय pro., 14, द्वि num. 2  
 उभरना उत्तिन्द् 1 p, उदि 2 p, परि-  
 वह् 1 p, उत्तसिच् 6 p,  
 उभारना उत्पा, संप्लु, उत्तेज् c, उपरि-  
 मुं c, स्फाय् 1 a,  
 उमदा उत्तम, श्रेष्ठ a 1, (—से उमदा=  
 अत्युत्तम a 1),

उभंग उन्साह, उल्मेक, प्रमोद, उद्यमं  
m 1 मनस्तरु m 2, (मे आना  
सोसाह or सोस्केक a मू 1 p),  
उमंडना रक्षाप् 1 a, प्रश्न 1 a, परि-  
वह 1 p,

उमराध धनिन् a 11, धनवत् a 16  
मान्य प्रधान a 1,

उमा शिवा, उमा f 2, गौरी f 6,  
पार्वती f 5,

उम्र अवस्था f 2, जीवन काल m 1,  
वयम् 15, आयुस् n 17,

उमैद् आशा, आशासा f 2, प्रतीक्षा f 1  
(—करना=आशांम् 1 a, प्रतीक्ष्  
1 a), (— धार=प्रत्याशिन्, अपे-  
क्षिन् a 11, प्रतीक्षक a 1),

उर उरस्, वक्षस् n 15, हृदय, वक्ष-  
स्थल n 1,

उरला अवर, अपर a 2,

उरुज्ज वृद्धि, उन्नति f 4, उच्चावस्था f 2  
उत्कर्ष m 2, (—पाना=वृद्धिगम्  
1 p, उन्नत a मू 1 p),

उर्ध्वं संकीर्ण भाषा, व्यामिश्र भाषा f 1,

उर्ध्वं उप नाम् n 12;

उल्लटना विलोमी कृ 8 p, परिवृत् 'c,  
विपर्यस् 4 p

उल्लथा विपर्य m 2, विपरोतता f 2,  
(2) अनुवाद m 1, (—करना=  
विपर्यस् 4 p, परिवर्त् 'c, (2)

अनुद् 1 p, भाषान्तरं प्राप् 'c),  
उल्लफन प्रीति f 4, मित्रता f 2, स्नेह  
m 1, साँह्य n 1,

उल्लाहना उपासम्भ m 1, (—देना=  
उपालम् 1 a),

उल्लू उल्लूक, m 1, दिवान्य पक्षिन्  
m 31, (2) मूर्ख a 2, जड़ a 1

उल्लास प्रमोद, उन्साह, उल्लास m 1  
उल्लंघन उल्लघन, अतिक्रमण n 1,

अतिक्रम m 2, (—करना=उल्लंघ्  
1 a, अतिक्रम् 4 p),

उल्लेख उल्लेखं m 1, उल्लेखन, वर्णन  
n 1, (—करना=वर्ण् 10 p,  
उल्लिख् 6 p),

उष्ण उष्ण, तप्त, चण्ड, तिग्म a 1,  
धर्म a 2,

उष्णता उष्णता, तिग्मता, चण्डता,  
उग्रता f 2,

उसारा प्रमाण, प्रकीर्ण n 1, आशिन्द  
m 1, द्वार n 2,

उसीजना उर् कश् 'c, आ 2 p,

उसुज्ज कारण, मूल, निदान n 1, (2)  
सिद्धान्त m 1,

उभे (m) तम् एतम् (f) ताम् (n)  
तत्, acc. sing,

उसेवना स 5 p,

उस्तग चुर n 2, मुषडनास्य n 2,  
उस्तवार दृढ़, निश्चल a 1, स्थिर a 2.

(2) धीर a 2, अविचलित a 1,

उस्ताद् अध्यापक m 1, (स्त्री) अध्या-  
पिका f 2, गुरु m 9, शिक्षक a 1  
(2) चतुर a 2, निपुण, कुशल a 1

उद्द हा ind दुःखचानि f 4,  
ऊख इषु m 9, रसाल m 1,  
ऊखल ऊखल, उखल n 1,  
ऊच तन्द्रा f 1,

ऊचना खै, खै 1 p, तन्द्रया तिरो भू  
pass.,

ऊचा उद्यत, उच्छ्रित a 1, उच्छ्राय a 2  
(—बोल=अभिमति f 4, अभि-  
मति f 4, अभिमान n 1),  
(—नीचा=विषम a 2),

ऊट उट्ट m 2, क्रमेलक, महांग, मय  
m 1,

ऊटनी उट्टी f 6,

ऊजड़ नष्ट, विशीर्ण a 1, शर्य, अरण्य  
n 1, अरण्यानी f 5,

ऊटपटांग अवहं, असंबद्धम् adv.,  
अस्त व्यस्त a 1, अनुपपत्ति असंगति  
f 4,

ऊत मूलं a 2, अज्ञ, महामूढ 1,

ऊतविलास उद्र, जलमाजीर m 2,

ऊटा कपिल, कपिश, पिशंग, पिगल a 1

ऊधो उद्धव m 1, श्रीकृष्ण सखि m 1

ऊन मे (लो) मन् n 13, ऊर्णा f 2,

(2) ऊन, न्यून, हीन a 1,

ऊनीं धौण, ऊर्णामय, रोमज a 1,

ऊपर उपात्, ऊर्ध्वम्, उच्चैम् ind.

ऊर्ध्व see ऊपर,

ऊलजलूल मूढ, जड़ a 1, मूलं a 2,  
निर्मुक्ति a 4,

ऊपा ऊपा f 1, वायासुर कन्या f 2,  
अनिरुद्ध पानी f 5,

ऊं हूं हा ind,

ऊक् ऋग्वेद m 1, ऋच् f 15,

ऊचा ऋच् f 15, वेदमन्त्र m 2,

ऊञ्ज सरत, सुगम, कोमल a 1, ऋञ्ज,  
a 6,

ऊया ऋण, n 1, (—देने वाला=उत्त-  
मर्ण a 1,

ऊयी अधमर्ण,

ऊतु काल, समय m 1, ऋतु m 8,

( वसन्त m 1, ग्रीष्म m 2,

वर्षा f 1, शरद. f 17, हेमन्त

m 1. शिशिर m 2),

ऊद्धि सम्पत्ति समृद्धि f 4, ऐश्वर्यं n 2

ऊधि मन्त्र दृष्ट a 7, ऋधि m 5,

मुनि m 4,

एक एक num. 1, अनन्य, आद्वितीय

a 1, (—आध=कतिपय स्तोक a 1

(—वार=एक वारम्, सकृत् ind.

(—दम=निमेषमात्रान्, क्षणे क्षणात्

ind), (—दिल=एक वित्त a 1,

(—एक=पृथक् ind.), (—जान-

सहज मित्र, स्वाभाविक मित्र n 2,

(—सा=सदृश a 13, तुल्य n 1,

(-चित्त होना=सावधान, दत्तावधान  
a भू 1 p),

एकत्र एकत्र, एकस्मिन् स्थाने ind,

(2) एकत्रित, सम्बन्धित, उपाजित  
a 1, (-करना=सं-वि 5 p,  
उपाज् 10 p);

एकला एक num. 1, अनन्य, अदि-  
तीय a 1, एककिन् a 11,

एका ऐक्यता, एकता f 2, संहति f 4  
एकत्व n 1, मेल, संयोग m 1,  
(-करना=समानी 1 p, युज् 1 u  
संघट् c, (-होना=संयुज् pass,  
संहतिःमन् (जा) 4 a),

एकाक्षी एकाक्षिन् a 11, काण a 1,

एकान्त निश्चतम् adv., शान्त स्थान,  
निर्जन स्थान, एकान्त स्थान n 1,  
विविक्त a 1, रहस् n 15,

एकादशी एकादशी f 5, एकादशी  
तिथि f 4,

एकादश एकादशन् num 10,

एमीकलचर कृषि f 4,

एह कण्टक, नल n 1, (2) उत्तेजन,  
प्रचोदन n 1, (-मारना=कण्टकेन  
प्रतुद् 6 p),

एही पाण्डि m 4, पादमूल n 1,

एह्ल मान पत्र, अमितन्दन पत्र n 2;  
अमितन्दन n 1, (-देना=मान

पत्रं समर्प 10 p), (2) वाङ्मनामन्  
नामधामन् n 12,

एलची दूत m 1, संदेश हारक a 2,  
वार्ताहर a 2, प्रणिधि m 4,

एयजी प्रतिनिधिता f 2, (-देना=  
प्रतिनिधित्वेन समर्प 10 p),

एकट नियम, सन्धनियम m 1, (2)  
अभिनय m 1, नटकर्मन् n 13,

एकटर नट m 1, (स्त्री) नटी f 5,  
(-नर्तक m 1, (स्त्री) नर्तकी  
f 5, नाटक कर्तु a 7,

ऐक्यता एकता f 2, ऐक्य n 1.  
संहति f 4,

ऐगलोवर्नाक्यूलर आङ्ग्ल-देशीय भाषा  
f 1,

ऐचना उद्यल् 10 p, अपनी 1 p,  
उत्कर्ष 6 p,

ऐचा तानी संक्षोभय n 1, संनाथ m 1

ऐचोताना वक्र दृष्टि a 4, तिमंग् दर्शिन  
a 11,

ऐज्जुन तगा, पूर्वानुसारेण adv,

ऐठ गर्व गति f 4, (-बाज=साद्योप-  
गामिन् a 11, (-ना=मगर्व-चल्  
1 p, उद्धतं परिम 1 u,

ऐइना तुल् 10 p, तुलायां ष 10 p,  
(2) विमृश् 6 p, आलोच् 10 p

विचर c,

पेच दोष m 2, व्यसन n 1, (-लगाना-  
दोषमारोप् 10 p, (-जनी=द्वि-  
द्रान्वेषण n 1, (-करना=द्विद्रं-  
मान्धिष् 6 p,

पेयी व्यसनिन् a 11, दोष युक्त a 1.  
पेन नेत्र n 2, दृष्टि f 4, (2) यथार्थ  
यथातय, ऋत, सत्य a 1,

पेनक उपनेत्र n 1, (du), दृष्टिमहाय  
a 1, (du.),

पेयार कापाटिक, छात्रिक, कितव, विदग्ध  
a 1,

पेयारी माया, भूर्तता f 2, छल n 1,  
व्याज m 1,

पेयाश विषयासक्त, भोगासक्त, इन्द्रिय  
सुखनिरत, सविलास a 1, विषयिन्  
विषय सेविन्, विलासिन् a 11,

पेराचती ऐरावती नदी f 5,

पेश सुख n 1, भोग, आनन्द, अल्हाद  
उल्लास m 1, (-ओशरारत=वि-  
लास, सुखास्वाद m 1, विषय सेवा  
f 2, सुखा सक्ति f 4,

पेश्वर्य सम्पत्ति, विभूति f 4, संपद्  
f 17 विभव m 1, धन n 1,  
पेश्वर्य n 2,

पेसा ईश, एतादृश a 13, एततुल्य a 1  
पेसा पैसा मयम a 1,  
पेसे एवम्, इत्यम् ind,

ओक अञ्जलि जलपान, पाणिपान n 1

ओकना उद्गृ ( गिर ) 6 p, उद्गृ वृ  
1 p, निष्कास् c,

ओखली उद्गृत्त, उलूखल n 1,

ओखा पापिन्, कपटिन् a 11, आधिक  
a 1,

ओम्क आमाराय, पकाराय m 1,

ओम्कल रहःस्थल, विविक्त स्थान n 1,

(2) रहोभाव m 1, रहस्य n 1,

ओम्कना प्रस्तु, अवपत् c,

ओम्का उपाध्याय m 1, आचार्य m 2  
अध्यापक m 1,

ओम्काइन उपाध्याया, अध्यापिका f 2,  
आचार्याणी f 5,

ओट आवरण, व्यवधान n 1 (2) शरण  
रक्षण, शरण n 1, आश्रय m 2,  
(-लेना=शरणं गम् 1 p, आशि  
1 u) (-मे होना=गुप्त-प्रच्छन्न  
a मू 1 p),

ओटना गुप् 1 p, निगृह् 1 v, प्रच्छद्  
10 p, आश्रयं दा 3 p, (2,  
तुलवीजानि पृथक् कृ 8 p, पितृ  
वीजानि विगुञ् c,

ओटा आवरण, व्यवधान n 1, अन्त-  
मिति, भित्ति f 4,

ओढ़ना वस् 2 p, परिधा 3 p, धृ  
( धार ) 10 p,

ओढ़नी उत्तरच्छद m 1, आच्छादन  
n 1, उत्तरीय वस्त्र n 2.

ओत लाभ; आय m 1, प्राप्ति f 4,  
 ओपर विदेशीय, परदेशीय, अपरिचित  
 a 1,  
 ओम् ओंकार m 2, प्रणव m 1,  
 ब्रह्मन् n 12, ओम् ind,  
 ओर पार्वं n 1; पत्न m 2, भाग  
 m 1,  
 ओला पर्षोपल n 1, करक n 2,  
 पयोधन n 1, (—पङ्ना=उपलान्  
 वृष् 1 p, कासारं पत् c, (सिर  
 मुहानि— =आरम्भ एव कार्य  
 नश् 4 p, प्रथम प्राप्ते मत्तिका  
 पत् 1 p),  
 ओष्ठ अघर n 2, ओष्ठ m 1, दन्तद्व  
 m 20,  
 ओस अवश्याय, प्रालेय m 1, नीहार  
 m 2, खजल n 1, (—पङ्ना=  
 नीहारेण सिच् 6 p or प्रोच् 1p  
 ओह आस्ताभितत्, विरम्यताम् (2)  
 तृणाय मन्ये ind, in this  
 form),  
 ओहो अहो, हाहा ind,  
 ओघा प्रतीप, विपर्यसित a 1, प्रति-  
 कूल वृत्ति a 1, (—करना=विपर्यस्  
 4 p),  
 ओक्तात दशा, अवस्था f 2, स्थिति f 1  
 ओगुण अपगुण m 1, दुर्घ्यसन n 1,  
 ओघट कठिन मार्ग m 2, दुर्गपय  
 m 1, (2) दुर्गम, विषम a 2,

दुरारोह a 2, अगम्य, गहन a 1,  
 औजार उपकरण, साधन n 1, अस्त्र  
 शास्त्रास्त्र n 2,  
 औटना कथ्, पच्, तप् pass,  
 औटाना पच्, उत्कथ् 1 p, आ 2 p  
 औतार अवतार m 2, जन्मधारण n 1  
 (—लेना=जन्म 4 10 p, अवत्  
 1 p),  
 औने पौने न्यूनाधिक a 1, (—वेचना=  
 अल्पमूल्येन विक्री 9 p),  
 औचाश दुराचार a 2, अष्टशालि, उद्दाम,  
 नियन्त्रण, उच्छृङ्खल, दुर्वृत्त, कामुक  
 a 1, व्यसनिन् a 11,  
 और च, अपि ind, अन्य pro, 2,  
 अधिक a 1, (—भा=अन्यच्च. अपि  
 च अथच ind), (—क्या=अथकिम्  
 ind), (—कोई=इतर a 2, अन्य  
 pro 2, (—नहीं तो=अन्यथा ind)  
 औरत स्त्री f 8, पत्नी f 5, भार्या f 1  
 नारी f 6,  
 औलाद सन्तान, अपत्य n 1, संतति  
 f 4,  
 औलिया महात्मन a 17, महत् a 8,  
 पूनीय, पूज्यतम a 1,  
 औसर अवसर m 2, समय, m 1,  
 औसत सामान्य n 1, मध्यमान n 1  
 औसतन सामान्यतः, स्थूल प्रमाणेन adv  
 औस्तान धैर्य, मनःस्थैर्य n 2, उत्साह



म 1, चेतना f 2, बुद्धि f 4,  
 तेजस् n 15,  
 औसाक प्रशंसा f 2, युष्ण m 1,  
 स्तुति f 4,  
 औषधि औषध n 1, अगद m 1,  
 औषधि m 4,  
 अंक अङ्क, m 1, सल्या, गणना f 2,  
 अंग देह, काय m 1, शरीर n 2, (2)  
 अवयव m 1, अङ्क n 1,  
 अंगड़ाई जृम्भा f 1, विजृम्भिका f 2,  
 विजृम्भण, विजृम्भित n 1, (-लेना=  
 जृम्भया सुखविदार 10 p),  
 अंगरसा अङ्गरसक a 2, कञ्चुक, प्रा-  
 यण n 1,  
 अंगरेज आङ्गल, अंगल देशीय a 1,  
 अंगारा स्फुलित, विस्फुलित m 1,  
 अङ्गार m 2,  
 अंगिया अङ्किका f 2, कञ्चुकी f 5,  
 कुर्यासक n 1,  
 अंगोठी हसन्तिका f 2,  
 अंगुली अङ्गुली f 5, अङ्गुलि f 4, क-  
 शाखा f 2,  
 अङ्गुष्ठ see. अङ्गुली,  
 अङ्गुष्ठरी अङ्गुलीयक n 1, ऊर्मिका f 1  
 अङ्गुष्ठताना अङ्गुलिप्राण n 1, अङ्गुलि  
 सुतत्र n 2,  
 अङ्गुठा अङ्गुष्ठ n 1, (-दिस्ताना=नि-  
 प्रति-विष 1 p, प्रत्यादिश 6 p),

अङ्गुठी अङ्गुलीयक n 1, ऊर्मिका f 1,  
 अङ्गुर गोस्तना f 2, गोस्तनी f 5,  
 मृद्रीका f 2, स्वाद्री f 5, मधुरसा  
 f 1, र्शेन्नु n 13,  
 अङ्गोछा मार्जन n 1, मार्जन वस्त्र n 2  
 गात्र मार्जन n 1,  
 अञ्जन कञ्जल, अञ्जन, नेत्र रजन n 1  
 अञ्जली अञ्जालि m 4, संयुक्त कर द्य  
 n 1.  
 अञ्जाम अन्त, परिणाम m 1, फल n 1  
 अञ्जीर Tree, अञ्जीर, उदुम्बर m 2,  
 (fruit) अञ्जीर n 2,  
 अञ्जील फाइस्टमत पुस्तक, क्रिथियन धर्म  
 पुस्तक n 1,  
 अञ्जुमन सभा f 2, संसद, परिषद्  
 f 17, समिति f 4,  
 अंटी ग्रन्थि, नीवि f 4, नावी f 5,  
 संधान n 1, पर्वन n 13, सन्धि  
 m 4,  
 अंढा अष्ट n 1, पेशी f 4, कोप  
 m 2, (-देना=अष्ट मोक्षण कृ  
 8 p, अष्टानि सु 2 p),  
 अंतरा गीत पाद m 1, यति f 4,  
 अंदर अन्तर, अभ्यन्तर n 2, मध्य,  
 अन्तराल n 1,  
 अंदरूनी अभ्यन्तर a 2, अन्तरीय a 2  
 अंदाज़ (जा) अनुमान, ऊहन, उल्लोचण  
 n 1. तर्क m 2, ऊहा f 2,

(-लगाना or करना=उपेक्ष 1 a,  
 उद् 1 a, अनुमा ३ a),  
 अंदेशा चिन्ता, कल्पना, चित्त जेष्ठा f 2  
 विमर्श m 2. (-करना=चिन्तां कृ  
 8 p, चिन्त् 10 p, विमृश् 6 p,  
 कल्प् 1 a),  
 अन्धकार अन्धकार m 2, तामिस n 2  
 अन्धतमस, तमस् n 15,  
 अंधा नेत्रहीन, दृष्टि रहित, अन्ध a 1,  
 प्रज्ञा बचुम् a 19,  
 अन्वियारा see अन्धकार,  
 अंधेरा प्दान्त n 1, निमित्त n 2, see  
 अन्धकार,  
 अंधेर अन्याय m 1, अनीति f 4,  
 (2) अराजकता, उच्छृङ्खलता f 2,  
 अंधेरी वाऱ्या f 2, प्रचण्डवात m 1,  
 अम्बर आकाश, गगन, ख n 1, (2)  
 वज्र n 2, वसन n 1, अम्बर n 2  
 अम्बा (बह) आम्र m 2, रसाल m 1  
 सहकार m 2, (fruit) आम्र n 2  
 अम्बार राशि m 4, समूह m 1,  
 (-लगाना=राशि कृ 8 p),  
 अम्बारी शिविका, गजशिविका f 2,  
 अम्बाहू समूह m 1, संगद m 1,  
 अंश अंश, अन्धांश, भाग m 1,  
 अंशी अंशिन, भागिन a 11, भाग  
 भाज् a 12'  
 अन्तःकरण चित्त n 1, अन्तरिक्षिय n 2  
 मनस् n 15, बुद्धि f 4,

फर् pro 15, अन्ध pro 2, अपर  
 pro 3, (pl) (-कर=अन्धिय  
 pro 15,  
 ककड़ी ककड़ी f 5, चर्मटिका f 2,  
 चर्मट m 1, ईर्वाक (लु) उर्वाक (लु)  
 m 8 or 9,  
 ककोडा ककॉटक कल n 1,  
 कखराली कखारण n 1, or m 1,  
 कखैरा वर्ण—माला f 2,  
 कंकणा कङ्कण, कटक n 1,  
 कचनार कम्बनार m, n 2,  
 कचपच सवद, समूह m 1,  
 कचरा आम कालिङ्ग n 1, अषक का  
 लिङ्ग n 1,  
 कचरी स्फुटिकल n 1, खेद n 6,  
 तरुचन n 1,  
 कचलहू पूरक n 1,  
 कचहरी राजकार्यालय m 1, न्याय सभा  
 f 2 व्यवहार मण्डप m 1, न्या-  
 यालय m 1, धर्माधिकरण n 1,  
 कच्चा आम, अषक, अर्द्धपक a 1,  
 (-पका=अपरिपक a 1),  
 कचालु कठालु n 6,  
 कचौरी पिष्टक n 1, शिश्नोत्तु n 1,  
 ककूना मा 3 a, परिमा c, (s) मान,  
 परिमाण n 1,  
 ककुआ ककुआ m 1, कुम्भ m 2,  
 ककुज अम्बुज, नेत्र रम्बुज, ककुज  
 n 1,

कजजीवन हस्तिवन n 1,  
 कजा मृत्यु m 8, मरण n 1, (-होना  
 or पाना=मृ 4 a),  
 कटक कटक n 1, सेना f 2  
 कटखना देशक m 1, दारक m 2,  
 कटड़ा आपण n 1, निषद्या, पर्ययी-  
 यिका f 2,  
 कटना s छेद, आघात m 1, प्रहार  
 m 2, (vi) छिद, उद्भिद्  
 pass,  
 कटहरा काष्ठावरण n 1, काष्ठावार m 2  
 कटाई लवन, छेदन n 1, (-करना=  
 लू 9 p, छिद् 7 p, (-करना=  
 लू-छिद c),  
 कटाकटी कलह, विवाद m 1, वैमत्य  
 n 1, (2) शस्त्राघात m 1.  
 कटाक्ष कटाक्ष m 2, नेत्रतिर्यक्ता f 2  
 तिर्यक् दष्टि f 4,  
 कटाना छिद, लू, कर्त्त c.  
 कटारी असिपुत्रिका f 1, छुरिका f 1  
 कर्त्तरी f 6,  
 कटि कटी f 5, कटि f 4, देहमाय n 1,  
 (-पद्म=उद्यत a 1, ततार a 2),  
 कटिया बालमहिषी f 6, बालमहिष  
 m 2,  
 कटीला सकण्टक a 1, कण्टकोपेत a 1  
 कट्ट कट्ट a 6, कट्टबाद, तीक्ष्ण a 1,  
 कट्टरा a 2

कटोरा चपक n 2, पुट, पुटक n 1,  
 शरान m 2,  
 कट्टर परिपक a 1, कलहिन a 11,  
 कलहकारक a 2,  
 कटड़ा द्रोणी f 5, द्रोणि f 4, (2)  
 काष्ठ भाजन n 1,  
 कठिन कठिन a 1, दुष्कर a 2, (2)  
 वन, संहत कर्कश a 1, अशय्य a 1  
 कठोर निम्बुर, कठोर, उग्र a 2 दुःख-  
 भाव, असौम्य, नष्ट a 1,  
 कट्टक विस्फूर्जधु m 8, स्तनित n 1,  
 निर्घातस्वन m 1 2, गर्जना f 2,  
 महाराव m 2, (-मारना=गर्जे  
 1 p, महारावभाचर 1 p),  
 कट्टच्छी दर्वी f 6, दर्वि f 4, केवी  
 f 5.  
 कट्टवा कट्ट a 6. तीक्ष्ण, अरुन्तुद a 1.  
 उग्र a 2, (-बोल=दुर्वचन n 1,  
 कट्टा बलय m 1, कट्टण, कटक n 1,  
 (2) कठिन, कर्कश a 1,  
 कट्टाह कट्टाह m 1, कुण्ड n 1,  
 पिठर n 2, उस्ता f 2, भुञ्जन n 1  
 कट्टी दीर्घस्थूणा, गृहस्थूणा f 2, तुला  
 f 2, (2) कटोरता f 2, (-बोला-  
 कटोर भावा, श्रुति कट्ट भाषा f 1,  
 1, उग्र a 2  
 a 11

कङ्कई स्वेदनी f 5, कन्द n 6, कन्द  
 f 10, आम्बु, अम्बरीष n 2,  
 कङ्गी द्रवोप सेचन n 1,  
 कण कण n 1, कणिका f 2, (2)  
 पृषद् n 11, शीकर n 2,  
 कण्टक कण्टक n 1, तरु नख m 1,  
 शिताम्र n 2,  
 कण्ठ कण्ठ, गल m 1, (-करना=कण्ठी  
 कु 8 p, विना पुस्तकं पाठं अभ्यस्  
 4 p. पद् 1 p),  
 कण्ठस्थ कण्ठस्थ a 1, कण्ठाग्र a 2,  
 कतरना छिद् 7 p, कृत् 6 p, दो  
 4 p,  
 कतरा जलविन्दु m 8, विन्दु m 8,  
 पृषत् n 1, शीकर n 2,  
 कंसार पंक्ति, श्रेणि, तति f 4, रेखा f 1  
 शाली, आवली f 5, (-नांधना=  
 पंक्ति क्रमेण रथा 1 p, श्रेणिबन्धं  
 रथा 1 p),  
 कर्त्तिक नर्तक m 2, (स्त्री) नर्तकी f 6  
 कर्त्या लाम्बूलोपकरण n 1,  
 कथन कथन, वचन, भाषण n 1,  
 उक्ति f 4, (-करना=कथ् 10p  
 भाष् 1 a, वच् 2 p),  
 कथा आख्यायिका f 2, वार्ता f 1,  
 (-करना=वार्ताया वर्षे 10 p,  
 उपास्या 2 p),  
 कङ् मूर्ति f 4, आकृति f 4 उच्चता f 2  
 आकार m 2, प्रमाण n 1, (कङ्गावर  
 उच्चतम a 1, लम्ब a 1),

कदम पद n 1, पदलेप, पद क्रम m 2  
 पदन्यास m 1, (-कदम चलना=  
 रौनेस् गम् 1 p, मंदं मंद चल 1p, \*  
 कद्दर मान, महत्व n 1, गौरव n 2,  
 प्रतिष्ठा f 2, प्रति पति f 4,  
 (-करना=सं-मन् c),  
 कदाचित् कदाचित्. स्यात्, देवान्.  
 किञ्चित् ind,  
 कदापि कदापि, कदाचित् ind,  
 कदीम प्राचीन, सनातन, पुराण, पुरातन,  
 प्राकृतन, पूर्वकालीन a 1,  
 कनक कनक, सुवर्ण n 1, हेमन् n 12,  
 (2) गोधूम m 1, अन्न n 1,  
 कनखजुरा शत पद m 1,  
 कनछेदन कर्णविष संस्कार m 2,  
 कनपटी वदन पार्श्व n 2,  
 कनफटा विष कर्ण a 1,  
 कनागत पित्रु पत्न m 2, कन्या भास्कर  
 m 2, आश्विनमास m 1,  
 कनिष्ठ कनिष्ठ, अवरज, अनुज a 1,  
 लघु a 6,  
 कनी कणिका f 2, कण n 1. (2)  
 रत्न कण n 1, मणिराकल n 1,  
 कनेर कणिकार m 2,  
 कनोजिया कान्य कुम्भ a 1,  
 कन्ता पति m 15, मियतम a 1,  
 स्वामिन् a 11,  
 कन्द m, n 1, मन्थिल मूल n 1,  
 गोलमूल n 1,

कजलीवन हास्तिवन n 1,  
 कजा मृत्यु m 8, मरण n 1, (-होना  
 or पाना=मृ 4 a),  
 कटक कटक n 1, सेना f 2  
 कटखना दंशक m 1, दारक m 2,  
 कटड़ा आपण n 1, निषदा, पण्यवी-  
 धिका f 2,  
 कटना s छेद, आघात m 1, प्रहार  
 m 2, (vi) छिद, उद्भिद्  
 pass,  
 कटहरा काष्ठवरण n 1, काष्ठावार m 2  
 कटाई लवन, छेदन n 1, (-करना=  
 लू 9 p, छिद् 7 p, (-करना=  
 लू-छिद c),  
 कटाकटी कलह, विवाद m 1, वैमंथ  
 n 1, (2) शस्त्राघात m 1.  
 कटाक्ष कथाच m 2, नेत्रतिर्यक्ता f 2  
 तिर्यक् दष्टि f 4,  
 कटाना छिद, लू, कर्त्त c.  
 कटारी आसिपुत्रिका f 1, छुरिका f 1  
 कर्त्तरी f 6,  
 कटि कटी f 5, कटि f 4, देहमथ्य n 1,  
 (-बद्ध=उद्यत a 1, ततार a 2),  
 कटियां बालमहिषी f 6, बालमहिष  
 m 2,  
 कटीला सकण्टक a 1, कण्टकेपित a 1  
 कट्ट कट्ट a 6, कट्टवाद, तीक्ष्ण a 1,  
 कट्टरा a 2

कटोरा चपक n 2, पुट, पुटेक n 1,  
 शरान m 2,  
 कट्टर परिपक a 1, कलहिन a 11,  
 कलहकारक a 2,  
 कठड़ा द्रोणी f 5, द्रोणि f 4, (2)  
 काष्ठ भाजन n 1,  
 कठिन कठिन a 1, दुष्कर a 2, (2)  
 घन, संहत कर्कश a 1, अश्लय a 1  
 कठोर निम्बुर, कठोर, उग्र a 2 दुःख-  
 भाव, असौम्य, नरड a 1,  
 कट्टक विस्फूर्जधु m 8, स्नानित n 1,  
 निर्घातस्वन m 1 2, गर्जना f 2,  
 पहाराव m 2, (-मारना=गर्ज  
 1 p, महारावमाचर 1 p),  
 कट्टच्छी दर्वा f 6, दर्वा f 4, केवी  
 f 5.  
 कट्टवा कट्ट a 6. तीक्ष्ण, अरुणुद a 1  
 उग्र a 2, (-बोल=दुर्वचन n 1,  
 कट्टा वलय m 1, कट्टण, कटक n 1,  
 (2) कठिन, कर्कश a 1,  
 कट्टाह कटाह m 1, कुण्ड n 1,  
 पिठर n 2, उखा f 2, भृञ्जन n 1  
 कट्टी दीर्घस्थूणा, गृहस्थूणा f 2, तुला  
 f 2, (2) कठोरता f 2, (-बोलां-  
 कठोर भाषा, श्रुति कट्ट भाषा f 1,  
 कट्टमा अरुणुद, तीक्ष्ण a 1, उग्र a 2  
 (-मिञ्जान का=कट्ट भाषिन् a 11  
 कट्ट स्वभाव a 1;

पतन, m 1, (3) अन्न, अन्नभिक्ष,  
सुख a 1,

कमाई सन्चय m 1, संग्रह m 2,  
उपार्जन n 1, निधान n 1, (2)

परिश्रम m 2, यत्न, व्यवसाय m 1

(—करना=प्रयत् 1 a, व्यवसाय 4p

आयासं कृ 8 p, श्रम 4 p),

कमाऊ व्यवसायिन् a 11, परिश्रमिन्

11, कामि a 2, सन्चक, उपार्जक

a 1,

कमान चाप m 1, धनुष n 17,

शरसन n 1, कार्मुक n 2,

कमाना अर्ज, उपार्ज 10 p, आयासं कृ

8 p, व्यवसाय 4 p, प्रयत् 1 a,

कमानो लोह तन्वी f 6, लोह तन्व n 2

तन्वी f 6,

कमाल प्रकथं m 2, अतिशय m 1,

विशिष्टता f 2, वैशिष्ट्य n 1,

(—करना=अतिशी 2 a, नैपुण्यं

प्रकाश c, परि-सं-पूर 10 p),

कमिश्नर उप-प्रान्ताधिकारिन् a 11,

उप-प्रान्ताधीश a 1,

कमिश्नरी उप-प्रान्त m 1, (2) उप-

प्रान्तकार्यालय m 1, (3) उपप्रान्ता

धीश पद n 1, (4) उप-प्रान्त-राज

धानी f 5,

कमीशन अधिकृत संसद् f 17, समिति

f 4, नियुक्त संसद् f 17, (2)

व्यापारण n 1, विक्रीयकर m 2,

(—करना=नियुज् 7 a, अधि कृ

8 p, अधिकारिन्वेन नियुज् c),

कमेटी समिति f 4, (म्युनिसिपल) नागर,

प्रातिनिधि समा f 2,

कम्पनी समूह m 1, सभा f 2, ससद्

f 17, समिति f 4,

कम्पास मान यन्त्र n 2, मापन, क्षेत्र

मापन n 1, (—समाना=प्र-परिमा c)

कम्बल श्रृंगोत्तरीय n 2, कमल, श्रृं-

र्णाच्छादन n 1,

कयास अनुमान, चिन्तन n 1, अनुमिति

f 4, (—करना=चिन् 10 p,

विचर. c, अनुमि 3 a, ऊह 1 a),

कयाम स्थिति f 1, स्थान n 1,

कयामत प्रलय m 1, प्रलयकाल m 1,

(2) न्याय दिवस m 1,

कर हस्त m 1, कर m 2, पाणि m 1

कर कर n 2, राजस्व n 1, राजदंयाश

m 1,

करकट अयकर, अवरवर m 2,

करघा तन्तुवायमाधन, व्युत्तिसाधन,

वायोत्पादन n 1,

करही दर्था f 6, कर्ब, कंजी f 5,

लजाका f 2,

करज ऋण n 1, (—दार=अधमर्ण

a 1),

करण कथं m 1, शोध n 2,

करतत्र क्रिया f 1, व्यापार m 2,

कन्दरा कन्दरा f 1, गुहा f 2, दरी f 6  
 गन्धर n 2,  
 कन्या कन्या f 2, कुमारी, पुत्री f 6,  
 कन्याना संकोचं कृ 8 p, अरुचि ट्ग् c  
 वैमत्यं प्रकट् 10 p,  
 कन्हैया श्रीकृष्ण m 1,  
 कपट कपट, छल n 1, छद्मन् n 12,  
 कपड़ा वसन n 1, वस्त्र n 2,  
 कपाट कपाट, कपाल m 1, मस्तक n 1  
 शिरम् n 15,  
 कपास तुल, कार्पास, पियुल n 1, पित्त  
 n 6,  
 कपि कपि m 4, वानर m 2,  
 कपिल कपिल m 1, कपिल मुनि f 4,  
 (2) कपिल, पिशाङ्ग वर्ण a 1,  
 कपिला कपिला, पिशाङ्गवर्णा f 2,  
 कपिलाधेनु f 9,  
 कपूत कुतनय m 1, कपुत्र m 2,  
 कपूर कपूर m 2,  
 कपोत कपोत, पारावत m 1, कलरव  
 m 2,  
 कपोल कपोल, गण्ड m 1, गण्डस्थल  
 n 1,  
 कफ कफ m 1, सिंघाणक n 1, श्लेष्मन्  
 m 23,  
 कपञ्ज शवाध्दान, प्रेतवसन n 1,  
 कष कदा, कश्मिन काले ind,  
 कथञ्ज मलावरोध m 1, (—कुशा=  
 रेषक, मलशोधक a 1),

कथञ्जा अधिकार, आत्मसात्कार m 2,  
 स्वान्य, प्रगुत्व n 1; (—करना=  
 अधि कृ 8 p, अधि-स्था 1 p, पदं  
 कृ 8 p, आत्मसात् कृ 8 p),  
 कथर समाधि m 4, अवट, शव स्थान  
 n 1,  
 कथरा चित्रित a 1, कथुर a 2, अनेक  
 वर्ण a 1,  
 कथाङ्ग जाणवस्तुजात m 1, अकर्मण्य a 1  
 कथाव भट्टिन् m 2, शलाकृत, शल्य, शल्य  
 संस्कृत a 1, भृष्ट मांस n 1,  
 कथाहृत कठिनता f 2, काठिन्य n 1,  
 कथुतर कपोत, पारावत m 1,  
 कथुल स्वाकार, अक्षीकार m 2, (—करणा=  
 अक्षी कृ, स्वाकृ 8 p),  
 कभी कदापि, कदाचित् ind.  
 क.म गन्त, उक्त a 1, (—अकल=मन्दबुद्धि  
 a 4, भृत् a 2, (—वस्तुत=मन्द  
 माय्य a 1), (—हंसियत=प्राकृत,  
 अल्पधन a 1, (—याव=दुष्प्राण्य a 1  
 कनर कटि f 4, देहमप्य n 1, मयदेश  
 m 1, (—बान्धना=उद्युक्त a भू  
 1 p, सज्ज a भू 1 p),  
 कमरा प्रतिशय m 2, प्रकोष्ठ m 1,  
 कमरी कटि कञ्चुक n 1, कञ्चुकी f 5,  
 कमल कमल, जलज, सरोज, पद्म n 1,  
 कामला कमला, पद्मासना f 2, लक्ष्मी  
 f 6, विन्दु पत्नी f 5, (2) शालभ

कलकल कलरव, कलहरव m ३, कलह  
m 1, कृपा भाषण, जल्पन n 1,  
(—करना=कृपा or निरर्थक भाष  
1 a, कलरवं आचर 1 p, जल्प  
1 p).

कलंक कलङ्क m 1, दोष m 2,  
(—लगाना=दोषमारोप. 10 p),

कलपना कृप्, कुम् 4 p, पश्चात्ताप  
1 p, पश्चात्ताप कृ 8 p, (2)  
s कदपना f 2, पिचारणा, ऊहा f 2  
(—करना=विचर c, कल्प 1 a,  
कल्प लेप, कृष्ण लेप, रञ्जन लेप m 1  
(—लगाना=रञ्जन द्रव्येण लिप्),

कलश कलश, कुम्भ, घट m 1, (2)

मन्दिर शिलर n 2,

कृष्ण मित्र मण्डली f 5, सुहृदाश्रम m 2

कलह विवाद, विसंवाद, कलह, केश  
m 1. वैमनस्य, दुःख n 1,  
(—करना=विवद् 1 p, वैमनस्यं  
आपाद् 10 p),

कला कला f 2, षोडशांश m 1, (2)  
यन्त्र कला f 2,

कलार्द्र मणि बन्ध m 1, नथि बन्धन  
n 1, प्रकोष्ठ n 1,

कलाप कलाप m 1, मयूर पिच्छ n 1,

कलापी कलापित् m 31, मयूर m 2,

कलाम वाक्य, वर्णन, भाषण n 1,  
वात्ता f 2, (—करना=वात्ता कृ  
8 p, भाष 1 a),

कलाल शौण्डिक m 1, सुराजीविन्,  
मद्यविकारिन् m 31,

कलात्मन शौण्डिकी f 5,

कलियुग कलि m 1, कलियुग, चतुर्थ  
युग m 1,

कली कालिका f 2, कोरकं, अंकुर n 2  
मुकुल, कुड्मल m, n 1,

कलेजा यकृन् n 11, कालेय, कालक  
n 1,

कलेजी पशु यकृन् n 11,

कलेत्र कलेत्र, शरीर n 2, देह, काय  
m 1,

कलेश केश, मन्ताप m 1, दुःख, कष्ट  
n 1, (—देना=किश 9 p, संतप c,

कलोत्तर रति क्रीडा, सुरत पूर्वावस्था f 2,  
कलोल m 1, (—करना=कलोल  
माचर् 1 p, सुरतोत्सुक a क्रीड 1 p

कलकी दशमावतार m 2, कालिक m 1

कल्प युगचतुष्टय, ब्राह्मदेन n 1, कल्प  
m 1, (—वृक्ष=कल्प वृक्ष m 2,  
कल्प तम m 9),

कल्पना कल्पना, सम्भावना f 2,  
उल्लेखा f 1, अनुमान n 1, तर्क  
m 2, ऊह m 1, (—करना=  
सम्भू c, उपन्यस् 4 p, उल्लेख 1a),

कल्याण कल्याण, कुराल, सुल n 1,  
सैम n 2,

कलुर वन्यभू f 11, अनुर्वर a 2,  
निष्कल, अशरयपद, मोष a 1,



चेष्टित n 1, कृत्य n 1, कार्य n 2,  
 कर्मन् n 13,  
 करतूत कर्मन् n 13, चेष्टित, कृत्य n 1,  
 (2) कुकृत्य, दुश्चेष्टित n 1, अकार्य  
 n 2,  
 करवला घात स्थान, हुसेन वध स्थान n 1  
 करनफूल कर्ण कुसुम, कर्णाभरण n 1,  
 अवतंस m 1,  
 करना कृ 8 p, आचर् 1 p,  
 कराना कृ c, ( कारयति ),  
 करम कर्मन् n 13, कार्य n 2, (2)  
 प्रारब्ध, भाग्य n 1, (—हीन=  
 भाग्य हान. निर्भाग्य a 1),  
 करचट पार्श्व m, n 1, पार्श्व भाग  
 m 1, (—लेना=व्यावृत् 1 a,  
 परिभ्रम् 1, 4 a, पूर्ण 1 p),  
 करामात देव शक्ति, योग शक्ति f 4,  
 अलौकिक कर्मन्, अमानुष कर्मन् n 13  
 चमत्कार m 2,  
 करारा लीक्षण, तिक्त a 1,  
 करार विश्राम m 2, सुख n 1, शान्ति  
 f 4, (—पाना=विश्राम् 4 p, शान्ति  
 मधिगम् 1p), (वे—=आर्त्त a 1)  
 दुःखित a 1, अशान्त a 1),  
 कराल कराल, विकट, भयानक a 1,  
 विरूप, भयंकर a 2,  
 करीय समीप or पे, निकटे-टे, अन्ति के  
 adv, अभितः, परितः, आसद् ind

देशीय, कल्प, प्राय a 1, in  
 comp., as “अष्टादशवर्ष  
 देशीयः”  
 करुणा दया, अनुकम्पा, करुणा f 2,  
 करवा पुट m 1, चपक n 1, (2)  
 मृद् भानन n 1, (—चौथ=  
 सुभगा चतुर्थी f 5,  
 करेला कट्टशाक mn 1, कट्ट हरितक n 1,  
 करोड़ कोटि f 4, शतलक्ष n 2,  
 कर्क कर्क m 2, चतुर्थ राशि m 4,  
 कर्कश a 1, कलह प्रिय, कठोर a 2,  
 कट्ट भापिन् a 11,  
 कर्ण कर्ण m 1, श्रोत्र n 2,  
 कर्णाटक कर्णाट, कर्णाट देश m 1,  
 कर्तव्य कर्तव्य, कर्णाय a 1, कार्य a 2  
 कर्मन् n 13, कृत्य n 1, धर्म m 2  
 कर्ता कर्तृ a 7, कारक, सम्पादक a 1;  
 ईश्वर m 2,  
 कर्म कर्मन् n 13, भाग्य, देव n 1,  
 कल श्वस् to morrow, जस् yes-  
 terday ind, कला f 2, यन्त्र  
 n 2,  
 कजई कान्ति, विद्युति f 4, श्येतता f 2  
 (2) त्रु भस्मन् n 12, (—करना=  
 त्रु भस्मना आबद्ध c),  
 कलम लेखनी f 5,  
 कलमा महम्मद युग मन्त्र m 2,  
 कलफत्ता कालीधामन् n 12, कलफत्ता  
 नगर n 2,

कहानी कथा, वार्ता, आख्यायिका,  
 प्रहलिका f 2,  
 कहार जलवाहक a 1, वारिवाह, वारि-  
 हर a 2,  
 कहावत उक्ति, लोकोक्ति f 4, जनवाद  
 m 1, आभाषक n 1,  
 कहाँ क्वचित्, क्वचित् ind,  
 कांकर उपल n 1, द्यक्कण m 1,  
 शंकरा खण्ड, पापाण खण्ड n 1,  
 कांख पार्श्व m, n 1, कक्षा f 1,  
 कक्षस् n 15, दोर्मल n 1, भुज  
 कोटर n 2,  
 कांच काच, स्फटिक m 1, चार m 2,  
 कांचली निर्मोक m 2, कञ्चुक n 1,  
 अहित्वच् f 14,  
 कांजी तन्तुम-जल n 1, चुतावारि, चय-  
 वारि n 3,  
 कांजीहौज़ पशु भ्रजालय m 1, भ्रान्त पशु  
 गृह n 2,  
 कांटा कण्टक, शङ्क, तरुनख n 1,  
 (—सुमना=कण्टकेन व्यध्, शङ्केन  
 तुद् pass, कण्टकं निर्भिद् 7 p,  
 कांधा स्कन्ध, भंस m 1, भुजशिरस्  
 n 15,  
 कांपना कम्प, वेप् 1 a, विचल् 1 p,  
 s, कम्प m 1, वेपन, विचलन n 1,  
 कांसी कांस्य, श्वेतालकृत n 1,  
 कांशा कांसा, आकांशा, स्पृहा, अपेक्षा  
 f 1, उत्कण्ठा, श्वा f 2,

कांग्रेस महा सभा f 2, परिषद् f 17,  
 समाज m 1,  
 कायदा नियम m 1, सीति f 4, विधि  
 m 4, (वा—=नियम पूर्वकं नियम  
 में, विधिना, विधि पूर्वकम् adv),  
 काई हरितमण्ड m 1, हरित फेन n 1,  
 (—चढ़ना=मसिनी भू समल a भू  
 1 p),  
 काक काक, वायस m 1, (स्त्री) वायसी  
 f 5,  
 काका पितृव्य m 1 (2) वत्स, तात  
 a 1 प्रिय a 2,  
 काग काक, वायस m 1, (2) पिधान  
 कृपा पिधान n 1,  
 कागज़ पत्र n 2, पत्रक n 2, (—के  
 घोड़े दौड़ाना=लेखन कार्य साध् 5p  
 संपद् c), (—काला करना=लियं  
 1 p, लिपांकु 8 p,  
 काच स्फटिक, काच m 1, चार n m 2  
 काऊ कक्षा f 1 (2) शाटि कक्षा f 1,  
 कांठी फल मूल विक्रयिन् a 11,  
 काज कायं n 2, (काम—=व्यवहार,  
 व्यापार m 2),  
 काजल नेत्र रञ्जन, अञ्जन, कञ्जल n 1  
 काजी न्यायकर्तृ, विवाद हर्तु a 7, मध्य  
 स. a 1,  
 काट विदारण, छेदन. अयकर्तन n 1,  
 विद्यति f 4, (—छांट=संशोधन n 1  
 (—करना=संशुध् c, (—कांग=

कवच वर्मन् n 13, सजाह् m 1,  
तनुवार m 2, तनुप्र n 2, कवच  
n 1,

कवि कवि m 4, परि m 5, रचना  
शक्ति शालिन् a 11, (-त्त=श्लोक  
m 1, पद्य n 1),

कशोदा सूचि कर्मन्, सूत्र कर्मन् n 13,  
(—कादना or करना=सूत्र कर्म कृ  
8 p, पटे सूत्र पुण्याणि or सताः  
संपद् c),

कशिपु आकर्षण n 1, आकर्षण शक्ति  
प्रलोभन n 1, (—करना=वि मूह  
c, प्रलुभ् c, आकृष् 1 p, अभि  
प्रणी 1 p),

कष्ट दुःख कष्ट n 1, केरा, सन्नाप m 1  
(—देना=संतप् c, क्लिष् 9 p),

कसना पिनह् 4 p, संश्लिप् c, नि-  
बन्ध् 9 p, संघा 3 p,

कस्य कर्मन् n 13, कृत्य n 1, व्यवहार  
m 2, व्यवसाय m 1, वृत्ति f 4,

कस्यया नगर कल्प a 1,

कस्यवी कर्म प्रवीण, कार्यनिपुण a 1,  
व्यवहार दत्त a 2,

कस्यम शपथ m, n 1, (—खाना=  
शपथं शप् 1, 4, u), (-दिलाना=  
शपथं ब्रह् c, शप् c),

कस्यभोया सशपथं, शपथ पूर्वम् ind,

कसर न्यूनता; अल्पता, अपूर्णता f 2,  
चकला n 1, (2) दोष m, खिद्र

n 1, (-रखना=अपूर्णतया कृ 8 p)  
(कोई-न रखना=पूर्णतया यन् 1 a,  
पूर्ण-समस्त प्रयत्नः सर्वाकारतया कृ  
8 p, यद् 1 a),

कसरत अधिकता, पूर्णता पुष्कलता f 2,  
(2) व्यायाम, आयास m 1;

(—करना=व्यायामं कृ 8 p, आयास  
1 p), (-करना=आयास, व्यायाम् c

कसाई घातक, बधक, हिमक, निर्देय,  
जालम a 1,

कसीदह् स्तुति कविता f 2,

कसूर दोष m 2, अपराध m 1, पाप  
n 1, (—वार=सापराध a 1,

दोषिन, अपराधिन् a 11),

कसेरा कांस्यकार, रीतिकार a 2, भाण्ड  
विक्रयिन् a 11, भाण्डविक्रेन् n 7,

कसौटी निकष n 2, निकष भाव f 1,

कस्तूरी कस्तूरी f 6, करतूरिका f 1,  
मृग मद m 1, मृगनाभि f 4,

कहत दुर्भिक्ष n 2, अकाल, गर्वाक  
m 1, प्रयाम m 2, (-पडना=  
दुर्भिक्षं विद् 4 a, अकालो यद् 1a

कहर उग्रता, तीव्रता f 2, नेष्ट्र्य n 2,  
संरम्भ m 2, विपदावेश m 1,

देवामर्ष m 2,

कहां कुत्र, क ind, (-से कुतः, कस्मात्  
ind ), (- तक=किद्द् कियःप्र

माणं, कियतांशिन, किमप्यन्तम् adv)

कहानी कथा, वार्ता, आख्यायिका,  
 प्रहलिका f 2,  
 कहार जलवाहक a 1, वारिवाह, वारि-  
 हर a 2,  
 कहावत उक्ति, लोकोक्ति f 4, जनवाद  
 m 1, आभाषक n 1,  
 कहीं कुत्रचित्, क्वचित् ind,  
 कांफर उपल n 1, दफ्तक्या m 1,  
 शकटा खण्ड, पाषाण खण्ड n 1,  
 कांछ पार्व m, n 1, कक्षा f 1,  
 कक्षस् n 15, दोर्मल n 1, भुज  
 कोटर n 2,  
 कांच काच, स्फटिक m 1, चार m 2,  
 कांचली निर्मोक m 2, कञ्चुक n 1,  
 अहित्वच् f 14,  
 कांजी तन्तुम-जल n 1, चुतावारि, चव-  
 वारि n 3,  
 कांजीहोज पशुग्रजालय m 1, भ्रान्त पशु  
 गृह n 2,  
 कांटा कण्टक, शक, तरुनस n 1,  
 (—उमना=कण्टकेन व्यध्, शक्रेन  
 तुद् pass, कण्टकं निर्भिद् 7 p,  
 कांधा स्कन्ध, अंस m 1, भुजशिरस्  
 n 15,  
 कांपना कम्प, वेप् l a, विचल् l p,  
 s, कम्प m 1, वेपन, विचलन n 1,  
 कांसी कांस्य, श्वेतालवृष्ट n 1,  
 कांक्षा कांक्षा, आकांक्षा, स्पृहा, अपेक्षा  
 f 1, उत्कण्ठा, इच्छा f 2,

कांग्रेस महा सभा f 2, परिषद् f 17,  
 समाज m 1,  
 कायदा नियम m 1, रीति f 4, विधि  
 m 4, (वा—=नियम पूर्वकं नियम  
 मंन, विधिना, विधि पूर्वकम् adv),  
 काई हरितमण्ड m 1, हरित फेन n 1,  
 (—चदना=मलिनी भृ समल a भृ  
 l p),  
 काफ काफ, वायस m 1, (स्त्री) वायसी  
 f 5,  
 काका पितृव्य m 1 (2) वत्स, तात  
 a 1 प्रिय a 2,  
 काग काक, वायस m 1, (2) पिधान  
 कृपा पिधान n 1,  
 कागज पत्र n 2, पत्रक n 2, (—के  
 घोड़े दौड़ाना=लेखेन कार्य साध् 5p  
 संपद् c), (—काला करना=लिखं  
 l p, लिपांकु 8 p,  
 काच स्फटिक, काच m 1, चार n m 2  
 काळ कक्षा f 1 (2) शाटि कक्षा f 1,  
 काळी फल मूल विक्रयिन् a 11,  
 काज कार्य n 2, (काम—=व्यवहार,  
 व्यापार m 2),  
 काजज नेत्र रञ्जन, अञ्जन, कञ्जल n 1,  
 काजी न्यायकर्तृ, विवाद इतृ a 7, मप्य  
 स्थ a 1,  
 काट विदारण, छेदन, अचकर्तन n 1,  
 विद्यति f 4, (—बाटं=संशोधन n 1  
 (—करना=सद्युध् c, (—कांस=

परोक्षनिन्दा f 2, पैशुन्य n 1,  
 पिशुनता f 2, परोक्ष दर्शन n 1  
 (—करना=पैशुन्य माचर् 1 p,  
 परोक्षे दश् 1 p),  
 फाटना दश् 1 p, उत्पट् 10 p, र  
 10 p, दो 4 p, छिद्र 7 p,  
 लू 9 p, (दिन—=दिन or दिनानि  
 धातिवद्, गम्, या, से c),  
 काठ काष्ठ n 1, दारु n 7, (—फवाड-  
 काष्ठोय वस्तु जात n 1),  
 काठो पृष्ठ n 1, पृष्ठ देश m 1, (2)  
 शरिरं n 2, (3) पर्याण, पल्पयन,  
 पर्ययण n 1, (—फसना=पर्याणं  
 निविश्, आरुह् c, सञ्जीकृ 8 p),  
 काढ़ना उत्कथ् 1 u, पच् 1 p,  
 काढ़ा काथ m 1,  
 काणा काय, चन्द्र-लोचन a 1, एका-  
 त्तिन् a 11,  
 काण्ड खण्ड, प्रकरण n 1, काण्ड n 1  
 भाग m 1,  
 कातना तन्तु-कृत् 6 p, तन् 8 p,  
 निष्कृप् 6 p, निर्गम c, (चरत्ता—=  
 तान्तव चक्रं घूर्ण्य c भ्रम् c),  
 कातिक कार्तिक m 2, कार्तिक मास,  
 सप्तम मास m 1,  
 कातिक लेखक, अनुलेखक m 1,  
 कातिल घातक, बधक a 1,  
 कान कर्ण m 1, श्रोत्रं n 2, (2) आकर  
 m 2, खानि f 4, खानी f 5,

कानून रीति f 4, नियम m 1, मर्यादा  
 f 2, धर्मशास्त्र n 2,  
 कान्त कान्त, प्रियतम a 1, प्रिय a 2,  
 पति m 15,  
 कान्ति कान्ति, द्युति f 4, शोभा f 2,  
 प्रभा f 1,  
 कान्यकुब्ज कान्यकुब्ज a 1,  
 कान्ह श्रीकृष्ण m 1,  
 कापुरय नात्, सुद्रचित्त, अधम, निकृष्ट  
 a 1, लघुचेतस् m 27, f 24, भोर  
 a 6, कापुरय m 2,  
 काफिर नास्तिक a 1, अधमिन्, विधमिन्  
 पाधिन्, स्वमतविरोधिन् a 11,  
 काफिला पाण्थ ससुदाय, समूह, संघ  
 सार्थ m 1,  
 काफिया यमक n 1, चित्राचर योग m 1  
 ध्वनिसा दृश्य n 1, स्वर संक्रम m 2  
 स्वराव रोह m 2, (2) पय n 1,  
 कविता f 2,  
 काफी पर्याप्त, उचित, उपयुक्त a 1,  
 समर्थ a 1,  
 काफूर कर्पूर n 2, (—होजाना=नश्  
 4 p, अदर्शनं गम् 1 p),  
 कानुज गान्धार राज धानी f 5,  
 काम कार्य n 2, व्यवहार, व्यापार m 2  
 (—चलाना=व्यवहार प्रवृत् c, प्रथा  
 1 p, विधा 3 p), (—चोर=चलस  
 a 1, कार्यावाचि a 4, (—याव=

कृतकृत्य, कृतार्थ, सिद्ध काम a 1),  
 (-याची=सफलता f 2, सिद्धि f 4,  
 काम काम, मन्मथ, मदन m 1, विषय-  
 वासना. विषयोत्कण्ठा f 2, अनङ्ग.  
 कामदेव, मनोभव m 1, (-धेनु=  
 कामधेनु f 9, इन्द्रगो m 12,  
 कामना इच्छा, वाञ्छा, कामना f 2,  
 अभिलाष m 2,  
 कामरि कम्बल, रत्नक n 1,  
 कामानुर विषयलम्पट, विषयासक्त a 1,  
 कामिनी कामिनी, कामलात्री, युवती f 5  
 गुग्धा, बाला f 2,  
 कामिल निपुण, सुशिक्षित सुसंपन्न a 1  
 पूर्णशिवायन् a 16,  
 कामी कामिन्, विषयिन्, a 11, कामानुर  
 a 2,  
 कायम स्थिर, सुस्थिर a 2, दृढ़, नियत  
 a 1, (-करना=स्थिरी कृ 8 p,  
 (-नुकायम=अस्थिर a 2, स्थाना-  
 पन्न a 1),  
 कायर कापुरुष m 2, कातर a 2,  
 भीरु a 6, लघुचेतम् m 27 [24,  
 कायल परास्त, पराजित a 1, निह्तर  
 a 2, (-करना=परा-अभि-भू 1 p  
 पशीकृ 8 p, दम् c, निग्रह 9 p)  
 (-होना=समन् + a, एकमत a,  
 एकचित्ती-भू 1 p),  
 कायकल जावित्री f 6,  
 कायस्थ कायस्थ a 1, लेखक जाति f 4

काया काय, देह m 1, शरीर n 2,  
 कार कर्मन् n 13, कार्य n 2, भृत्या,  
 कर्मण्या f 2, (-वार=व्यवहार  
 व्यापार m 2, (-गुजार=कार्यकर्तृ  
 a 7, प्रतिनिधि m 4, (-स्वई=  
 कार्य वाहिता f 2, (-साज=कार्य  
 साधक a 1, ईश्वर m 3),  
 कारक कर्तृ a 7, कारक a 2, सम्पादक  
 a 1,  
 कारखाना निर्माण-विरचन-शाला f 2,  
 शिल्प-कर्म-शाला f 2, पण्य-निर्माण  
 स्थान n 1, साधनालय, सम्पादन लय  
 m 1, कार्यालय m 1, कार्याधिष्ठान  
 n 1,  
 कारज कार्य n 2, साध्य a 1, व्यवहार  
 व्यापार m 2, अर्थ m 1,  
 कारण कारण, निदान n 1, हेतु m 8,  
 कार्तिक कार्तिक मास, सप्तम मास m 1  
 कार्य see करज,  
 कारागार कारा f 1, वन्दि शाला f 2,  
 बन्धनालय m 1, कारागार m 2,  
 कारागृह n 2, कारावशमन् n 12,  
 कारिन्दा कार्यवाहक-सम्पादक a 1,  
 प्रतिनिधि m 4, f 4, प्रबन्धकर्तृ a 7,  
 कारीगर कार्य कुशल a 1, शिल्प कार  
 a 2, शिल्पिन् n 11, कार्य-निपुण  
 a 1,  
 कारतूस-अग्न्यस्त्र, नालास्त्र n 2, लोह  
 सुपि f 4, सीसक लेपण n 1

(-चलाना=नालास्थेण शलिकाः सिप्  
6 p),  
काल काल, समय, अन्त काल m 1,  
मृत्यु m 8,  
काल अकाल, दुःकाल m 1, दुर्भिक्ष  
n 2, (-पङ्ना=दुर्भिक्षं विद् 4a  
अकालो वर्त् 1 a),  
काला कृष्ण, कृष्ण वर्ण a 1,  
कालिदास m 1, प्रधान कवि m 4,  
कविराज m 1,  
कालिन्द्रा कालिन्द्र, तरवज n 1, सङ्घ  
n 6,  
कालिन्दी कालिन्दी f 5, यमुना f 2,  
कालिमा द्वेष, द्रोह m 2, मात्सर्य n 2  
(2) मसी f 5, कृष्णता f 2,  
काम्य n 1,  
कालीन कुथ m 1, कुथा f 2, और्ण-  
स्तरण n 1,  
काव्य काव्य n 1, कविकृत्य n 1,  
पद्य रचना f 2, प्रबन्ध m 1,  
कासिद दूत m 1, (स्त्री) दूती f 5,  
संदेशहर, प्रेम्ण a 2, वैवधिक, वार्ता  
पत्र, निस्तृष्टार्थ a 1,  
काशत कृषि f 4, (- कारी=कृषिकर्मन्  
n 13, क्षेत्र व्यवहार m 2),  
काश्मीर काश्मीर देश m 1,  
काश्मीरी काश्मीरिक a 2,  
काशी काशी, वाराणसी f 5, शिवपुरी  
f 6,

काष्ठ काष्ठ n 1, दाह n 7, (2)  
इन्धन n 1,  
काही जलमल, शाद हरित, शादल n 1  
काहे किर्म्यम्, कुतः कस्मात् ind,  
किचकिचाना पिप्, बुद्ध 7 p, मृद  
9 p, (2) दन्तैर्दन्तान्-निष्पिप् 1p  
संदर्श 1 p,  
किचरपिचर कर्दम, पद्म m 1,  
किङ्किङ्गाना क्रोधेन दन्तान्-निष्पिप्,  
संदर्श 1 p,  
कित कुतः, कुत्र, क्व ind, (-ना=  
कियत् a 8) (-ने=कति a 4, pl)  
किताब ग्रंथ m 1, पुस्तक n 1,  
किधर कुत्र, क्व ind, (-से=कृतः,  
कस्मात् ind),  
किनारा तीर n 2, तट n 1, वेला  
f 2, (2) उपान्त m 1, सीमन्  
n 12), (-करना=तटस्य a भू  
1 p, विमुक्त a भू 1 p, नीवृत्  
1 a) (-कशी=पराङ्मुखता,  
विमुखता f 2),  
किनारी जालाभरण, सूत्रजाल, वस्त्रा  
भरण n 1, वसनालंकार m 2,  
(-चदोना=जालाभरणैः भूप् 10p)  
किफायत यथेष्टता f 2, आंचित्य n 1  
लाभ m 1, वृद्धि f 4, (-शाश्वरी=  
प्रणयन, निर्वाहण n 1; परिमित  
व्यय m 1, अमुक्त हस्तता f 2,

(—करना=संचि 5 p, संख् 1 p  
संग्रह 9 p, अवशिष्ट c),  
किञ्चित् किञ्चिन्मात्र a 2, प्रत्यल्प a 1  
किन्तु किन्तु, परन्तु परम् ind,  
किरच अस्ति पुत्रिका f 1, लघ्वसि m 4  
दुरिका f 1,  
किराना वस्तु जात n 1, वस्तु-संघात or  
संघ m 1, वस्तु संग्रह m 2,  
किरानी लेखक a 1, (2) काइस्ट  
मतांगुयायिन् a 11,  
किराया भाटक n 1, निवेश m 1,  
निष्कय m 2, विधा f 2, (—दर=  
भूम्यधिवासिन्, गृहाधिवासिन् a 11  
(—नामा=निवेश पत्र n 2, (—पर  
देना=भाटकेन दा 3 p),  
किलकारी उत्कोश, आकोश, विकोश  
m 1, (—मोरना=उत्-आ-कुश 1 p)  
किला दुर्ग n 2, दुर्गम स्थान n 1,  
किचाड़ कपाट m, n 1, अरर n 2,  
द्वार n 2, द्वार f 20,  
किस किम् pro 5, (—तरह=कथम्  
ind) (—कदर=कियत् a 8),  
(—वास्ते=किमर्थम् ind) (—किसम=  
किप्रकारक a 2, किविध a 1),  
किसमत भाग्य, देव, प्रारम्भ n 1,  
किस्ते भाग, अंश, प्राणांश m 1,  
(—करके=भागशः, अंशांशतः ind  
किस्सा माह्व्यायिका, कथा f 2, उपा-  
स्थान n 1, (2) विवाद m 1,

किसान कृषीवल m 1, कृषक m 2,  
किसमिस मृदाकादि a 4, द्राक्षादिफल  
n 1, फलमिश्रण n 1,  
किशती नौका f 2, सब m 1, कोल n 1  
क्रिया क्रिया f 1, कर्मन् n 13, कार्य n 2  
कीकर वरुंर n 2,  
कीचड़ पद्म, कदम्ब m 1,  
कीट कीट m 1, कृमि m 5,  
कीड़ा कीट m 1, कृमि m 5,  
कीना मालस्य n 2, अमूया f 2.  
कीमत मूल्य n 1, विनिमय m 1,  
कीमिया रसायन n 1, रसायनविद्या f 2  
कीर्ति f 4, यशम् n 15,  
कीर्तन कीर्तन, वर्णन n 1, उपाख्यान  
n 1, —करना=वर्ण 10p, कीर्त्  
10 p, उपाख्या 2 p.,  
कील कीलक, नाग दन्तक n 1, (कोली-  
विद्दिका, कृषिका f 2, भारयष्टि f 4  
कीलना s, अभिचार m 2, ( v, t )  
मन्त्रेः वशां कृ 8 p, अभिचर c),  
कीसा धन-भस्त्रिका f 1, गुप्तिकोप m 2  
कुंज गुल्म, वृत्तसमूह m 1,  
कुजड़ा फल मूल विकथिन् a 11,  
फलादिविकेत् a 7,  
कुंजी ताली f 5, कुञ्चिका f 2, अकुट  
उद्घाटक n 1,  
कुंदी पंजी f 5, पंजिका f 2, (—करना=  
पंजिकर्मा-परिष्कृ 8 p),



कुंवर कुमार, राजकुमार m 2, (स्त्री)  
 कुमारी, राजकुमारी f 6,  
 कुकर्म कुकर्मन्, दुष्कर्मन् n 13, दुराचार  
 m 2, दुराचरण n 1,  
 कुक्कुट कुक्कुट, ताम्र चूड़, नखायुध m 1  
 कृकवाकु m 8,  
 कुक्कुर कुक्कुर m 2, सारमेय m 2,  
 श्वन् m 24,  
 कुंकुम कुंकुम n 1,  
 कुच कुच, योद m 1, स्तन n 1,  
 कुचलना संगृह् 9 p, सर्पाङ् 10 p,  
 निष्पिप् 7 p,  
 कुचाल कुचालि f 4, दुःस्वभाव m 1,  
 असद् व्यवहार m 2, दुष्प्रथा f 2,  
 कुच्छ किञ्चित्, किञ्चिदपि ind,  
 कुटनी कुट्टिनी f 5,  
 कुटिल कुटिल a 1, वक्र a 2, अन्तर्दृष्ट  
 a 1,  
 कुटी कुटीरक n 2. पटल n 1,  
 कुटुम्ब कुटुम्ब n 1, परिवार m 2,  
 कुठार संग्रह. सम्भार m 2, निधि m 4  
 सामग्री f 6, (2) निधिकोष्ठ, संभार  
 कोष्ठ m 1, संग्रहालय m 1,  
 कुठारी निधि रक्षक a 1, वस्त्रधिकारिन्  
 a 11,  
 कुड्गा अर्द्ध 1 p, आत्मानं-संतप् c or  
 क्लिप् 9 p.  
 कुण्ड सरस् n 15, जलाशय m 1,  
 (2) वृद्धपात्र n 2;

कुण्डल कुण्डल n 1, कर्ण भूषण n 1  
 अवंतस m 1,  
 कुण्डली कुण्डलिन् a 11, सर्प m 2  
 कुण्डा द्वारबन्ध m 1, कपाट बन्ध m  
 द्वारावरोध m 1,  
 कुतरना कर्त् or दन्तःकर्त् 10 p,  
 कुतर्क कुतर्क m 2, दुर्हा f 2,  
 कुतब पुस्तक n 1, (pl), (2) भुव m 2  
 (—तुमां=भुवदर्शक-यन्त्र n 2,  
 (—फरोफ=पुस्तक विक्रयिन् a 11,  
 ग्रन्थाविक्रेतृ a 7),  
 कुतूहल कुतूहल. औत्सुक्य n 1, मा-  
 श्रय n 2,  
 कुत्ता श्वन् m 24, सारमेय m 2,  
 कुत्सित कुत्सित, निन्दित, गहित a 1,  
 कुदरत् प्रकृति f 4, दैव n 1, स्वभाव  
 m 1,  
 कुदाल खनित्र n 2,  
 कुनवा परिवार m 2, कुटुम्ब n 1,  
 कुन्ती कुन्ती f 5, पाण्डव मातृ f 12,  
 पाण्डव जननी f 5,  
 कुन्डन उत्तप सुवर्ण n 1, शुद्धहेमन् n 12  
 (—करना=हेम-संशुष् c, or माथिना  
 संयुज् c),  
 कुपद् अपठ, अपठित, आशीर्षित a 1,  
 मूर्त्त a 2,  
 कुपथ कुमार्ग m 2, मन्दमार्ग m 2,  
 कुपथ m 1,

कुपय्य कुपय्य, अपय्य n 1, गारिधाहार  
 m 2,  
 कृपात्र कृपात्र, अपात्र n 2, अयोग्य  
 a 1, दुराचारिन्, कुमारं गामिन्  
 a 11,  
 कुप्पा महच्छर्मभाण्ड, चर्मभाजन n 1,  
 कृपक n 1,  
 कुर्पा कृपा f 5, कृपिका f 2,  
 कुफर धर्म निन्दा f 2, विश्वास पात  
 m 1, असत्य n 1, मिथ्या ind  
 (—बकना=मिथ्या—असत्यं भाष् 1 a  
 कुफज्ज कुफलं n 1, दुष्परिणाम m 1,  
 (2) ताल, तालक n 1, (—देना  
 or लगाना=तालेन वन्ध् 9 p,  
 पिधा 3 p, निरूप् 7 p),  
 कुत्रा कुत्रा f 2, कंस दासी f 5,  
 कुयडा कुयज, नतपृष्ठ a 1,  
 कुमार कुमार m 2, बालक m 1,  
 अविवाहित, अन्द a 1, ब्रह्मचा-  
 रिन् a 11,  
 कुमारी कुमारी f 6, बाला f 2,  
 कुमुदिनी कुमुदिनी, कमलिनी f 5,  
 कुमेटी सभा f 2, समिति f 4, संसद्  
 f 17, (2) परि प्रतिनिधि सभा f 2  
 कुम्भ कुम्भ, घट, कलश m 1,  
 कुम्हजाना भूले, भूले 1 p, विवर्णा भू  
 1 p, विच्छायतां गम् 1 p,  
 (मन—=लिख. a भू 1 p,

कुम्हार कुम्भकार m 2, कुलाल m 1  
 (स्त्री) कुलाली f 5,  
 कुरको सम्पदाधिकार, सम्पत्यधिकार m 2  
 (—करना=सम्पत्तिम् अधिकृ 8 u,  
 (—कराना=सम्पदम्—अधिकृ c),  
 कुरता कञ्चुक n 1,  
 कुरती कञ्चुकी f 5, कटिकञ्चुक n 1,  
 कुरसी विष्टर m 2, पीठ, आसन,  
 वेशासन n 1, (2) स्थिति-शिला,  
 भित्ताधार-शिला f 2, आधार-भित्ति  
 f 4,  
 कुरवानी आलम्भ, मेघ m 1, उत्सर्ग m 2  
 बलि m 4, (—करना=उत्सर्गार्थं  
 इन् 2 p, सभा-आ-सम् 1a),  
 कुरह् वरुल, गोल a 1, गोला कृति a 4  
 (2) भूगोल, भूमण्डल n 1,  
 कुरान महम्मद-धर्म-पुरतक n 1, महम्मद  
 ज्ञान n 1,  
 कुरीति कुरीति f 4, असद्-व्यवहार m 2  
 दुष्पया f 2,  
 कुरुक्षेत्र कुरु-क्षेत्र n 2, कौरव-युद्ध-भू  
 f 11,  
 कुलंग बक, सारस m 1, (स्त्री) बलाका  
 विस-कण्ठिका f 2,  
 कुल वंश m 1, कुल n 1, गोत्र n 2  
 (2) समस्त, अलिल a 1, समप्र  
 a 2, सर्व pro, 1, (—कुला=  
 सर्वाधिकारिन् a 11, or सर्वथा  
 ind),

कुलक्षण कुलक्षण, अपलक्षण n 1,  
 (2) कुलक्षण a 1, दुराचार a 2  
 कुलांच भव, आस्कन्द, भङ्ग m 1,  
 उत्सवन n 1, (—मरना=उत्-प्लु,  
 (प्लुव), उत्पत् 1 p),  
 कुलाल कुलाल m 1, कृम्भकार m 2,  
 (स्त्री) कुलाली f 5,  
 कुली भार वाहक a 1, भाखादिन a 11  
 कुलीन सद्-वंश्य, सकलोद्-भव कुलीन  
 a 1,  
 कुल्हाड़ा पशु m 8, (कुल्हाड़ा) लघु  
 पशु m 8,  
 कुवेर धनपति m 4, यचराज m 1,  
 कुवेर m 2,  
 कुश कुश, रामात्मज m 1, (2) कृश  
 m 1, दर्भ m 2,  
 कुशल कुशल, कल्याण, मुख n 1,  
 क्षेम n 2,  
 कुशती मल युद्ध n 1, (—करना=  
 मल युद्धेन-युध् 4 p),  
 कुशा see कृश,  
 कुशादा विस्तृत, विस्तारण, विशाल a 1,  
 (—हाल=समृद्ध, सम्पन्न, श्रीसम्पन्न  
 a 1),  
 कुष्ठ कुष्ठरोग m 2, श्वेत कुष्ठ n 1,  
 कुसंग कुसंग, अससंग m 1, दुष्ट-संगति  
 f 4,  
 कुसुम n 1, पुष्प n 2,

कुंची लोम मार्जनी, धर्षणी, शोधनी 15,  
 तूलिका f 2, (—करना=धर्षणेन-  
 शुध् c, तूलिकयाःपरिष्कृ S, u,  
 शोधिन्या-संमृज् c),  
 कुंडा मृद भाण्ड n 1, मृत्कुण्डिका 12  
 कुंडी कुण्डिका f 2,  
 कूआ कूप m 1 अन्यु m 8, परि  
 m 5, दीर्घिका f 1, वापी f 5,  
 कूक विराव m 2, आक्रोश, कोलाहल  
 m 1, परिदेवन n 1, दुःख निवेदन  
 n 1,  
 कूकना परिदेव 1 p, आ-वि-कृश् 1 p  
 तारस्वरेण वद् 1 p, (2) दुःख  
 निधिद् c, (3) समय or घटी यन्त्रं तालैक्यं  
 कृ 8 p,  
 कूकर कूकर, सारमेय m 2, श्वन् m 24  
 कूच प्रस्थान, यान, गमन n 1,  
 (—करना=प्रथा (तिष्ठ) 1 a,  
 कूचा वीथी, प्रतोली f 5, वीथि f 4,  
 रथ्या, विशिखा f 2,  
 कूटना निष्पिप् 7 p, चूर्णीकृ 8 p,  
 नड् 10 p, (s) निष्पेय m 2,  
 कूड़ा अयस्कर, अपस्कर m 2, मल n 1  
 निःसार द्रव्य n 2,  
 कूदना s, भङ्ग, सव m 1, उत्पतन  
 n 1, (v i) उत्सु, उत्पत् 1 p,  
 कूप m 1 see कूथा,  
 कूरर बाल कुकर-रव, बाल-श्व-रव m 2,  
 (—करना=बाल-सारमेयः 1 p),

कूल्हा कटि f 4, कटि देश m 1,  
 देह-मध्य n 1,  
 कृतकृत्य कृतकृत्य, कृतार्थ a 1, कृत  
 कार्य a 2, (2) सन्तुष्ट a 1,  
 कृतघ्नी कृतघ्न, उपकार-नाराक, उपकृति  
 धातक a 1,  
 कृतज्ञ कृतज्ञ a 1, उपकारस्मृति, उपकृति  
 शातृ a 7,  
 कृतार्थ see कृत कृत्य,  
 कृत्तिका कृत्तिका f 1, तृतीय-नक्षत्र n 2  
 कृत्य कृत्य n 1, अवश्य-कर्तव्य a 1,  
 आवश्यक-कर्मन् n 15, कार्य n 2  
 (2) धर्म कार्य n 2, धर्माचरण n 1  
 कृत्रिम कृत्रिम a 2, कारण-निमित्त,  
 कल्पित a 1,  
 कृपया कृपण, दीन (2) अमुक्तहस्त a 1  
 वराक a 2,  
 कृपा कृपा f 1, दया, कृपा f 2,  
 कृश कृश, दुर्बल, हीनाक्त a 1,  
 कृष्ण श्री कृष्ण, वासुदेव m 1, (-पत्न=  
 कृष्ण पत्न) m 2,  
 कृषि कृषि f 4, क्षेत्र कर्षण n 1,  
 कृकडा कुकीर, कुलीरक, कर्कर m 2,  
 केतकी केतकी f 5, केतकी-कुसुम n 1  
 केतु केतु m 8, नवम ग्रह m 2, (2)  
 केतु m 8, पञ्च m 1,  
 केन्द्रा केन्द्र m 2, मध्य भाग m 1,  
 मध्य n 1,

केला कदली f 5, कदली फल n 1,  
 केवडा केतकी f 5, केतकी कुसुम n 1,  
 केवल केवलम् adv, एकमात्र a 2,  
 एव ind,  
 केश केश, बाल, कच m 1,  
 केसर केसर, केशर n 2, किञ्चक,  
 कुकुम n 1,  
 केशव केशव, कृष्ण m 1, विष्णु m 8,  
 केहरी सिंह m 1, व्याघ्र m 2,  
 हरि m 5, (स्त्री) सिंही f 5,  
 केँची कर्तरी f 6, कर्तरीका f 1, खण्ड  
 धारा f 1,  
 कै यमन, उद्वमन n 1, (-करना=  
 उद्वम् 1p) (2) कति a 4, (pl)  
 कैथ कायस्थ a 1,  
 कैद्र बन्धन n 1, अशोध m 1,  
 (-होना=कारागृह बद्ध a पू 1p,  
 (-करना=कारा वास दण्ड 10 p  
 कारा गृहे पत् c),  
 कैदी वन्दिन् a 11, कारागृह, रुद्र a 1  
 (-खाना=कारागार m 2),  
 कैफियत व्यवस्था f 2, विवृति f 4,  
 विवरण n 1, (-लिखना=विवृ  
 5 p, व्यवस्थां लिख् 1 p),  
 कैम्प शिविर n 2, निवेश, सैन्यनिवेश  
 m 1, निवेशन n 1,  
 कैलाश कैलास m 1, हिमालय शिखर  
 n 2,

कैसर रामाधिराज m 1, रामराजेश्वर  
 m 2, सम्राज् m 19, (स्त्री)  
 राज राजेश्वरी f 6, सम्राज्ञी f 5,  
 कैसा कीदश a 13, कीदश् a 12,  
 किम्प्रकम्प्रक a 2,  
 कैसे कयम् ind,  
 कोई कश्चिन् m, किञ्चित् n, काचित् f  
 कोकिला कांकिल, पिक m 1, परम्भ्  
 m 20, (स्त्री) कोकिला, अन्यपुष्टा  
 परभृता f 2,  
 कोख कुचि f 4,  
 कोट प्रावरण n 1, अक्षरलक n 2,  
 (धोवर—=प्रावार m 2, प्रावारक  
 n 2, (2) दुर्ग n 2, प्राकार m 2  
 वरण n 1, साल m 1,  
 कोटि कोटि f 4, रातलक n 2,  
 कोठरी कुटीरक n 2, पटल n 1,  
 कुटी f 5,  
 कोठा प्रकोष्ठ m 1, कच m 2, कचा  
 f 1,  
 कोठी धनागार m 2, व्यापार निकेतन  
 n 1, (2) सुमवन n 1, रम्यायतव  
 रम्यानिकेतन n 1, (—दार=संपन्न  
 व्यापारिन् a 11),  
 कोड़ा तोत्र n 2,  
 कोड़ी विराति f 4, विराति संख्याक a 1  
 काढ़ कुष्ट n 1; कुष्ट रोग m 2,  
 कोड़ी कुष्टिन् a 11,

कोण कोण, दिगन्तराल n 1,  
 कोतल रिक्ताश्व m 1, पुष्टाश्व m 1,  
 दर्शनाश्व m 1,  
 कोतवाल रक्षिगणाध्यक्ष a 2, रक्षि-  
 नायक m 1,  
 कोतवाली रक्षिगणाधायक m 1, रसा  
 पुरुषस्थान n 1, (2) रक्षिनायक  
 कार्यालय m 1,  
 कोना कोण n 1,  
 कोप कोप m 1, रोष, क्रोध, अमर्ष m 2  
 कोपीन कौपीन n 1, लिङ्गाच्छादन n 1  
 कोमल कोमल a 1, मृदु a 6, (2)  
 सरल a 1, नम्र a 2,  
 कोयल कोकिल, पिक m 1, परभृत्  
 m 20, (स्त्री) कोकिला, परभृता  
 अन्यपुष्टा f 2,  
 कोयला शान्ताकार m, n 2, ईषदग्ध a 1  
 कोरा नवीन, अधीत, अव्यवहत् a 1;  
 (2) अलज्ज a 1,  
 कोर्ट न्यायालय m 1, धर्माधिकरण n 1,  
 कोल समीप-मे, अन्तिकं, के, आराद्  
 निकटे-टं, ind,  
 कोलाहल कोलाहल, अर्धनाद m 1;  
 विराव, दीर्घराव m 2,  
 कोल्हू तैल यन्त्र, रस निष्कासन यन्त्र n 2  
 कोशिश यत्न m 1, परिश्रम m 2,  
 (—करना=यत् 1 a),  
 कोष कोष, धनागार m 2, (2) शब्द  
 संग्रह, कोष m 2,

कोष्ठ प्रकोष्ठ, भवकारा, कोष्ठ m 1,  
 कक्ष, प्रतिश्रय m 2,  
 कोस कोश m 1,  
 कोसना अपशब्दान् प्रयुज् 7 a, अभि-  
 शम् 1 p, आकुर् 1 p, गई lu,  
 कोहर नोहार m 2,  
 कोड़ी कपर्दिका f 2,  
 कौतुक आनन्द, आमोद m 1, कौतुक  
 n 1, आश्चर्य n 2, अद्भुत घटना  
 f 2,  
 कौन किम् pro, 5,  
 कौन्सिल राज सभा, राज्य सभा f 2,  
 संसद् परिषद् f 17, समिति f 4,  
 कौमारी कुमारी f 6, अविवाहिता,  
 अनूदा f 2,  
 कौमुदी कौमुदी f 5, चन्द्र प्रभा f 1,  
 कौरव कुरुवंश्य, कुरुकुलोद्भव a 1,  
 कौरव a 2,  
 कौत्त पुट, पुटक n 1, (2) आल्यान,  
 कयन n 1, आल्यानिका f2, (3)  
 सिद्धान्त m 1, (-ओकरार=प्रतिज्ञा  
 f 2, प्रतिज्ञा पत्र n 2,  
 कौम जाति f 4, वर्षे m 1,  
 कौषा (आ) काक, वायस m 1,  
 कौशल्या कौसल्या f 2, रामनननी f 5  
 कौसल राजपुत्री f 6,  
 कंकर पापाण खण्ड, शिला खण्ड n 1  
 शक्ति f 1,

कंगला निर्धन, किञ्चन, अकिञ्चन a 1  
 दरिद्र a 2,  
 कंगन कङ्कण n 1, वलय m 1,  
 कंगना दीक्षा चिन्ह, कंकण n 1,  
 कंगूरा तोरण n 1, बहिर्द्वार n 2,  
 कंघा कंकति f 4, ककतिका f 2,  
 कंघी कंकति f 4, कंकतिका f 2,  
 कंचन कान्चन, सुवर्ण n1, हेमन् n12  
 कंचनी वेश्या, वाराहना, परयाहना f 2  
 वारविलासिनी f 5,  
 कंजर भगजीविन् a 11, वेश्याबन्धु  
 m 8,  
 कंजूस कृपण, अमुक्त हस्त, व्ययभीत a1  
 मितव्ययिन् a 11,  
 कंठ कण्ठ, गल m 1, ग्रीवा f 1,  
 कंठा कण्ठा भरण, गल भूषण n 1,  
 कंडी कण्डक n 1, शिताम्र n 2,  
 कंडी एष्यो f 5, एष्यिका f 2, ना-  
 राची f 5,  
 कन्द कन्द m 1, गोलमूल, गुप्तमूल n1  
 कंधा m स्कन्ध m अंस m 1,  
 कंस कृष्ण मातुल, कंस m 1,  
 क्य्या किम् ind,  
 क्यारी अंश भू f 11,  
 क्यो किम्, किमर्थ, केन हेतुना ind,  
 (—कर=कथम् ind) (—कि=हि  
 यतः ind),  
 क्रम क्रम m 2, नियम m 1, शैली,  
 परिपाटी f 5, रीति f 4,

क्रान्ति क्रान्ति, दीप्ति f 4, प्रकारा m 1

(2) आक्रमण n 1, क्रान्ति f 4,

क्रिया ऐकादशादिक कृत्य, मृतक कृत्य

n 1, (2) क्रिया f 1, कृत्य n 1

कर्मन् n 13, कार्य n 2,

क्रिश्चियन काइस्टमतातुयायिन् a 11,

काइस्टमतातुगामिन् a 11,

क्रिसमिसडं काइस्ट जन्म दिन, वृद्धि

दिन n 1,

क्रोड़ा क्रोड़ा f 2, क्रोहन n 1, खिलास

ग्रामोद, प्रमोद m 1,

क्रूर क्रूर कठोर a 2, कठिन, दुःस्वभाव

a 1,

क्रोध कोप, क्रोध m 1, अमर्ष, रोष

m 2, (—करना=कृप्, कुप् 4p

कोपाविष्ट a भू 1 p),

क्रिष्ट कठिन, दुःसाध्य, क्रिष्ट a 1,

ह्रीन्व क्रीव, पुंस्त्वहीन a 1,

कूर्क लेखक m 1, कार्य निर्वाहक a 2

केश केश m 1, दुःख, कष्ट n 1,

विपद् f 17,

कचित् कुत्रचित्, कचित् ind,

कार आश्विन मास m 1, (2) कुमारी

f 6 (3) नवोदा f 2,

कारा कुमार m 2, अनूद, अविवाहित

a 1,

कारी कुमारी f 6, अनूदा अविवाहिता

f 2,

क्षई क्षयरोग, राजरोग, विषम ज्वर m 2

क्षण क्षण, मुहूर्त, पल n 1,

क्षत्री क्षत्रिय, राजपुत्र m 2, राजन्य m 1

(स्त्री) क्षत्रिया f 1,

क्षमा क्षमा f 1, दया, कृपा f 2,

(—करना=क्षम् 4 p),

क्षय नाश, विनाश m 1, क्षय m 2,

(—होना=नश् 4 p), क्षि 1 p),

(—करना=नश् c),

क्षार क्षार a 2, तिक्त a 1,

क्षीण दुर्बल, हीन, क्षीण a 1, (2)

नष्ट a 1 (—होना=क्षि 1 p,

क्ष pass, दुर्बल a भू 1 p),

(—करना=नश् c, क्षा c),

क्षीर क्षीर n 2, दुग्ध n 1, पयस् n 15

क्षुद्र तुच्छ, गर्हित, निन्दित, नीच a 1

क्षुद्र a 2,

क्षुधा क्षुधा f 2, क्षुप् f 16, (—लगना=

क्षुधामनु भू 1 p),

क्षुर मुखडनास्त्र n 2, रोम शोधन n 1,

क्षेत्र क्षेत्र n 2, पुण्य भू f 11, उत्त

भू f 11,

क्षेम कल्याण, कुशल n 1, क्षेम n 2,

क्षौर क्षौर n 2, मुखडन n 1, क्षुर

कर्मन् n 13, (—करना=मुखडनं

कृ 8 p, क्षुरेण रोमाणि संशुभ् c),

(—कराना=मुखडनं कृ c),

ख ख, गगन, आकाश n 1,

खकार लकार m 2, खवर्ण m 1 (2)  
निष्ठावन n 1, (-ना=निष्ठाव् 1p),  
खग सग m 1, खेचर m 2, पखिन्  
m 31,

खच्चर अश्वतर m 2, (स्त्री) अश्वतरी  
f 6,

खगोल आकाश मण्डल n 1, खगोल  
विद्या f 2, आकाश, विज्ञान n 1,  
ज्योतिर्विद्या f 2, ज्योतिष् n 16,

खज्ञानहू कोश m 1, कोष m 2,

खज्ञानची कोशाधीश a 1, कोषाध्यक्ष  
a 2,

खजूर खजूर-वृक्ष m 2, खजूर फल n 1  
खटकना ग्राहन्, उपहन्, प्रभञ्ज pass  
(2) चित्तं संशयितं जन् (जा) 4 a,

खटका संग्रह, सन्देह m 1, शङ्का f 2

खटकाना or समा-भ्रा-हन् 2 p,  
खटखटाना } तड् 10 p, प्रह 1 p

खटपट विवाद, विरोध m 1, वैमनस्य  
n 1, (-होना=वैमनस्यं जा 4 a  
विवादा मृ 1 p), (-करना=विवद्  
1 p, विरोध माचर् 1 p),

खटमल मल्लुण, पर्येककीट m 1,  
खटमल n 1,

खटमिट्टा तिक्रमिष्ट a 1,

खटाई तिक्रता, अम्लता f 2, (2)  
खनन n 1, (-करना=खन् 1p)

खटास तिक्रता f 2,

खटिया पर्येक m 2, खट्वा f 2,

खटीक चर्ममर्दक a 2, चर्मविक्रयिन् a 11

खट्टा तिक्र, तिक्रस्वाद a 1,

खडक आहन शब्द m 1, प्रहारध्वनि  
m 4, (2) समाहनन n 1,

खडखडाना समा-भ्रा-हन् 2 p, तड्  
10 p, प्रह 1 p,

खड़ा उत्थित, सरलरियत, उच्चः स्थित  
a 1, (-करना=उत् रथा c,

(-होना=उत् रथा (तिष्) 1 p  
(खड् २ भठिति, तूर्णम् ind),

खड़ाऊं पादुक n 1, दारूपानह् f 23

खड़िया कथा f 2, (2) (-मिट्टी=  
श्वेत मृत्तिका f 2),

खड्ड खड, करवाल m 1, अक्षि m 4,

खण्ड अध्याय, विभाग, परिच्छेद m 1  
खण्ड n 1, (2) सिता f 2, शर्करा f 1

खण्डन खण्डन निरसन, भेदन, निरा-  
कल्प n 1, परिहार m 2, f 1,

(-करना=परानि 1a, परान् 4p  
तर्केण तिरस्कृ 8 p, परिह (हर्)

1 p,

खत पत्र n 2, (2) बाल m 1, रोमन्  
n 13, (-ओकितानत=पत्र ध्यव-

हार m 2, पत्र परिचय m 1),

खतम समास, संपूर्ण, परिसमास a 1.

(-करना=समाप् c, संपूर् 10 p  
पूर्णाकृ 8 p), (-होना=समाप्

pass);



खतरा संशय, अविश्वास m 1, भय  
n 1, (—नाकू=भय-जनक, अवि-  
श्वास्य, संशयित a 1),

खतरानी क्षत्रिया f 1,

खता प्रमाद, व्यामोह m 1, (2) उपेक्षा  
फल n 1, प्रमाद परिणाम m 1,  
(—खाना=पश्चात्तप् 1 p, उपेक्षा  
फलं प्राप् 5 p, हानौ दुःखित a  
भू 1 p),

खत्री क्षत्रिय, राजपुत्र m 2, राजन्य m 1  
खद्योत खद्योत, प्रभाकीट, शलभ, ज्योति  
रक्षण m 1,

खनफटना शब्द pass,

खपना s, समापन, व्ययीकरण n 1, (v i)  
समाप्, व्ययीकृ pass, (2) शुप्  
4 p, (3) क्रोधेन जल्प 1 p,

खप्पर अवधूत पात्र, कशाल पात्र n 2,  
कफट m, n 1,

खपाना समाप् c, शुप् c, संपूर् 10 p,

खफा क्रुद्ध, कुपित, रुष्ट a 1, (—होना=  
क्रुध्, कुप् 4 p), (—करना=रुष्,  
कुप् c),

खपकान उन्माद m 1,

खफीफा उपन्यायालय m 1,

खफीफ अल्प, तुच्छ a 1, चुद्र a 2,  
(—सा=किंचिद् ind, स्वल्प a 1,

खवर वार्ता f 2, उदन्त m 1, समाचार  
m 2, (उद्धृती=किंबदन्ती f 5,

जनश्रुति f 4, (—दार=सावधान a 1  
(—दारो=सावधानता f 2, मनो योम  
m 1), (—देना=निविद्, संसृच् a  
10 p, (—लेना=रत् 1 p, परि  
चर्याकृ 8 p, (2) प्रतिकृ 8 p),

खम ठोकना बाह् आस्कल् c,

खमीर किएव, मण्ड m, n 1, कारोत्तर  
n 2, (2) स्वभाव m 1, प्रकृति  
f 4,

खम्बा स्तम्भ, अवष्टम्भ, यूप m 1,

खयाल विचार m 2, कल्पना, आलो-  
चना f 2, सम्भाषना f 2, (—करना=  
विचर्, संभू, मनसाकृष् c, चिन्त्  
10 p), (—मे-आना=स्वृ pass,  
स्मृतिपथं प्राप् 5 p, (2) सम्भ  
चिन्त् 10 p),

खयाली काल्पनिक, सम्भावित a 1,

खर रासभ, गर्दभ m 1, खर m 2,  
(स्त्री) रासभी f 5,

खरगोश शृगाल, शशक, शश m 1,  
(स्त्री) शृगाली f 5,

खर्च व्यय, उत्सर्ग, त्याग, विनियोग m 1  
(—करना=व्यय् 1 p, उत्सृज् 6 p  
विनियुज् 7 u, (—होना=समाप्  
pass, व्ययीकृ pass),

खरवृज्जुह कालिङ्ग m 1, सेट्ट m 8,  
कर्कटी f 5,

खरल उलूखलिका f 5; (—करना=प्रति-  
सूक्ष्मतया चूर्ण 10 p),

खरा शुद्ध, सरल, सरलचित्त a 1,  
 (—तोटा=व्यामिश्र a 2, संकरित  
 a 1, (—खुरा=लाभरहित a 1,  
 खराव दुष्ट, अशुद्ध, अकर्मण्य a 1,  
 दुराचारि a 11, (—करना=दूष्  
 10 p, संदीर्घ a कृ 8 p),  
 (—होना=क्षिप्त a मू 1 p (2)  
 मालिनी मू 5 p, दूष् pass,  
 खरीद क्रय m 2, विनिमय m 1,  
 (—करना=क्री 9 p), (—फरोखत=  
 क्रयविक्रय m 2), (—करना=विनि-  
 मयं कृ 8 p, वाणियकृ 8 p,  
 खरीदार ग्राहक a 1 केतु a 7,  
 खर्च खर्व m 2, अर्द्धशतक n 1,  
 खल खल, दुष्ट, नीच, निर्दय a 1,  
 पापिन् a 11,  
 खरखली खरा f 1, व्यग्रता f 2, रभस  
 m 1, व्याकुलत्व n1, लोभ m2,  
 (—डाकना=विद्युम् c, रभसमाचर  
 1 p),  
 खलज प्रत्यूह, मङ्ग, विध्वंस m 1, लोभ  
 m 2, बाधा f 2, (—डाकना=बाध  
 1 a, छुम् c, विघ्न आवर् 1 p),  
 खलासी शिपिरखापक u 1, निवेशकर्तृ  
 a 7, निवेशक a 1,  
 खलवाट खलवाट, विशिल a 1,  
 खशखाश खसतिल n 1, ((—खरानर=  
 खरर a 1),

खसम पति m 15, खामिन् a 11,  
 भर्तृ m 11,  
 खसकना सु 1 p, अपसृप् 1 p, (2)  
 दूरी मू 1 p,  
 खसकाना अपसृ c, दूरी कृ 8 p,  
 खस्ता निर्बल, सुकोमल, असंहत, अट्ट  
 a 1, असांद्र a 2, (—हाल=  
 निधन, धन रहित a 1),  
 खांचा खात, पुटख n 1,  
 खांड शर्करा f 1, सिता f 2,  
 खांडा खड्ग, करवाल m 1, अंसि m 4  
 खांसी फास, काश, उत्कास m1, खवणु  
 m 8,  
 खाई परिखा, उपकृत्या, गर्ता f 2,  
 खाऊ औदारिक, धरमर a 2, आटून a1  
 उदरभरि a 5, अत्याहारि a 11,  
 खाक धूलि f 4, रेणु, पांशु m8, रजस्  
 n 15, (—रोच=मार्जक a 1),  
 (—डानना=वृथा श्रमं कृ 8 p,  
 निरर्थकं आयस् 4 p), (—मे  
 मिलना=मृ pass),  
 खाज कण्डू, खजू f 10, कण्डू या f 2  
 कण्डूयन n 1,  
 खाट लट्टा f 2, पर्यङ्क m 1,  
 खाड़ी समुद्र बंक m 1, बक n 1,  
 खात n 1,  
 खाद सार, उच्चार, अवरकर m 2,  
 (— डाकना=अवरकरं निक्षिप् 6 p,  
 सारं निधा 3 p),

खातमा अन्त m 1, समाप्ति f 4,  
 (—करना=समाप् 10 p. (-होना=  
 समाप् pass. समाप्त a भू 1p),  
 खाता दैनिक संख्यान, नैतिक गणन  
 n 1, (—पीता=सुस्थ, सुस्थित a 1  
 उयभोगिन् a 11, वित्तवत् a 16,  
 खातिर चित्त n 1, मनस् n 15, हृदय  
 n 1, (—खाइ=सन्तोष जनक,  
 सन्तुष्टि प्रद a 1), (—जमात्र=  
 विश्वास, प्रत्यय m 1, सन्तोष m 2  
 धैर्य n 2), (—दारी=सत्कार m 2  
 आतिथ्य n 1), (—धरना=सत्कृ  
 ऽ p, आतिथ्यं कृ ऽ p, सेव् 1 a  
 खानहृ गृह n 2, आलय m 1, आ-  
 वास स्थान n 1, (—दारी=गृह  
 स्थता f 2,  
 खान खानि f 4, खानी 5 f, आकर  
 m 2, (—सामा=पाचक m 1,  
 (स्त्री) पाचिका f 2, (—गी=निज,  
 स्व a 1, आत्मीय a 1. (2) व्यभि  
 चारिणी f 5, पण्याहना f 2,  
 खानदान वंश m 1, गोत्र n 2, कुल  
 n 1,  
 खानदानि कुलीन, सद्वंश्य, सुकुलोद्  
 भव a 1,  
 खानः s, भोजन, अन्न, भक्षण n 1 (2)  
 गृह n 1, आलय m 1. (v, t)  
 भत् 10 p, अद् 2 p, भुञ् 7 a  
 (—पीना=अन्नपान n 1);

खाम अपक, आरिन्कृत a 1, (—खाल=  
 अज्ञान n 1, मूर्खता, अत्रुद्धिमत्ता f 2)  
 खामोश adv मौनम्, तूष्णीम् (adj)  
 मौनिन् a 11, मूक a 1,  
 खामोशी मौन m 1, मूकता f 2,  
 खारा चार a 2, सलवण a 1,  
 खारिज च्युत, पृथक् कृत, निःसारित,  
 निरस्त, निराकृत a 1, (—करना=  
 वहिष्कृ ऽ p, निःसृ. निष्कृष् c),  
 खारिश कण्डू, तर्जू f 10, कण्डू f 9,  
 कण्डूया f 2, कण्डूयन n 1,  
 खाल चर्मन् n 13, त्वच् f 14, त्वच्  
 f 2, कृति, दति f 4, ( मृगकी )  
 अजिन n 1),  
 खालिस शुद्ध, निर्मल, अमिथित a 1,  
 खाली रिक्त, शून्य a 1, निकर्मन् a 17  
 कार्यारत a 1,  
 खालिन्ड पति m 15, स्वामिन् m 31  
 भर्तृ m 11,  
 खाल असाधारण a 1. विशेष a 2 (2)  
 स्व, आत्मीय a 1, (—कर=विशेषतया  
 असाधारण्येन adv, सुतराम् ind)  
 खालियत स्वभाव m 1, प्रकृति f 4,  
 खिचना आत्मानंत्रा 4 a, रच् 1 p (2)  
 कृष् 1 p,  
 खिचड़ी वैदलोदन, माषोदन n 1,  
 (—होना=परस्परमेकत्र संयुज् 1 a;  
 खिजना सन्तसचित्त a भू 1p. दन्तैर्दन्तान्  
 पीड् 10 p, क्रोधे आविष् 6 p,  
 अद्, उद्विज् pass),

खिजाना उद्-विज्, संतप् c. श्रद् 1 p.  
 क्रोधं उद्दीप् c.  
 खिजाव लेप, कृष्य लेप m 1,  
 खिजालत यत्न m 1, परिश्रम m 2,  
 (2) लज्जा f 2,  
 खिड़की वातायन n 1, (2) लघुद्वार  
 n 2, (3) द्वारपिधान n 1,  
 खिताव पद n 1, पदवी f 5. प्रातिष्ठा  
 f 2, (—देना=प्रातिष्ठया a 2,  
 पदव्या विभूप् 10 p. or संपुञ्  
 c.) (—पाना=प्रातिष्ठया पुञ् gass.  
 खिद्मत सेवा f 2, परिचर्या, शुश्रूषा  
 f 1, (—करना=सेव् 1 a, शुश्रूप्  
 1 a.  
 खिलद्यत प्रातिष्ठा द्रव्य n 2, मानवस्तु  
 n 6. सम्मानद्रव्य n 2.  
 खिलखिलाना विद्स् 1 p. उर्ध्वैर्हस्  
 1 p. सराश्रं हस् 1 p.  
 खिलाना विकस् 1 p, उरुकल् pass.  
 खिल्लाड़ r, क्रीडाप्रिय a 1, क्रीड  
 नासक्त a 1, चपल, चञ्चल, a 1.  
 खिलाना भुञ्, भृच् c. (2) क्रीड्,  
 आयुद् c.  
 खिल्लाफ विरुद्ध, प्रतिकूल a 1.  
 (—होना=प्रतिकूल माचर् 1 p.  
 विरुध 4 a.)  
 खिल्लारी क्रीडा प्रिय a 2, चपल a 1.  
 खिल्लौना क्रीदनक n 1.

खिल्लौ परिहास m 1, नमन् n 13.  
 हास्य n 1, विनोदोक्ति f 4,  
 (—वाज=परिहास शौल, वेहासेक  
 a 1, विनोद प्रिय a 2, (—करना  
 =परिहास् 1 p. विनोद वाक्य वद्  
 1 p)  
 खिसकना सु, भपत्प् 1 p. (2)  
 प्रस्वल्, विचल् 1 p.  
 खिसकाना अपस्, विचल्, सुप् c.  
 खिसारा अप चय, अलाभ m 1,  
 हानि, सति f 4, (—देना निश्कृति  
 दा (यद्) 1 p.)  
 खीचना कृप्, समाकर्प् 1 p. ग्रह् 9 p.  
 खीचवाना कृप् c. ग्राह् c.  
 खीर पायस, पायसौदन n 1.  
 खीरा उर्वाक, ईवारं n 7, ईर्वातु,  
 उर्वातु n 6.  
 खील लुप्त धान्य n 1.  
 खीसा गुप्तिकेग m 2, कोप गुप्त n 1.  
 खुजली कण्ट्या f 2, कण्ट्यन n 1.  
 खुद स्वयम्, स्वयमेव ind. (—गर्जं  
 =स्वायिन् a 11, स्वार्थान्ध a 1.)  
 (—गुप्ततार=स्वतन्त्र a 2.) (—उ  
 =स्वहृन्दजात a 1.)  
 खुदना खन्, उत्वन pass.  
 खुदा ईश्वर, परमेश्वर m 2, परमान्मन्  
 m 23.

खुबना, ) नि-भरन् (मन्त्र) 1 p.  
खुबजाना) निभन a ५ 1 p.

खुमारी मादकव्यवसाय m 1. उन्माद  
m 1. उन्मत्ता f 2.

खुर शक m 1. पशु नस्त n 1.

खुरचना उल्लिखन्, खिलम् 6 p.

खुरगन्ध, खुरगन्ध, खुरगन्ध

खुरमी जानः n 1. खण प्रसेद  
m 1. पराधन-युत a 1.

खुरपा खुरण n 1. (२) प्रासोवेदन  
n 1.

खुरपी खुरपी f 5.

खुरमा मधुरान्न, मिष्ट भोज्य n 1.

खुराक आहार m 2, भोजन n 1,  
(2) मात्रा f 1.

खुरदेवीनि अणुवीक्षण n 1, सूक्ष्मदर्शक  
यन्त्र n 2.

खुराष्ट्र अतिवृद्ध a 1, अतृभविन् a 11  
समयज्ञ a 1, कालको विद a 1.

खुलना खुद् pass. खुल् 1 p.

व्यस्ताप, आधिर्भू 1 p. द्विधाम्

1 p. विकम् 1 p. (2) प्ररुद्

(सीद्) प्रसादं गम् 1 p. निर्मल

a ५ 1 p. निरधी ५ 1 p.

खुलासा संक्षेप m 2, (—करना=

संक्षिप् 6 p.) (2) विस्तृत, विशाल

a 1 (—करना=विस्तृ c.)

खुश प्रसन्न, आनन्दित, सानन्द a 1,  
(—करना=प्रसद् c.) (—वृ=

सुगन्ध m 1.) (—बूदार=सुगन्धित

सुवासित a 1) (—नवीस=सुलेखक

a 1) (—नसीप=भाग्य वत् a 16

सुमग a 1) (—सुमां=मनोहर

सुन्दर a 2 (स्त्री) सुन्दरी f 6

(—संसाक=सुवातसु a 20.)

खुशानन्द चाट्टाकि, व्यानस्तुति f 4,

अनुनय m 1, मिथ्याप्रशंसा f 2

(—करना=उपलल्, उपलब्द् 10

p, चाट्टानि वच् or वृ 2 a.

खुशामदी चाट्टाकार a 2.

खुशी प्रसन्नता f 2, आनन्द, प्रमोद

m 1.

खुशक खुष्क, अक्लिन्न, नीरस, वान a 1.

खुशकी स्थल n 1 (2) नीरसता,

वानता f 2, शोष m 2.

खुट कोन n 1, अस n 2.

खूटा दण्ड, मुष्टि दण्ड m 1, चारंग

m 2.

खूटी नागदन्त m 1, भारयष्टि f 4,

विहानिका, कृषिका f 2.

खून रुधिर n 2, रक्त n 1, असुन् n

10, (—करना=हन् 2 p. प्राणौ

विद्युन् c.) (=काप्यासा=धाते=खु a

6, जिघांसु a 6.

खूनी पातक, वधक a 1.

खेचर खेचर a 2, खग a 1. आकाश

गामिन् a 11, पक्षिन् m 31,

(2) तारक n 2, तारा f 1-

खेट अरिष्ट m 1, मृगया f 1, (2)

ग्रह n 2, (3) अधम, विकृष्ट a 1

(4) भय n 1, (5) पक्षिन् m

31.

खेड़ा ग्राम m 2, (—पति=ग्रामणी 7

ग्राम नायक m 1.)

खेड़ी शुद्ध लोह m 1.

खेतं खेत्त n 2, कृषिम् f 11, उर्वरा f

1. (—काटना=शस्यं 2 p.

खिद् 7 p. अत्रकृत् 6 p.

खेतो शस्य n 1 (—करना=कृत् 6 p.

कृषिकृ 8 p.) (—करने वाला=

कृषक a 2.)

खेद खेद, केश m 1, दुःख, कष्ट n 1,

पीडा f 2. (—होना=विलस्य, खिद्

पाङ् pass.) (—देना=विलस्य 9

p. पीडा 10 p.)

खेप द्रव्य संग्रह m 2, वस्तु संचय m

1 वस्तु जात n 1, (—भरना=

द्रव्याणि or वस्तुनि संग्रह 9 p.

वस्तु जातं संचि 5 p.)

खेम खेम n 1, कल्याण, कुशल n 1.

खेमा शिविर n 2, निवेश m 1

(—गाहना=शिविरं निवेश c.)

खेल-मार्गा f 2, आमोद, चित्त विनोद

m 1, (—ना=कीड् 1 p.)

(—विगाहना=कार्यं नश्य c.)

(—समभना=सुकरंता 9 p. बुध्

1 p.)

खेस होमवसन. पट्ट प्रावरण, दुकूल m 1

(2) प्रच्छदपट्ट m 1 आस्तरणपट्ट

m 1.

खेचना आकृत् 1 p. (2) खिच् 6 p.

खिच् 10 p (तस्वीर=चित्रं

खिच् 6 p. चित्रफलकं खिच् 10

p.) (सलवार=प्राप्ति निःसृ c.)

खर कल्याण, कुशल n 1, शुभ a 1,

खेम n 2.

खेरात दान n 1, उत्तर्ग, त्याग m 1.

(—करना=उत्सृज् 6 p. दा. (यद्)

1 p.) (—खाना=दानालय m 1')

खोआ पयस्य n 1 घनकीर n 2

see माया.

खोखला असार, निःसार a 2, शस्य

a 1.

खोज अग्नेय, अनुसंधान, निरूपण n

1. (—करना=ग्रन्थिप् c. अट्ट-

संधा 3 p. निरूप् 10 p.)

खोट दोष m 2, मिथ्यात्व, कथ्यमान

n 1, अशुद्धता, अमार्थता f 2,

(2) अपर्यय m 1 (3) कपट, दूट

n 1, धमन् n 12. (—करना=

दुर्वचह 1 p कूट माघर् 1 p.

खोटा अशुद्ध, मिथित a 1, (2)

झाङ्गीक a 1, कृत्कारिन् a 11.

खोदना खन् 1 p.

खोता अपहृ c. कुमार्गे व्यय् 1 p.

वृथा व्यय् 1 p.

खोपरा (री) कपाल n 1. (2) नारि

के लाष्टि n 5.

खोपड़ी कपाल, कर्पल n 1 शिरोस्थि

n 5,

खोलना आर्कभृ c. व्यक्तीकृ 8 p. उद्

फ् c.

खौफ़ भय n 1, भीति f 4, (—नाक

=भयात्मक, भयजनक, भयावह,

भीखुत्पादक, वभिन्स a 1)

खौलना s. कयन n 1 काथ m 1

(v. i.) उक्तम् 1 p कप् pass

यत्रा 2 p.

खंकार निर्घाबिन n 1, (—ना=निष्ठाव्

1 p.

खंजर सुधाशकल n 1.

खंजर असि m 4, खर m 1, असि

पुत्रिका f 1.

खंजरी लघ्यानक n 1.

खंड भाग, विभाग m 1. खंण्ड n 1.

खंडन निराकरण, निरसन, अपासन n 1

(—करना=निराकृ 8 p. अपास-

2 a. निरस् 4 p.) (2) वेदन

वेदन n 1, (—करना=खण्ड्

10 p. खिद् 1 p.

खंडर अवसाद, लोप, उच्छेद m 1,

निपातन n 1, जर्णिता f 2.

खंडित भिन्न, छिन्न, खण्डित a 1.

खन्वाच स्वप्न, स्वाप, आभास m 1,

मिथ्या वासना f 2, स्वप्नदर्शन

n 1. (—आनां=अयने चेद् 1 a,

स्वप्न आभास pass.

ख्घारी दुर्दशा f 2.

ख्घाद्दिश इच्छा, आशा, उत्कण्ठा f 2.

स्पृहा f 1, राधि f 4, (—मन्द=

स्पृहयास्तु, इच्छु a 6. ऐच्छक a 1.

गगन आकाश, ख, गगन n 1.

गगरी घटी, धातुघटी f 5. कलस m 1.

पुर जीव m 2.

गङ्गा गङ्गा f 2. भागीरथी, जान्हवी

f 5.

गच्च पञ्च संघ, समूह, संघात. गण, वृन्द

m 1.

गज गज m 1, दन्तिन्, हस्तिम् m

31.

गज्ज गज, मान गज m 1, कूपकाष्ठ

n 1.

गज्जव अनर्थ m 1, आश्चर्य n 2, अद्

भुत, अत्याहित n 1. (—करना

or मारना=अनर्थ or अत्याहित

भाचर् 1 p.

गजरा कुसुमाभरण n 1, पुष्पासंकार

m. 2. (2) स्पष्टिक-बलय m 1,  
स्फटिक कदम्ब n 1.

गजल पथ n 1, छन्दस् n 15, पथ  
रचना f 2.

गङ्गा खल्वाटता f 2, (2) समूह m 1  
राशि m 4.

गङ्गा खल्वाट, विशिल a 1.

गठरी कूर्च, गुच्छ m 1, पोटीलक f 2  
(2) संघात m 1. (—बान्धना

=शुद्धीकृ 8 p. एकत्र समाहृ 1p.)

गठौला ग्रन्थि मत् a 9, ग्रन्थिल a 1.

(2) व्यूढोरस्क, वज्रदेह, मांसल a 1.

गङ्गा कूर्च, गुच्छ m 1.

गङ्गना निलन्, भूमौ-स्था-निष्ठा-निगूढ  
pass.

गङ्गरिया अविपाक, मेघपाल, m 1.

गङ्गवा जलपात्र n 1, कमण्डलु m 8.

गङ्गवाना निलन्, भूमौस्था=निगूढ c.

गङ्गवङ्ग संभ्रम् m 2, वैकव्य n 1,  
अस्तव्यस्तता f 2.

गङ्ग दुर्ग n 2.

गङ्गा अवट, गर्त m 1, गर्ता f 2.

गण गण, समूह m 1, वृन्द, संघात  
m 1.

गणना गणना, संख्या f 2, परिसंख्या  
n 1, (—करना=गण् 10 p.

संख्या 2 p. परिसंख्या 2 p.)

गण नाथ गणेश, गणनाथ, गणनायक

m 1, गणपति. m 4.

गणिका गणिका, वाराहना, पण्यहना  
f 2, वारविंलासिनी f 5.

गणित गणित n 1, गणित शास्त्र,  
ज्योतिः शास्त्र n 2.

गणितज्ञ ज्योतिर्विद् m 20, f 17,  
संख्या विचारद, गणितज्ञ a 1.

गणेश गणेश, एक दन्त m 1. विष्णुहर  
m 2, गणपति m 4.

गत गत, अतीत, व्यतीत, अतिक्रान्त  
a 1.

गति गति f 4, गमन, चलन n 1, (2)  
दशा, अवस्था f 2.

गदर उपलव m 1, देओपदव m 2,  
अराजकता f 2.

गदा गदा f 2, यष्टि f 4, दण्ड m 1,  
मुद्गर, वेत्र n 2. (—धर=विष्णु  
m 8.

गद्ला मालिन, पकिल, आविल a 1,  
कलुष a 2. (—करना=मलिनीकृ  
8 p. समल a. कृ 8 p. कलुषी  
कृ 8 p.

गद्लेला पिडुतल्प, मुडुतल्प n 1,  
कौमलास्तर, अपस्तर-संस्तर m 2,

गद्गद भति प्रसन्न, प्रफुल्ल सगद्गद  
a 1 (2) वाष्पगल a 1 (—होना  
=प्रतिप्रसन्नतया भाष् 1 a.)

गद्दी -सिंहासन, उष्चासन, भन्नासन,



नृपास्त n 1.  
 गद्य गद्य n 1, सरल भाषा f 1, अर्थ  
 रचना f 2.  
 गद्या रासभ, गर्दभ m 1, तरं m 2.  
 (स्त्री) रासमी f 5.  
 गृही धनिन् a 11, घनाढ्य a 1,  
 वित्तवत् a 16. (2) उपेक्षा कारिन्  
 प्रमादिन् a 11.  
 गृहीम शत्रु m 9, अरि m 5, प्रति  
 योद्धृ a 7, (2) ध्वंसक, विलुंठक  
 a 1, अपहारक a 2, नित्तापहारिन्  
 a 11.  
 गृहीमत लोचन n 2, अपहार m 2,  
 विलुंठन n 1, अपहृत द्रव्य n 2.  
 (2) सौभाग्य n 1, शुभ a 1,  
 भद्र a 2.  
 गंधा इक्षु m 9, इक्षुदण्ड m 1.  
 गन्ध गन्ध m 1, वासना f 2, (2)  
 चिन्ह n 1, (दुर्गन्ध, सुगन्ध m 1.)  
 गन्धक गंधिक, गन्धक, सौगन्धिक n 1  
 गन्धाश्मन् n 12.  
 गन्धर्व गन्धर्व m 2, देवगायक, स्वर्गायक  
 m 1 (—विवाह=गांधर्व विवाह  
 स्वेच्छा विवाह m 1, स्वयंवर  
 m 2.)  
 गन्धार गान्धार m 2, गान्धार देश m  
 1, गान्धार नगर n 2.

गंधारी गान्धारी f 6, धूर्तराज् पत्नी f 5  
 गण जल्पन n 1, प्रलाप, प्रमत्प,  
 वातीलाप m 1. (—गारना=प्रत्य  
 अनर्थकं वद् 1 p.)  
 गण्पी वाचाल, वाचार, वावद्क a 1,  
 मिथ्या भाषिन्, बहु भाषिन्, a 11  
 गण स्थूलघन a 1; नीरन्ध्र, साध्र  
 a 2.  
 गण्डत f 1, प्रमाद m 1. (—करना  
 =उपेक्ष 1 a, प्रमद 4 p.)  
 गण्डूर कृपालु, दयालु a 6. ईश्वर m 2.  
 गवत कुसृति, निकृति f 4, अपहार m  
 2, (—करना=अपहृ 1 p.  
 कुसृतिकृ 8 I.) (—करने वाला=  
 अपहारक a 2.)  
 गम शोक, विषाद m 1, दुःख n 1.  
 (—खोर=साहिष्णु a 6. सहनशील  
 सन्तोष वत् a 16.) सन्तोषिन् a  
 11.) (—जाफ=शोकोत्पादक. दुःख  
 जनक, विषाद जनक a 1) (—गनि  
 =शोक मग्न, शोकाविष्ट a 1.  
 शोकातुर a 2.)  
 गमन गमन, संसरण, चञ्चन, प्रस्थान  
 n 1, गति f 4, यात्रा f 1.  
 (—करना=गम् (गच्छ्) 1 p. प्रस्था  
 ( तिच्छ् ) 1 a.)  
 गम्भीर गम्भीर धीर a 2, धीर प्रकृति  
 a 4, (2) अगाध, अतलस्वरी a 1.

गमना कुसुमभाजन n 1, पुण्याधार  
m 2.

गया गत, अतीत, व्यतीत a 1 (-युजरा  
=अकर्मण्य, कार्याधम, अयोग्य  
a 1, निष्कर्मन् a 11. (2)

गया f 2, पिबुद्धारक तीर्थे n 1.

गरज्ज प्रयाजन n 1, तल्पयं n 2, (2)  
आवश्यकता f 2, (3) कांक्षा. अपेक्षा  
f 1, (- मन्द=दीन, अकिंचन a  
1, दरिद्र a 2.) (-रखना=अपेक्ष  
आकांक्ष 1 p.)

गरज्ज गर्जना f 2, निर्घोष m 2,  
नर्दन n 1 (-ना=गर्ज्, नर्द्,  
स्तन् 1 p.)

गरदन श्रीवा f 1, कण्ठ, गल m 1.

गरीष दरिद्र a 2, निर्दन, अकिंचन,  
निष्किंचन a 1.

गरुड् गरुड्, वैनतेय, पक्षिराज m 1.

(-ध्वज=विष्णु m 8, गदःपीण  
m 4, गरुड् ध्वज m 1)

गरुड् अस्त a 1 (-होना=अस्तगम्  
1 p. अस्तंमा 2 p.)

गर्क नष्ट, ध्वस्त, लुप्त a 1, (-करना=  
नश् c.) (-होना=नश् pass.

गर्भं गर्भ m 2.

गर्दं धूलि f 4, रेणु m 8, पांशु m 8,  
रजस् n 15, मृत्तिका f 2.

गर्दिश परिवर्तन, आवर्तन n 1, चक्र

n 2, आवृत्ति f 4, पर्याय m 2.

गर्भं गर्भ, अहंकार m 2, नमाद m 1.

गर्भं गर्भ m 2, दौष्ट्य n 1, मध्य n 1,  
उदर n 2, कुक्षि n 3, (-वती=  
गर्भवती, अन्तर्वली f 5.)

गर्भ उष्ण, तप्त (2) तीक्ष्ण a 1,  
(-होना=उष्णाकृ pass. तप्त a  
भृ 1 p. कम् pass.) (-करना  
=तप्, कय् c.)

गर्भी उष्णता f 2, ताप m 1. (2)  
गर्भ, ग्रीष्म m 2, (3) उपदरा  
m 1.

गल श्रीवा f 1, कण्ठ, गल m 1  
(-से लगाना=कुस्, शिल्प 4 p)  
(-पङ्कना=परुषंवद 1 p. रुक्षं भाष्  
1 a. कर्करा a भृ 1 p.)

गलत अशुद्ध, अयुक्त, अयथार्थ a 1,  
सदोष a 2.

गलती (1) अशुद्धि f 4, (2) अवज्ञा  
f 2, (3) प्रमाद m 1, (4)  
अपराध m 1.

गलना विली 9 p. दु (द्र), कर्,  
गल् 1 p.

गल्लह धान्य n 1, धान्य राशि m 4.

गल्ला गलित, जीर्ण, स्फुटित a 1.

गल्लाना विली, दु, कर्, गल् c.

गल्लो वीथी f 5. रथ्या f 2.

गल्लोज्ज मलिन, समल, कुसित a 1,

कृ 8 p. प्रमह् 9 p  
 गिरवी आधान, बन्धक, n 1, आधि  
 m 4, (—खना=आधानतयास्था  
 c. बन्धेदा 3 p, (2) आधानेन  
 वशीकृ 8 p, बन्धकतयाधिकृ 8 p.)  
 गिरह् ग्रन्थि, सन्धि m 4, (2) गजकला  
 f 2, (—देना=ग्रन्थि-बन्ध 9 p.)  
 गिराना पत् c. लिप् 6 p, अस् 4 p.  
 गिरि गिरि m 5, पर्वत, नग m 1.  
 गिरेश्वान गल्पट्ट, कण्ठ बन्धन, आवावसन  
 n 1. (—मे मुंह डालना=लज्ज  
 1 a, आत्मदोषान् विचर, c.)  
 गिरोह् समूह, गण, संघात, समुदाय  
 m 1.  
 गिरा वाष्पी, सरस्वती- f 5, वाच् f 14,  
 गिर् f 20. (2) पतित a 1.)  
 गिर् सपीप (वे) आरात्, अन्तिक-के  
 ind. (इदं=अमितः परितः ind.)  
 गिल्ट (टी) ग्रन्थि m 4, शोफब्रण,  
 स्फोटक n 1, स्वयथु m 1, (2)  
 इचेताभा, रजताभा f 2. (—करना  
 =रजतभासा-शुभ्र-संयुज् c.)  
 गिला उपालम्भ m 1. (—देना=  
 उपालम्भ 1 a.)  
 गिलाफ आच्छादन, आवरण n 1, प्रवार  
 m 2. (—चदाना=निग्रह 1 v.)  
 विधा 3 p. स्वर्ग 10 p.)  
 गिलास पानपात्र n 1 कंस m, भोवास्य  
 n 1.

गीत गान, गीत n 1; गीति f 1.  
 गीता गीता, भगवद् गीता f 2.  
 गीदड़ शृगाल m 1, (स्त्री) शृगाली  
 f 5. (—भमकी=तवर्जन, भर्तेन  
 तर्जित n 1; अपकारगिरु 20;  
 (—देना=संतर्ज 1 p. निभेत्  
 10 a.)  
 गीजा क्लिन्न a 1, आर्द्र a 2.  
 गुच्छा गुच्छ, स्तवक, समुदाय, पिरड  
 m 1. (—होना=पिरडी भू  
 1 p.)  
 गुडज्ञान संघट्ट m 1. (2) कोलाहल  
 m 1.  
 गुजाइश उपयुक्तता, योग्यता, वचना  
 (—करना=व्यमता, मापाट्ट c.  
 उपयुक्तताकृ 8 p.)  
 गुजरना अतिवर्त 1 a, कालोपा 2 p.  
 गुजारा-निर्वाह, अतिवाह m 1,  
 (—करना=दिनानिया c. (2)  
 जीवनोपाय-विधा 3 p.) (—होना  
 =निर्वाह मात्र भू 1 p.)  
 गुजारना या c. अतिवह c.  
 गुटफना (v) कृन् 4 p. निर्गीण 1 p.  
 (s.) कृज्ज, निर्गीण n 1.  
 गुटफा लघु पुस्तक, हस्त पुस्तक n 1.  
 गुटिका गुटिका f 2, गुटी f 6.  
 गुडली अष्टि f 4, अक्षीला f 2, कल  
 बीज n 1.  
 गुड्ड गुड m 1, संहतेदुरत m 1.

गुडगुहाना अस्पष्ट-प्रलप, अस्पष्ट-जल्प

1 p.

गुडिया पुस्तिका, शालभाजिका

f 2; कुटी f 5;

गुडी see गुडिया.

गुणं गुण m 1; विया f 2, शिल्प

n 1.

गुयता अर्थ, निवन् 9 p. or pass.

(s) अर्थन n 1.

गुदडी जीव वृद्धातिका f 2. (2) पण्य

वीर्षा f 5, निषर्षा f 2.

गुदगुदा सुकुमार, अप्रखर a 2, पेलव

मृदल a 1.

गुदा गुद f 2, पुरीपदार n 2.

गुदा गुद, सत्वक m 1.

गुनाह दोष m 2, अपगुण m 1,

दुष्कर्म n 18, पाप n 1, (-गार

=अपराधिन्, दोषिन् a 11,

सापराधं a 1.

गुप अन्धकार m 2, तमन् n 15.

(—अन्धेरो=अन्धतामिस n 2.)

गुपचुप तूष्णीम्, मौनम्, निभृतम्

ind.

गुन गुप्त, अप्रज्ञात, राक्षस, अज्ञात,

अविदित n 1, प्रच्छन्न a 1.

(—खना=गुप 1 p. (गोपा-

यति:)

गुमी गुसासि m 4; (2) जपभक्तिका

f 1.

गुफतगू संलाप, वार्तालाप, परस्परलाप

m 1. (—करना=संवद् 1 p.

आसप 1 a.

गुफा गुहा f 2; कन्दरा f 1, दरी f 6.

गुफिया गुप्त, अज्ञात a 1. (—गुलास

=गुप्तचर, अज्ञातचर m 2.)

गुवार रेणुवात m 1; मृद् मेघ m 1,

(दिलका—=शेष, क्रोध m 1,

अमर्ष, शेष m 2., (—निकालना

=शेष आविच्यु 8 p.)

गुवारा व्योमयान, विमान n 1.

गुम हृत, हारित, लुप्त, नष्ट a 1,

(—करना=चुर 10 p. हृ 1 p.)

(—होना=लुप्, नश्, हृ. pass.)

(—सुम=तूष्णीम्, शान्तम्, नि:

शब्दम् adv.)

गुमाशता प्रतिदस्त, अधमर्ष a 1,

प्रतिनिधि a 4, नियोगिन् a 11.

गुमान शङ्का f 2, सन्देह, अविश्वास

m 1; (3) गर्व, अहंकार m 2.

प्रमाद m 1. (—करना=विशङ्क

1 a, (2) अहं 8 p.

गुग्गाची पादुका f 2, उपानह f 23.

गुह आचार्य m 2, गुह m 9, (2)

भारवत् a 16, गुह a 6.

गुल पृथ n 2, कुमम, प्रमत्त n 1.

(—कन्द=जपोपस्कर m 2, सन्धित

सेवती f 5.) (-जार=पुष्पोद्यान  
n 1, पुष्पवाटिका f 2.) (-दस्ता=  
पुष्प गुच्छ, कुसुमस्तवक m 1.)  
(-वदन=सुन्दर, मनोहर a 2.)  
(-चिराय=दग्धवर्ति f 4. तुला  
f 2.) (-नार=दाडिम पुष्प n 2.)  
(-नारी=दाडिमाभ a 1.)

गुलाई वर्तुलत्व, गोलत्व n 1, वर्तुलता  
f 2.

गुलाय (कूटो) जपा f 2, सेवती f 5.  
(फूल) जपा पुष्प n 2, जपा कुसुम  
n 1, ओड़ पुष्प n 2.

गुलायी जपा पाटल, सेवती-सवर्ण,  
जपामे a 1. (-छड़काव=  
आशोत्पादन, आशावर्द्धन n 1.)  
(-करना=आशाजनक-वचनानि  
म.पू 1 a, आशां वध् c.

गुलाम दाम, भृत्य, सेवक m 1, किंकर,  
अनुचर m 2, (स्त्री) दासी f 5,  
भृत्या f 2, किंकरी, अनुचरी f 6.

गुलाल रक्त चूर्ण n 1, (लाल=रक्तचूर्ण  
a 1.) (-करना=रञ्ज् 10 p.  
रक्ताकि 8 p.

गुलिस्तां पुष्पवाटिका f 2; कुसुमोद्यान  
n 1.

गुल्जी फल बीज, बीज, गुर्भ बीज n 1.

गुनेल वेटिका, गुलिका गुटिका f 2.

(2) गुलिकाक्षेपण n 1, गुटिकाचाप

m 1.

गुस्ताल वियात, अशिष्ट असम्प a 1,  
ग्राम्य a 2.

गुस्तामी अविनय m 1, वैगन्य n 1,  
धाट्य n 1, अमर्यादा, असम्पता,  
अशिष्टता, रूतता f 2. (-करना=  
नातुनी 1 p. रूत व्यवह 1 p.  
अशिष्टाचारणकृ 8 p. वैयात्यमाध  
1 p.

गुस्ता क्रोध, कोप m 1, रोष, अमप  
m 2. (-चढ़ना=कोपाविष्ट a 4  
1 p. कुध् कुप् 4 p.)

गुसल स्नान, मर्दन, शरीर शोधन n 1,  
(-स्नाना=स्नाना, r m 2.)

गुसाई गोस्वामिन्, स्वामिन् a 11,  
उपदेष्टु a 7, गुरु m 9.

गुह पुरीष n 2, मल n 1, विष्टा f 2.

गूगा मूक a 1, अवाच् a 12.

गूज प्रात शब्द m 1, प्रतिध्वनि m 1,  
कोलाहल m 1. (2) स्याति f 4.

गूजना अति-स्वन्-ध्वन् 1 p. अनुनद  
1 p. नर्द 1 p.

गूदना वेणीकृ 8 p. केरान् संधिप् c.  
केरान् संसाव् 4 p; (2) केरान्

मृद् or संपृद 9 p. आकुच् c.  
(आटा—=चूर्ण माकुच्, c.) (s.)

केरामन्ध, धम्मिल्ल m 1. (2)  
आकुप्पन n 1.

गुणल गुणल m 1, पुप m 1.  
 गुजर गोप, गोपाल m 1. (स्त्री) गोपी  
 f 5.  
 गृह गृह, गृह, कठिन a 1. (2) रहस्य  
 n 1.  
 गृह्ण जीर्ण वसन n 1, चीर, चीवर  
 n 1, कपट, परस्त्रयट n 1.  
 गृदा सार, गर्भ m 2, बीज n 1, मर्मन्  
 n 13.  
 गुजर अञ्जीर m 2, अञ्जीर फल  
 n 1.  
 गुध गुध m 2.  
 गृह गृह n 2, आवास स्थान n 1,  
 आलय m 2.  
 गृहस्थ गृहस्थ a 1, कुटुम्बिन् a 11.  
 गौडा गण्ड, गण्डक m 1. साविन् m  
 31. (स्त्री) लक्षधेनु f 9.  
 गौड कन्दुक n 1.  
 गौड़ गोधूम, सुपन m 1.  
 गौरीना-लिप्, प्रति-लिप् 6 p. प्राप्त  
 4 p. प्रच्य c.  
 गौरु रक्तमृत्तिका f 2; रक्तमृद् f 17.  
 गौरी गो m 12, धेनु f 9.  
 गौरी प्रच्छन्न, गुप्त, अज्ञात a 1; अगोचर  
 n 2. (—दो = अन्तर्यामिन् a  
 11.) (—होना = अगोचरी धृ 1  
 d. गुप् pass.)  
 गौरी अन्य pro. 2; पर pro. 3, अपरि

चित a 1. (—हृशिर = अनुपस्थित a  
 1.) (—वाजिव = अनुचित, अयुक्त,  
 अयोग्य a 1.)  
 गौरत विनय m 1, लज्जा, नम्रता f 2,  
 (2) घृणा f 2. (—करना = लज्ज  
 1 a, नम्रीम् 1 p. (2) घृणांकृ  
 8 p.)  
 गो यद्यपि ind. (2) गो m 12, धेनु  
 f 9. (3 किरण n 1. (4) इन्द्रिय  
 n 2.  
 गौड निर्यात, रस m 1, श्यान n 1.  
 (—दानी = श्यान पात्र n 2, निर्यात  
 भाजन n 1.)  
 गोकुल गोकुल माम m 2. (2) गोष्ठ,  
 गोण्य m 1.  
 गोखरु जालाभरण n 1. (2) सूत्रवलय,  
 स्त्री वलय m 1.  
 गोचर, प्रत्यक्ष a 2, इन्द्रियवतिन् a 11.  
 गोटा जालाभरण, सौवर्ण-राजततन्तुजाल  
 n 1, वसना भरण n 1. (—लगाना  
 or चदाना-जालाभरणः-भृत् 10  
 p. अलंकृ 8 p.)  
 गोत गोत्र n 2, कुल n 1, वंश m 1.  
 गोतम गोतम m 1, न्यायाचार्य m 2,  
 (2) बुद्ध m 1, शास्त्रज्ञानि m 4.  
 गोता (हृ) निमज्जन n 1. (—लगाना  
 = निमस्त् 6 p. 'स्तु 1 a. (—सौर  
 = निमन्तृ a 7, विगाहक a 1.)

गोद अ३, उत्संग, कोड m 1. (-लेना  
 =पुत्रीकृ 8 p.)  
 गोदाम अण्डार m 2, भाण्डारालय  
 m 1, सम्भार कोष्ठ m 1. (माल  
 =द्वालय, वस्तुसञ्चयालय m  
 1; वस्तुयान स्थान n 1.) (8)  
 गोदावरी गोदावरी f 6, गोदावरी नदी  
 f 5.  
 गोधूली गोधूली f 4, गोरज्जु n 15.  
 (2) गोपाष्टमी f 5.  
 गोप गोप, गोपाल m 1.  
 गोपी गोपी f 5, गोपाल स्त्री f 8.  
 गोबर गोमय n 1, पशुपुरीप n 2.  
 गोची (भी) श्वेत शाक m 1, शाकलता  
 m 1 2.  
 गोमय see गोबर.  
 गोमुखी गोमुखी, जपस्थली f 5, जप  
 भाषिका f 1.  
 गोरखा गोरखक a 2, नेपालीय a 1,  
 गोसा श्वेत, उज्ज्वल, श्वेतारु, गौर कृष्ण  
 a 1, गौर a 2.  
 गोल गोल, वर्तुल a 1.  
 गोलक संपुटिका f 1, लघुसंपुट  
 m 1.  
 गोला गोल, ससिक गोल, लोह गोल,  
 मर्मरोपल m 1, धाम्नेयारु n 2.  
 (-श्वदास = धाम्नेयारु विद् m  
 20, f 17.)

गोली मांसक-शुलिका-शुटिका f 1.  
 गुयी f 5. (-चलाना = लोह गोलान  
 प्रतिपू 6 p. विसुन् 6 p. (2)  
 सांसकशुलिका: सिपू 6 p. शाने  
 यास्त्राणि-सुच् 6 p.)  
 गोविन्द गोविन्द, श्रीकृष्ण m 1.  
 गोश कर्ष m 1, श्रेत्र n 2. (-गुला  
 = कर्ष गोचर a 2.) (-करना =  
 संसृच् 10, निविद् 10 p. कर्ष  
 गोचरीकृ 8 p.)  
 गोशत मांस n 1.  
 गोशह कोष n 1.  
 गोशाला गोशाला f 2, गोष्ठ, गोस्थान  
 n 1.  
 गोह गोधा, गोधिका f 2.  
 गौ गो m 12, घेह f 9.  
 गौ अपेक्षा, कांता, स्पृहा f 1, स्पृहा  
 f 2. (2) आवश्यकता f 2.  
 (-रखना = अपेक्ष 1 a. स्पृहा  
 f 10 p. अभिलष 6 p.)  
 गौदा मृदोप, मृषिण्ड m 1.  
 गौड़ गौ ब्राह्मण m 1.  
 गौण अग्रधान, अग्रमुख्य, गौण a 1.  
 गौन शाटक, चण्डातक n 1. (2)  
 प्रायारक n 2, महा अरण n 1.  
 (गर्लस = अद्वैतरक n 2.)  
 गौना द्विरामन n 1.  
 गौर गौर a 2, श्वेत, उज्ज्वल a 1.

गौर ध्यान n 1, विचार m 2, विमर्श  
 m 1, समीक्षा f 1, आलोचना  
 f 2. (—करना=विचर 10 p.  
 समीच् 1 a. सं-वि-चिन्त् 10 p.)  
 गौरव गौरव n 2, सहत्व n 1, उरुता  
 प्रतिष्ठा f 2; आदर m 2.  
 गौरी गौरी f 6, पार्वती, भवानी f 5,  
 गिरिजा, शिवा f 2.  
 गौहर मौक्तिक n 1, मुक्ता f 2.  
 गङ्गा गङ्गा f 2; भागीरथी, जान्हवी  
 f 5.  
 गङ्गा राशि m 4, सप्तात m 1, संचय  
 m 1, (—लगाना=राशोकृ 8 p.  
 एकत्र संचि 5 p.)  
 गङ्गाका गोल पत्र क्रीडा f 2.  
 गण्डा चतुष्टय, कर्पादिका चतुष्टय n 1.  
 गङ्गासा टर, परश्वध m 1.  
 गङ्गरी इन्दु ग्रन्थि m 1.  
 गदा मलिन, अशुद्ध, कुपयवृत a 1,  
 अपवित्र a 2, अशुचि a 4.  
 गंधुम गोधूम m 1, गोधूमात्र n 1.  
 गंध गन्ध m 1, वासना f 2.  
 गन्धी गान्धिक a 1, गन्धद्वय विभ्रयिन्  
 a 11.  
 गंधाना नश् ०. निरर्थक व्युत् 1 p.  
 गंधार मूल भागीण a 1, अज्ञानिन्  
 a 11.  
 (गा) व्याभन गार्भणी, अन्तर्वल f 5.

ग्यारह एकादशल् Lum. 10.  
 ग्रन्थ ग्रन्थ m 1, पुस्तक n 1. (—साहित्य  
 =गुरु धर्म पुस्तक n 1.)  
 ग्रन्थि ग्रन्थि f 4, सन्धि m 4, संस्रपण  
 n 1.  
 ग्रह ग्रह m 2, तारा f 1, तारक n 2.  
 ग्रहण ग्रहण m 1. (2) ग्रहण, आदान  
 n 1. (3) वर्षाकरण n 1.  
 (—करना=ग्रह 9 p. आदा 3 p.  
 (—लगाना=चन्द्रः or सूर्यः ग्रह  
 pass.)  
 ग्राम ग्राम m 2, वसति f 4.  
 ग्राहक ग्राहक a 2, कर्तृ a 7.  
 ग्रीवा ग्रीवा f 1, गण्ड, गल m 1.  
 ग्रीष्म ग्रीष्म m 2, धर्म समय m 1,  
 ग्रीष्मर्तु m 8; धर्म m 2.  
 ग्लानि ग्लानि f 4, घृणा f 2. (—करना  
 =ग्लै, ग्लै 1 p.)  
 ग्वाल गोप, गोपाल m 1, (श्री) गोपी  
 f 5.  
 घघरा शाटक, कट्या वरग—n 1,  
 अर्द्धिक n 2.  
 घट घट, कुम्भ, कलरा m 1.  
 घट देह, काय m 1, शरीर n 2 (2)  
 अन्तःकरण n 1, मनस् n 15.  
 (—घट व्यापी=सर्वान्तर्योगिन् m  
 31, स्थर m 2.  
 घटना घटना f 2. (v.t.) सि 1 p.



हा. pass.

घटवाल्या तीर्थं भिन्दु m 9, तीर्थ  
याचक a 1.

घटा घनपोक्ति, घनराजि f 4, मेघमाला  
f 2. (—टोप=रथ पावक n 1.)

घटिया अल्प मूल्य a 1, अल्पार्थ-ई  
a 2. (2) अधम, निकृष्ट a 1.

घटिका घटी f 5, घटिका f 2.

घटी हानि, क्षति f 4.

घड़ना रच् 10 p. निर्मा 3 p. घट् c.

घड़ा कुम्भ, कलश. घट m 1.

घड़ियाळ पण्या f 2, वृहतिकङ्कणी f 5.  
(2) मकर, अह m 2.

घड़ी घटी f 5, घटिका f 2, नाडिका  
f 2. (2) यामनाली f 5, समय

यन्त्र n 2. (—साज=पटीकारं  
m 2. (स्त्री) घटी कत्री f 6.)

(—घड़ी=वारशः ind असकृत  
ind.)

घड़ीचौ घट स्थिति f 4, घटवती f 5.

घण्टा घण्टा f 2, (—वजाना=घण्टा

घनश्याम घनश्याम, श्रीकृष्ण m

विन्दु m 3.

घना घन, निविड, गाढ़ a 1, सान्द्र a

(2) स्थूल (3) महत् a 8, बहु a

6. (4) पङ्किल, आविल a 1.

घवराना v. i. चुम् 4 p. व्याकुलान्

1 p. (E.) लोभ m 2, व्याकुलता

f 2.

घवराहट लोभ m 2, व्याकुलता f 2

घमंड अभिमान n 1, अवलप उत्सक

m 1, गर्व, अहंकार दुष. m 2.

(—करना=गर्व 1. p. अभिमान

4 a. अहंकृ 8 p.) (—से=

सगर्वम् साटोपम्, adv.)

घमंडी दृप्त, अवलिप्त, उत्सक्त a 1,

अभिमानिन् a 1.

घमसान संघात, समूह m 1. (2)

निविडता, सान्द्रता f 2. (3) घी

संभाम m 2.

घर गृह n 2, आलय, आवास m 1

वैशमन् n 15. (—वाला=पति

घरास (ट) पेपण, वृष पेपण n 1,  
पेपण यत्र, पेपण चक्र n 2.  
घरेलु स्वयं पालित, गृहजात, गृह्य a 1.  
घसिआरा घास धेदक, घास कर्तक a 1,  
घासहर a 2, घास विक्रेतृ a 7.  
घसीटिना अपकृप्, अवकृप्, निष्कृप्  
l p.  
घसीटाजाना अपकृप् pass. विलम्ब  
l a.  
घाई soe घसिआरा, (2) अनुत्यन्तराल  
n 1.  
घाघरा see घरा -2) सर्यू f 10,  
सर्यू नदी f 5.  
घाट तीर्थ, अवतरण, उत्तरखण्डान n 1,  
नौकाशय m 1, नौकाशय m 2.  
(2) हानि, क्षति f 4.  
घाट्टा हानि, क्षति f 4, अपचय,  
अलाभ, अपाय, m 1. (2)  
पर्वतमार्ग m 2.  
घाट्टिया तीर्थ भिक्षु m 9, नसनरक्षक  
a 2.  
घाट्टी अद्रि श्रेणी f 5.  
घात हिंसा f 2, घात m 1, मारण,  
हनन n 1. (2) अभिश्राय m 2,  
चिकीर्षित a [ अनुसंधान n 1.  
(—करंगा=इन् 2 p.) (—लगाना  
=चिकीर्षितं वृष् 1 p. अनु-सं-धा  
3 p.)

घाती घातक, हिंसक a 1. अगुसं  
धायिन्, मायिन्, उपजायिन् a  
11, कपट पट्ट a 6.  
घाम वर्ष m 2, आतप m 1.  
घायल्ल क्षत, प्रथित, क्षतविक्षत a 1,  
भिद्यमर्षन् a 11. (2) घातित a  
1. (—करना=मर्षायि ट ( दार. )  
10 p. प्रथिन a कृ 8 p.)  
(—होना=क्षतविक्षत a धृ 1 p.  
or कृ pass.)  
घाय व्रण, क्षत n 1, आघात m 1.  
घास शय्य n 1, तृण n 1, पाप्य,  
शाद m 1, दूर्वा f 1.  
घिन वृथा f 2, स्थानि f 4. (—करना  
=ले, भ्ले 1 p.)  
घिचपिच संघट, समूह m 1, शनता,  
साध्रता f 2.  
घिया कूम्भाखड, कूम्भाखडक m 1,  
ककाग m 9.  
घिरना परिवृ pass. (2) शिथिल a  
धृ 1 p.  
घिरनी आकर्षणी, उत्कर्षणी f 5.  
घिसना मृद् 9 p. वृष्, वृष् 10 p.  
संपिप् c.  
घिसना मृद्, वृष् pass.  
घिस्सा पर्वण, मर्दन, आधरण n 1,  
मागर्ष m 2.  
घी, घृत, आज्य n 1.

घुटना जातु n, ऊरुपर्यन्त n 13,  
 (घुटनों के बल ठहरना=जातुग्यां  
 रथा ( तिप्ठ् ) 1 p. चित्तौ जानुनी  
 निभा 3 p.

घुण्डी गण्ड, कृद्वप m 1, वीटिका f 2  
 (दिल की—=आशय m 1,  
 मनोऽभिप्राय m 2. (2) कपट,  
 छल n 1. (—गोलना=गण्डं  
 विद्यन् or विश्रुत् c. (2) स्वामि  
 प्रायं प्रकाश c.

घुड़चडा अश्वारोह a 1.

घुड़दौड़ अश्व धावन n 1, अश्वोत्सव  
 m 1.

घुड़साज अश्वशाला f 2.

घुन घुण m 1.

घुमाना भ्रम c. विभ्रम् c.

घुरकना c. भर्त्सन, विक्रोशन n 1.

(v. t.) भर्त्स् 10 p.

घुरकी भर्त्सना f 2, वाग्दण्ड, आक्रोश  
 m 1. (—देना=भर्त्स् 10 p.)

घुराना कोपेन दृग् ( पश्य् ) 1 p.  
 भ्रुकटी कृत्वा निर्भर्त्स 10 p.

घुरांटे लेना निद्रायां, घुसुराय् 1 a.

घुलना विली 9 p. विद्, चर्, गल्,  
 दवी भू 1 p.

घुसना प्रविष्, निविष् 6 p.

घुसघुस विस्मचना f 2, शनैरालाप  
 m 1, जनान्तिकालाप m 1.

(—करना=जनान्तिकं or निमृत्  
 आलापं कृ 8 p. संघन् 10 p.

घूघरूं गोल किङ्कणी, वर्तुल किङ्कणी f 2.  
 घूँट अथगुण्डन, संवरण n 1, अथगुण्ड

म् 1. (—काटना=मृत्वनगुण्ड  
 10 p.

घूँट निगरण, मसन n 1. (—भरना=  
 निगृ 6 p. प्रस् 1 p.)

घूँटी बालोपथ n 1.

घूरना भ्रुकुट्या अक्लोक् 10 p. भ्रुकुटि  
 विधाय-निर्भर्त्स 10 p. कृप् 4 p.

घूस उत्कोच m 1, उपायन n 1  
 (—लेना=उत्कोचं ग्रह् 9 p.)

घृणा घृणा, दया f 2. (2) म्लानि 14.  
 घृत घृत, आशय n 1.

घेंटा बाल शकर m 2.

घेरना परिवृ 5 p. or c. परिवृप्  
 6p. परिवृप् 1 a or c.

घेरा परिवर भू f 11, प्रादण, मण्डल  
 n 1. (2) बलय m 1, भेसला

f 2. (3) परिवृण n. 1.)  
 (—डालना=see घेरना.)

घौंसला नडि, पडिवास m 1, वितंस  
 m 1.

घोफना मुहुर्षुह-वद्, गद्, स्मृ, पद्  
 1 p. सततं-उदीर् c. व्याह 1 p.

घोटना संपिप् c. मृद् 9 p. संघूर्ण  
 10 p.

घोष मर्दन n 1, आर्ष m 2, (2)  
मर्द नोपल n 1, आर्ष काच  
m 1.

घोड़ा अश्व m 1, तुरग, तुरङ्ग m 2.

घोड़ी वज्रा f 2, अश्विनी f 5.

घोर भयानक, भयावह a 1, घोर a 2.

घोस्तना चर्, गल, हु c.

घ्राणा भ्रम n 1, प्राग्निद्रिय n 2.

चक्र शय लेख, चित्र n 2.

चक्रई चक्र, पेषणयन्त्र, पेषणचक्र n 2,  
पेषणी f 5.

चक्रान्चूर खिन्नभिन्न, जर्जरत, स्फुटित  
चूणित a 1, (—वरना=संचूर्ण  
10 p.) (—होना=छिद्, संचूर्ण  
pass.

चक्रर चक्र n 2, (2) मण्डल n 1,

(3) भ्रमण, परिसरण n 1, ( देना  
=अप c.) (-स्ताना=अप ( अप )

n p. परिमृ ( सर ) p 1.

(—भेषदना=चिन्त् 10 p. विमृश  
6 p.

चक्रगाना विमृद्, चुग् 4 p. (2)

भ्राम्याप् 5 p. (3) वैकृत्यं गम्  
1 p.

चक्रला साम्प्रचक्र, मनचक्र n 1, (2)

वेश्यावर्षी f 5, वेश्यालय, गणिका  
वास m 1.

चक्रवा कचवाक m 1.

चक्राँध चक्रुस्तेजः प्रतिघात m 1,  
नेत्रमान्य n 1.

चकित विरिमत, आश्चर्यान्वित, चकित  
a 1 (—होना=विरिम 1 a.)

चकोर चकोर m 2.

चक्रा चक्र n 2, (2) श्यान दाधि n 5.

चक्राँ पेषणी f 5, (पन=जलपेषणी  
f 5. (हना=वातपेषणी f 5)

(ध्रुवां=वायु पेषणी ) (-पीसना  
=पिप्, लुद् 7 p. मृद् 9 p. चूर्ण

10 p. चूर्णाकृ, 8 p. पेषण्या दल्  
1 p.

चक्रू आरिधेतुका f 2, असिपुत्रिका,  
लुरिका f 1, कृपानक n 1.

चक्र चक्र n 2, (2) भ्रमण, परिसरण  
n 1. (3) मण्डल n 1.

चक्षु चक्षुम् n 17, नयन n 1, नेत्र  
n 2.

चक्षना स्वाद् 1 a, रुद् 2 p, मल्  
10 p. लिद् 2 p.

चक्षा पितृव्य m 1, जनक भ्रातृ  
10 m.

चक्षी पितृव्या f 2, पितृव्य पत्नी f 5.

चंचल चपल, साहासिक, त्वरित a 1,  
चतुर a 2, त्विप्रकारिव् a 11.

चटपट शीघ्रम्, त्वन्तिम्, भटिति, त्वैम  
adv.

चटपटी स्वाद् a 6.

चटनी अगल, युक्त n 1, सूप m 1,  
उपस्कर m 2.

चठशाला पाठशाला, शिशुशाला f 2.

चटाई कट m 1, कटास्तरण n 1.

चटाका परुष ध्वनि m 4, (2  
चपेटिका f 2, (--भारना=मु  
चपेटिकां दा (यङ्) 1 p.

चट्टान शिला खण्ड n 1, वृहदुपल  
1, शिला f 2.

चटाना स्वाद् 1 a, लिह् 2 p.

चटापटी शीघ्रता f 2, त्वा f 1,  
(2) महामारी f 6.

चट्ट उलू (टू) खल n 1.

चट्टना आरुद् (रोद्) 1 p.

चट्टाई उच्छ्राय m 2, उच्चता f 2 (2)  
आक्रमण n 1, अ स्कन्द m 1,  
(--करना=आक्रम् 1 a, अवरस्कन्द  
अभिन्दन् 1 p.)

चट्टाना आ-रुद् c. (आरोहयति, आरोप-  
यति) (2) उपायनकृ 8 p.  
उपायनत्वेन समर्प 10 p.

चट्टाव उच्चता f 2, उच्छ्राय m 2,  
(2) बाहुल्य n 1, बहुता f 2.

चट्टाया उपायन n 1, बलि m 4.

चण्ड भयानक, भयावह, (2) तीक्ष्ण  
(3) उष्ण (4) अतिक्रोपन, चण्ड  
a 1.

चण्डाल गीच, निकृष्ट a 1, पापिन्

a 11, चण्डाल m 1, रशी  
चण्डाली f 5.

चण्डिका दुर्गा f 1, चण्डिका f 2,  
देशी f 5.

चण्डी कर्कशा f 2, परुषः f 1,  
कौपना f 2, चण्डी f 5.

चण्डू अहिफेन धूमपान, अफेन धूमोत्प्रेषण  
n 1, (--रपाना=अहिफेन धूमं पा  
(पिच्) 1 p.)

चतुर दक्ष, चतुर a 2, निपुण, गिन्यात  
विशारद a 1.

चतुर्दशी चतुर्दशी f 5, चतुर्दशी तिथि  
f 4.

चतुर्गुज चतुर्भुज m 1, विष्णु m 8.

चतुर्मुख चतुर्मुख, चतुरानन m 1,  
स्वयम्भू m 32, ब्रह्मन् m 23.

चतुर्वर्ग चतुर्वर्ग m 2, धर्मार्थ काममोक्ष  
m 2, pl.

चतुराई चातुर्य n 2, दक्षता, निपुणता,  
शुद्धिमत्ता f 2.

चतुरानन see चतुर्मुख.

चतुष्पद पशु m 8, चतुष्पाद m 1.

चना चणक m 1.

चन्द्र चन्द्र m 2, शीतांशु, हिमांशु  
m 8, चन्द्रमस् m 27.

चन्द्र कतिचित् ind. कतिपय pro.  
2 (pl.) (--रोजा=अल्पकालिक  
a 1.)

चन्दन चन्दन m, n 1, मलयज n 1  
गन्धसार m 2, (लाल-रक्तचन्दन  
रञ्जन n 1, पत्रांग m 1, तिल-  
पर्णी f 5.)

चन्दा खांश, ग्रंश m 1, अल्प दान  
n 1. (-देना=ग्रंशं दा यच्छ्) 1  
p. (-लिखाना=स्वांशं हस्ताक्षरेण  
ग्रंक् 10 p.

चन्द्र see चन्द.

चन्द्रिका चन्द्रप्रभा, चन्द्रिका f 1,  
कौमुदी f 5.

चपकन प्रावरण n 1, अज्ञावार, प्रावार  
m 2.

चपेट चपेटिका f 2, चपेट, चपेटा घात  
m 1, तल प्रहार m 2, आस्फोटन  
n 1, (--भारना=आस्फुट् c.  
चपेटेन ग्रह 1 p.) (2) आकाशिक  
हानि f 4, निर्घात, दैव निर्घात  
m 1.

चपटा सम, समस्थ सपाट a 1, अवक  
a 2.

चपत see चपेट.

चपनी पिधान पुट, उदञ्जन, आवरण  
n 1, आच्छादनी f 5.

चपराना s. अणुहव, निहव m 1.  
(v. t.) अप-नि-द् 2 a.

चपराल चिन्ह, लक्षण, भूति चिन्ह  
n 1. (2) पदातिपद n 1.

चपराली पदाति m 4, अनुचर m 2.

चपल चपल, त्वरित, साहसिक a 1,  
चतुर a 2, क्षिप्रकारि a 11.

चपेट चपेट, चपेट, प्रहरत, प्रतल m 1,  
(-भारना=तलेन,—ग्रह 1 p.  
आस्फुट् c.

चप्पन see चपनी.

चप्पा चतुर्धाश m 1. (2) चतुरंगुल  
n 1. (3) नीचालनी f 5.

चघाना s. चर्वण, दंशन n 1. (v. t.)  
अल्पशः भक् 10 p. दंश्, चर्व्  
1 p.

चवचा पट, कुण्ड m 1.

चवीना लुण्ठ धान्य n 1, चर्वणाई  
a 2.

चवृतरा (1) रहिगणालय, रक्षा पुर्या  
वास m 1. (2) शुल्कालय m 1.  
(3) अलिन्द m 1, प्रवाण n 1.  
(4) वेदि f 4, वेदिका f 2, उच्च  
स्थान f 1.

चभोना व्यध् 1 p. तुद् 6 p. चण्  
8 p. छर् 6 p.

चमक दीप्ति, कान्ति f 4, प्रभा f 1,  
प्रकाश m 1, भास् f 24.

चमकना प्रकाश 1 a. विभा 2 p.

चमगादड़ जनुका, तैल पाचिका f 2.

चमचा चमस m, n 1, केकि f 4,  
केवी f 5.

- चमचमाहट see चमक, शोभा f 2,  
चमत्कार m 2.  
चमड़ा चर्मन् n 13, दति, कृति f 4,  
प्रजिन n 1, त्वच् f 15.  
चमत्कार प्रभा f 1, शोभा f 2  
चमत्कार m 2, अद्भुत, अलौकिक  
a 1. (-दिलाना=अद्भुतं द्यु c.)  
चमन पुण्य वाटिका f 2, पुण्य तल्प  
m 1.  
चमर चापर n 2.  
चमार चर्मकार, उपानलकार m 2.  
चभोटा चर्म खण्ड, दृतिशकल n 1.  
चभ्रपत प्रब्रन, गुप्त, तिरोहित, अन्तर्हित  
a 1. (-होना=तिरोभू, अगोचरी  
भू, 1 p. दष्टि-पथा-दति क्रम्  
1 p.)  
चभ्रवेत्नी मागधी, मानती f 5, मल्लिका  
f 2.  
चर चर a 2, चल a 1, चक्रनगील  
नश्वर a 2, नाशवत् a 16.  
चरक चरक संहिता f 2.  
चरकटा गजमासवाह a 1, ग्रासहर  
a 2. (2) अति चपल a 1, वाक्  
पट्ट a 6.  
चर्ख अक, लोह शोधन चक्र n 2. (2)  
मण्डल n 1, (3) आकाश n 1,  
चर्खा तन्तुकरण n 2, तान्तव चक्र  
n 2, (-कानना=तान्तव चर्म्य or  
तन्तु करणन-तन्तुजन् c. कृ तन्  
8 p.)  
चर्चना चन्दनं सिच् (सिन्च्) 1 p.  
गन्धसार मण् 10 p.  
चरण चरण, पद n 1, पाद m 1.  
चरना चर् 1 p. तृणं भुञ् 7 a, भद्  
10 p.  
चरन्द्र चर a 2, चर जीव m 1,  
चेतन a 1.  
चरपरा तिकत a 1, नीदण स्वभाव  
a 1.  
चरधी वसा, वपा f 2, मांससार m 2,  
स्नेह m 1, मेदम् n 15, (-दार  
=म्यूल, मांसल a 1, पावर a 2,  
मंदस्विन् a 11.  
चरघाहा चारक, गोचारक, पशु चारक  
a 2, गोप m 1, (स्त्री) गोपा  
f 5.  
चरसा चर्म जलोद् घाटन n 1  
चरसिया दुस्तमाल पायिन् a 11  
चरार्ध चारण क्षेत्र n 2, शादल क्षेत्र  
n 2, (2) चारण गुल्कं n 1.  
चराचर समस्त संसार m 2  
चराना चर्, तृणं-खाद्-भुञ् c.  
चरित्र चरित, वर्णन, वृत्त n 1, चरित्र  
n 2  
चर्चरी चर्चरी ध्वनि m 1, त्रिवता,  
चपला f 2.

चर्चा चार्त्ता लाप m 1, परस्पर भाषण  
n 1, चर्चा f 2. (2) धर्मा लाप  
संवाद m 1. (3) तर्क m 2,  
प्रस्ताव m 1. (-करना=परस्परं भाष  
1 a, संवद् 1 p. धर्मालापं कृ  
8 p.)

चर्म see चमस.

चर्वण see चवाना.

चलन चलन, गमन n 1. (2) व्यवहार  
m 2, रीति f 4. (3) आचार  
m 2. (वद-दुराचारिन् a 11.)  
(निक-सदा चारिन् a 11.)

चलना चल्, चर्, सृ ( सर् ) गम्,  
स्वल् 1 p.

चलित चलित, स्वलित, पतित a 1.  
(2) व्यवहृत, प्रचलित a 1.

चक्ष्म नेत्र n 2, नयन n 1, चक्षुस्  
n 17, (-वोशी=क्षमा f 1.)  
(-करना=क्षम् ( क्षाम् ) 4 p.)

चक्ष्मा उपनेत्र n 2, दृष्टि सहाय m 1.  
(dw.)

चमका आस्वाद, श्रवदेश m 1. (2)  
श्रमिगन्धि f 4. (3) आसक्ति  
f 4. (4) अभ्यास m 1, नित्य  
प्रवृत्ति f 4. (-पङ्ना or लगना=  
आसक्त a धृ 1 p. आश्रादेपद्

चह (चाह) इच्छा, उत्कण्ठा f 2,  
सुहा f 1, अभिगन्धि f 4, (-वचा

=कण्ठ m 1, जला धार m 2.)

चहकना s. मत्, कुजित n 1, विराव  
m 2. (v. i.) कुन् 1 p. विर  
2v.

चहचहे मारना उर्देम्, विहम्,  
सशब्दहम् 1 p.

चहु चतुर् num. 4. (-थोर=चतुर्दिह  
सर्वतः समन्ततः ind.)

चांद्र सोम m 1, चन्द्र m 2, शीतांशु  
m 8, चन्द्रमम् m 27, (-मारी  
=लक्ष्यवेध m 1, लक्ष्यवेध कीड़ा  
f 2.

चांद्रना प्रकारा m 1, प्रभा f 2, तेजम्  
n 15.

चांद्रनी चन्द्रप्रभा, चन्द्रिका f 1, कामुदी  
f 5. (2) अम्बरावरण, त्वर्तान  
n 1. (-लगाना=वितान कृ 8 p  
वितानेन आच्छद् 10 p.)

चांदि रजत, रोष्य, कलधौत, दुर्बण n  
1. (-का=राजत a 1.)

चाक श्वेत मृत्तिका f 2, धवल मृद्  
f 17. (2) कुलाल चक्र n 2.  
n 2. (-करना=ट 9 p. or c.  
विदल् c. निर्भिद् 7 p.)

चाकर सेवक, दास, मुस्य m 1, अन्-  
चर, परिचारक m 2, उपजीविन्  
a 11. (स्त्री) दागी f 5, परिचा-  
रिका f 1.



चाकरी मृति f 4, सेवा f 2, परिचर्या  
f 1, (—करना=सेन् 1 a.  
परिचर् 1 p.)

चाकी पेपणी f 5, चेषण वाषाण m 1  
चाकू कृपाणिका f 2, कुरिका f 1,  
सुरी f 6.

चाचा पितृव्य km 1, पितृ भ्रातृ  
m 10.

चाची पितृव्या f 2, पितृव्य पत्नी f 5  
चाट आस्वाद m 1, अभिरुचि  
आसक्ति f 4.

चाटना आस्वाद 1 a. लिह् 2 p.

चाणक्य विष्णु गुप्त, कौटिल्य, चाणक्य  
m 1.

चाण्डाल चाण्डाल m 1. (स्त्री)  
चाण्डाली f 5, नाच a 1, पापिन  
a 11.

चातुर्वर्ण्य चातुर्वर्ण्य n 1, ब्राह्मण-  
क्षत्रि-वैश्य-शूद्र m 2. (pl.)

चादर आवरणपट. (2) प्रच्छद पट  
m 1.

चान्द्रायण चान्द्रायण n 1, चान्द्रायण  
मत n 1.

चाप चाप m 1, शससन n 1, कार्मुक  
n 2, धनुस् n 11.

चापलोस्त्री चाट्टिकित f 4, उपलासन  
n 1, सान्त्वन n 1. (—करना=  
उपलब् 10 p. चाट्टिकित भिः—

प्रतृ c. वच् 10 p. चाट्टिकित-वच्,  
वृ 2 p.)

चावना अल्पशः भट् 10 p. दन्तैः पिप  
7 p. दंश, चर्च् 1 p.

चाची अकृष्ट, उद्घाटक n 1, कुञ्चिक  
f 2, ताली f 5, (—देना=समय  
यत्रं कुञ्चिकया संपीड् 10 p.)

चातुक कशा f 2, कपा f 1, प्रतोद,  
प्रतिकश m 1. (—मारना=शवाः  
or प्रतोदिन-प्रह 1 p. तुद् 10 p.  
आहन् 2 p.)

चाम चर्मन् n 13. दति, कृत्ति f 4,  
त्वच् f 15, अजिन n 1.

चामुंडा चामुण्डा f 2, चरुमुण्ड  
भातिनी f 5, दुर्गा f 1.

चार-चतुर num. 4. (—खाना=चतुः  
शाल a 1, चतुः शाल वसन n 1)  
—भामा=पल्पयन, पर्याण n 1.)  
(—तुखम=नीजचतुष्टय n 1.)

चारण चारण, वैतालिक a 1, वादिन  
a 11.

चारपाई खट्वा f 2, पर्यङ्क m 1.

चा-यारां मित्र मण्डली f 5.

चारा घास, यवस m 1, पशु साध n  
1. साध समार m 2.

चारा प्रतिकार m 2, उपाय m 1,  
साहाय्य n 1, सहायता f 2,

चाल गति, सरणि f 4, सरणी f 5.

(—चलन=आचार, व्यवहार m 2.

(—करना=बन्ध, प्रवृ, विघृ c.)

चाला बन्धना f 2, प्रतारण n 1.

(—बाज=बन्धक a 1, कपट पट्ट a 6.

चाज्जाक निपुण, देशकालाभिज्ञ, निष्णात सामयिक a 1, चतुर a 2.

चाज्जाकी निपुणता f 2. चातुर्य n 2, नैपुण्य n 1.

चालान शीघ्रता, अदीर्घसूत्रता f 2, तरा f 1. (2) राज लेख m 1, राज-लेख्य n 1, राजाज्ञापत्र n 2. (3)

बन्दि प्रेषण, अपराधि प्रस्थापन n 1, (—करना=(1) शीघ्र सम्पद् c.

त्वरू c. स्वरं प्रेय् 10 p.—प्रहि 5 p. प्रस्था c. आशु संविधा 3 p.

(2) अपराधिन्, बन्दिन् a, न्यायाभये प्रस्था c. न्यायार्थं प्रेय् 10 p

चालिया बन्धक, धूर्त a 1, प्रतारक a 2.

चालीस चत्वारिंशत् f 16. (—यां=चत्वारिंशत्तम a 1)

चाव उत्कण्ठा f 2, स्पृहा f 1. आंसुवय n 1.

चावल तण्डुल m 1, नीहि m 5.

चाशनी शक्ति जल n 1, सितावारि n 3. (2) विर्लान धानु m 8.

चाह उत्कण्ठा f 2, प्रीति, आसक्ति

f 4, (2) कृम m 1.

चाहना इय् (इच्छ) 1 p. स्पृह 10 p. आसञ्ज् 1 a. अभिलष 1 p.

चाही कूपभूमि f 4, कूपक्षेत्र n 2.

चाहे वा, अथवा ind.

चिगागी विस्फुलिग m 1, अभिकणिका f 2.

चिघाड़ चीत्कार, चण्डरव m 2, हरितनाद m 1, गज गर्जना f 2.

—ना=उच्चैःआक्रन्द 1 p. उत्कृष् 1 p. चीत्कृ 8 p. चीत्कार शब्द

आचर् 1 p.)

चिक तिरकरणी f 5, जवनिका f 2, प्रतिसीरां f 1. (2) संयम पत्र संतोष पत्र n 2.

चिकना स्निग्ध, श्लक्ष्ण चिकण, पिच्छल a 1, मेदुर a 2.

चिकनाई स्निग्धता, स्वच्छता f 2, श्लक्ष्णता f 2, स्नेह m 1.

चिकित्सा चिकित्सा f 2, वैद्यकर्मन n 13, उपचार, उपक्रम m 2,

(—करना=चिकित् 1 a. उपचर् 1 p.

चिक्किरत्तक वैद्य, चिकित्सक m 1, भिषज् m 18.

चिट कर्द, लव, पत्रांश m 1, पत्रतण्डुल नक्तक n 1, (—लगाना=पत्रांश

or कर्द—आसञ्ज् c.

चिह्न श्वेत, धवल, उज्ज्वल, स्वच्छ  
a 1.

चिह्न परिगणन पत्र, संख्यापत्र, धन  
संख्यापत्र, n 2, गणना लेख्य  
n 1.

चिह्नी पत्र, संदेश पत्र, n 2, लेख m  
1, (-रसां=पत्र प्रापक a 1, संदेश  
हर a 2, लेख नायक a 1.

चिह्नीचिह्नी कर्कश, दुःस्व भाव a 1,  
कठोर a 2, दुःप्रकृति a 4.

चिह्निया चटका f 2, चटक m 1.

चिह्नना उद्दिष्ट a भू 1 p. संतप्त a  
जन् (जा) 4 a. कुप् 4 p. उद्विज्  
l a.

चिह्नाना उद्दिष्ट, संतप्त c. अर्द्ध 1 p.

चित्त चित्त, अन्तःकरण हृदय n 1.  
मनस् n 15. (-चोर=मनोहर,  
चित्ताकर्षक a 2.) (-देना=साव-  
धान a भू 1 p.) (-लगाना=  
निविष्ट 6 p. मन-एकामं कृ 8 p)

चित्तकवरा चित्रित. निविधवर्ण, अनेक  
वर्ण a 1 चित्राङ्ग a 1, चित्र a 2

चित्तवन दृष्टिपात, दृष्टपात m 1,  
आलोचित n 1, कटाक्ष m 2,  
(2) विचार m 2, चिन्तन n 1.  
(-करना=दृष्टि यत् c. (3) विचर्  
c. चिन्त् 10 p.)

चिता चिता f 2, शववेदि f 4,

शववेदिका f 2.

चिताना उपादेश 6 p. अनुशास् 2 p.

(2) स्मृ, प्राक् सूच्, प्राक् प्रपुष् c.

(3) प्रत्यादेश 6 p. निर्दिष्ट c.

चितेरा चित्रकार a 2, रत्नार्जाव, आले-  
खक, विलेखक a 1.

चित्त चित्त, अन्तःकरण n 1, मनस्  
n 15.

चित्ती कलङ्क, किण, घटाङ्क m 1.

(-लगाना=किण्णेन अक्ष् 10.)

(-दार=कलङ्केन् a 11; किण्णत्

a 16. अक्षयुक्त a 1.)

चित्र चित्र n 2, प्रति कलक n 1,

मूर्ति f 4, (2) चित्रापित, आलि-

खित a 1. (-कार=आलेखक,

रंगार्जाव a 1, शिल्पिन् a 11,

-शिल्पकार, चित्रकार a 2. (-कारी

=आलेखन क्रिया f 1, चित्र विद्या

f 2, शिल्प n 1.)

चित्रकूट चित्रकूटाचल m 1.

चित्रगुप्त यम सचिव, चित्रगुप्त m 1;

कर्म लेखक a 1.

चित्ररेखा चित्र लेखा f 2, अर्वाशासली

f 5.

चित्रा चतुर्दशानक्षत्र n 2, चित्रा f 1;

(2) सिंह m 1, व्याघ्र m 2.

चित्रा चार n 2, पत्त्र खण्ड n 1,

कपट, नक्तक n 1.

चिनचिनाना विकुश 6 a, वाश 4 a.

चिन्तन चिन्तन, स्मरण, मनन, निदि-  
 ध्यासन n 1, विचार m 2,  
 (-करना=चिन्त् 10 p. स्मृ 1 p.  
 विमुश 6 p.)

चिन्ता चिन्ता, शोकाकुलता f 2,  
 औदासीन्य n 1, शोकावेश m 1.  
 (-करना=शोके-आविश 6 p.  
 शोकाकुल a मृ 1 p.)

चिन्ह चिन्ह, लक्षण n 1. (2) शंक,  
 संकेत m 1.

चिपकना संलग्, आ-सं-अनु-सञ्ज् 1  
 p. संशिल्प् 4 p. सञ्ज् pass.  
 संयुक्त a मृ 1 p.

चिपकाना संशिल्प् c. (चिपकाना=  
 संशिल्प्, संसक्ती कृ pass.)

चिचवला घालिश, वासेय, अश a 1,  
 मूर्त् a 2.

चिचुक चिचुक n 1, इतु n 6.

चिमटनो see चिपकना.

चिमटा कंक मुल, पाणित्राण n 1,  
 संदश m 1.

चिमटाना see चिपकाना.

चिमटी कंक मुली f 5, लयु संदश  
 m 1. (-लोना=संकुच् 1 p.)

चिर चिर n 2, विलम्ब m 1, अति  
 काल m 1, दीर्घ काल m 1.

चिर चीन मलिन, दूषित a 1.

चिर जीव चिर जीविन्, दीर्घ जीविन्  
 a 4, आयुष्मत् a 9.

चिरना ट, भिद्, विश् pass.

चिराग दीप m 1, दीपक n 1.  
 (-पत्ती=दीप वर्ति f 4:)  
 (-जलाना=दीपं प्रज्वल् c.)

चिराना ट ( दार् ) 10 p. भिद् c.

चिरायता चिरातक, धूमिन्व, रामसेनक  
 n 1, कैरात m 1.

चिलफना प्रकाश, वि-दुत् ( द्योत् )  
 1 a.

चिलम तमाल मात्रा f 1, (2) तमालानल  
 पात्र n 2.

चिलमची प्रलालनी f 5, निर्णोकापर  
 m 2, धायन पात्र n 2,

चिदजाना उच्चैर्द 1 p. महारव कृ,  
 आर्त्तानंद कृ, चीत्कार कृ 8 p.  
 विकुश, आकुश 1 p.

चीटी विपीलिका f 2.

चीखना चीत्क, आर्त्तानंद कृ, महारवकृ  
 गर्ज् 8 p. (2) कृप् 4 p.

चीज वस्तु, n 6, द्रव्य n 2, अर्थ,  
 पदार्थ m 1. (-वस्त=वस्तु जत  
 n 1.)

चीता मृगेन्द्र, व्शाघ्र m 2, सिद् m 1

चीघडा जीर्ण वसन, वस्त्र लण्ड, वर्धट  
 n 1, चीर n 2.

चीन चीन देश.

चिह्न श्वेत, धवल, उज्वल, स्वच्छ  
a 1.

चिह्न परिगणन पत्र, संख्या पत्र, धन  
संख्या पत्र, n 2, गणना लेख्य  
n 1.

चिह्नी पत्र, संदेश पत्र, n 2, लेख m  
1, (-रसां=पत्र प्रापक a 1, संदेश  
हर a 2, लेख नायक a 1.

चिह्नी कर्करा, दुःस्व भाव a 1,  
कठोर a 2, दुष्प्रकृति a 4.

चिह्निया चटका f 2, चटक m 1.

चिह्ना उद्दिग्म a भू 1 p. संतप्त a  
जन् (जा) 4 a. कुप् 4 p. उद्विज्  
1 a.

चिह्नाना उद्विज्, संतप् c. अर्द्ध 1 p.

चित्त चित्त, अन्तःकरण हृदय n 1.  
मनस् n 15. (-चोर=मनोहर,  
चित्ताकर्षक a 2.) (-देना=साव-  
धान a भू 1 p.) (-लगाना=

निदिग् 6 p. मन-एकामं कृ 8 p)  
चित्तकवरा चित्रित. विविधवर्ण, अनेक  
वर्ण a 1 चित्राङ्ग a 1, चित्र a 2

चित्तवन दृष्टिपात, दृक्पात m 1,  
आलोकित n 1, कटाक्ष m 2,  
(2) विचार m 2, चिन्तन n 1.  
(-करना=दृष्टि यत् c. (3) विचर्  
c. चिन्त् 10 p.)

चिता चिता f 2, शववेदि f 4,

शववेदि f 2.

चिताना उपदिग् 6 p. अनुशाम् 2 p

(2) स्मृ, प्राक् सूच्, प्राक् प्रवुप् c.

(3) प्रत्यादिग् 6 p. निर्दिग् c.

चितेरा चित्रकार a 2, रत्नाजीव, आले-  
खक, विलेखक a 1.

चित्त चित्त, अन्तःकरण n 1, मनस्  
n 15.

चित्ती कलङ्क, किय, सतांक m 1.

(-लगाना = कियेन शंक् 10.)

(-दार=कलङ्केन् a 11, कियेवत्  
a 16. श्रकयुक्त a 1.)

चित्र चित्र n 2, प्रति फलक n 1,  
मूर्ति f 4, (2) चित्रार्पित, आलि-

खित a 1. (-कार=आलेखक,  
रंगाजीव a 1, शिल्पिन् a 11,

-शिल्पकार, चित्रकार a 2. (-कारी  
=आलेखन विन्या f 1, चित्र विधा

f 2, शिल्प n 1.)

चित्रकूट चित्रकूटाचल m 1.

चित्रगुप्त यम सचिव, चित्रगुप्त m 1,  
कर्म लेखक a 1.

चित्ररेखा चित्र लेखा f 2, उर्वशीसखी  
f 5.

चित्रा चतुर्दशनसत्र n 2, चित्रा f 1,  
(2) सिंह m 1, व्याघ्र m 2.

चिचड़ा चीर n 2, पस्त्र सख्क n 1,  
कर्पट, नवतक n 1.

चिन्चिनाना विभुश्च 6 a, याग् 4 a.  
चिन्तन चिन्तन, स्मरण, मनन, निदि-  
भ्यासन n 1, विचार m 2,  
(—करना=चिन् 10 p. स्मृ 1 p.  
विभुश्च 6 p.)

चिन्ता चिन्ता, शोकाकुलता f 2,  
श्रीदासीन्य n 1, शोकावेश m 1.  
(—करना=शोके-याविश्च 6 p.  
शोकाकुल a भृ 1 p.)

चिन्ह चिन्ह, लक्षण n 1. (२) शंक,  
संकेत m 1.

चिपकना संलग्, आ-सं-प्रनु-सञ्ज् 1  
p. संशिल्प 4 p. सञ्ज् pass.  
संपुक्त a भृ 1 p.

चिपकाना संशिल्प c. (चिपकाना=  
संशिल्प, संसक्ती कृ pass.)

चिपकला बालिश, बालेय, अज्ञ a 1,  
मूर्ख a 2.

चिपक चिपक n 1, हव n 6.

चिपकना see चिपकना.

चिपकना कंक मुख, पाणिशाय n 1,  
संदश m 1.

चिपकाना see चिपकाना.

चिपकटी कंक मुखी f 5, लघु संदश  
m 1. (—लेना=संकुच् 1 p.)

चिर चिर n 2, विलम्ब m 1, यति  
काल m 1, दीर्घ काल m 1.

चिर कीन मलिन, दूषित a 1.

चिर जीव चिर जीविन्, दीर्घ जीविन्  
a 4, आयुष्मत् a 9.

चिरना ट, भिद्, विश्च pass.

चिराग दीप m 1, दीपक n 1.  
(—वृत्ती=दीप वर्ति f 4:)

(—जलाना=दीपं प्रञ्चल् c.)

चिराना ट ( दार् ) 10 p. भिद् c.

चिरायता चिरातक, भूमिन्व, रामसेनक  
n 1, कैरात m 1.

चिलकना प्रकाश, वि-युत् ( योत् )  
1 a.

चिलम तमाल मात्रा f 1, (२) तमालानल  
पात्र n 2.

चिलमची प्रलालनी f 5, निर्णोकाधर  
m 2, धावन पात्र n 2,

चिल्लाना उच्चैर्नद् 1 p. महारख कृ,  
आर्तनाद कृ, चीत्कारं कृ 8 p.

विकुश, आकुश 1 p.

चीटी पिपीलिका f 2.

चीखना चीन्क, आर्तनाद कृ, महारखकृ  
गर्ज् 8 p. (२) कृष् 4 p.

चीञ् वस्तु, n 6, द्रव्य n 2, अर्थ,  
पदार्थ m 1. (—वस्तु=वस्तु जत  
n 1.)

चीता मृगेन्द्र, व्याघ्र m 2, सिंह m 1

चीघडा जीर्ण वसन, वस्त्र सण्ड, अर्ध  
n 1, चीर n 2.

चीन चीन देश.

चिह्न श्वेत, धवल, उज्वल, स्वच्छ  
a 1.

चिह्न परिगणन पत्र, संख्या पत्र, धन  
संख्या पत्र, n 2, गणना लेख्य  
n 1.

चिह्न पत्र, संदेश पत्र, n 2, लेख m  
1, (-रसां=पत्र प्रापक a 1, संदेश  
हर a 2, लेख नायक a 1.

चिह्नचिह्न कर्कश, दुःस्व भाव a 1,  
कठोर a 2, दुःप्रकृति a 4.

चिह्निया चटका f 2, चटक m 1.

चिह्ना उद्विग्न a भू 1 p. संतप्त a  
जन् (जा) 4 n. कुप् 4 p. उद्विज्  
1 a.

चिह्नाना उद्विज्, संतप् c. प्रर्द 1 p.

चित्त चित्त, अन्तःकरण हृदय n 1.  
मनस् n 15. (-चोर=मनोहर,  
चित्तकर्कश n 2.) (-देना=साव-  
धान a भू 1 p.) (-लगाना=

निविश 6 p. मन-रुद्रां कृ 8 p)

चित्तकथरा चित्रित. विविधवर्ण, अनेक  
वर्ण a 1 चित्राङ्ग a 1, चित्र a 2

चित्तवन दृष्टिपात, दृष्टपात m 1,  
आलोचित n 1, कटाक्ष m 2,

(2) विचार m 2, चिन्तन n 1.  
(-करना=दृष्टि यत् c. (3) विचर्

c. चिन्त् 10 p.)

चिता चिता f 2, शववेदि f 4,

शववेदि f 2.

चिताना उपदिश 6 p. अनुशास् 2 p

(2) स्मृ, प्राक् सूच्, प्राक् प्रवृत् c.

(3) प्रत्यादिश 6 p. निर्दिश 0.

चितेरा चित्रकार a 2, रङ्गाजीव, आले-  
खक, विलेखक a 1.

चित्त चित्त, अन्तःकरण n 1, मनस्  
n 15.

चित्ती कलङ्क, किय, क्षतांक m 1.  
(-लगाना=कियेन अक् 10.)

(-दार=कलङ्केन् a 11, किययत्  
a 16. अक्युक्त a 1.)

चित्र चित्र n 2, प्रति कलक n 1,  
मूर्ति f 4, (2) चित्रार्पित, आलि-

खित a 1. (-कार=आलेखक,  
रङ्गाजीव a 1, शिल्पिन् a 11,

शिल्पकार, चित्रकार a 2. (-कारी  
=आलेखन क्रिया f 1, चित्र विद्या

f 2, शिल्प n 1.)

चित्रकूट चित्रकूटाचल m 1-

चित्रगुप्त यम सचिव, चित्रगुप्त m 1,  
कर्म लेखक a 1.

चित्ररेखा चित्र लेखा f 2, उर्वशीसखी  
f 5.

चित्रा चतुर्दशनस्य n 2, चित्रा f 1,  
(2) सिंह m 1, व्याघ्र m 2.

चिथड़ा चौर n 2, यत्न खरड n 1,  
कपट, नवतक n 1.

चुप अनालाप, मूक मान m 1, निःशब्दता f 2, मौन n 1. (—चाप=तूष्णीम्. जीषम्, निःशब्दम्, निभृतम् adv.)

चुपडना श्लक्ष्णी कृ 8 p. स्निग्धी कृ 8 p. (2) वाद्यशोभांदा 3 p. or चापद् 10 p.

चुमना निविश, अन्तविश 6 p. निद्र or कंटकित a मू 1 p.

चुमाना व्यध् 4 p. उपहन् 2 p. निर्भिद् 7 p.

चुम्बक अयस्कान्त, लोहकान्त m 1, चुम्बक n 1, आकर्षक n 2.

चुम्बन चुम्बन, चुम्बित, अधर पान n 1 (—करना=चुम्ब 1 p. निम् 2 p.)

चुराना चुर 10 p. चपद्, चाद् 1 p.

चुदित्त चरित f 4, चुल्ली f 5, यमि कुण्ड n 1. (2) अञ्जलि m 4.

चुल्लू तोयाञ्जलि m 4, (—करना=मुखे शुष् c. वारिणा मुल प्रत्तल् 10 p.) (—भरवानी मे ह्वना=लम्बु 1 a.)

चुसकी जल मास m 1. (—भरना=आचम् 1 p.)

चुस्त सोत्साह, अनलस्य, निपुण a 1, उद्योगिन्, विप्रकारिन्, व्यवसायिन् n 11, चतुर a 2.

चुस्ती उद्योगिता, विप्रकारिता, उत्थान-

योग्यता f 2, उत्साह, उद्योग m 1.

चुहला प्रहसन, विनोद भाषण n 1, नमन् n 13. परिहास m 1.

(—करना=परिहस् 1 p. विनोद वाक्यं—भाप् 1 a. उदीर् 10 p.)

चुद्धिया मूर्षिका f 1.

चुंके यतः यद्मत्, यभ ind. तदतरूपं (पेष) ind.

चूक प्रमाद, व्यामोह मार्ग अंश m 1, अम, दोष, व्यतिक्रम m 2. (—ना=व्यामूह 4 p. मार्गात् अंश 1 p,

अम, व्यतिक्रम 4 p. अन्यथा-प्रमद् 9 p. मिथ्या-चुध् 1 p. मन् 4 a.

ज्ञा 9 p.) (भूल=भ्रान्ति, मिथ्या मति f 4, भ्रान्तता f 2.)

चूचा इरालोक, दुर्दृष्ट a 1.

चुंड़ा वाह वलय दन्त वलय m 1. (—कर्म=मुण्डन n 1, मुण्डन संस्कार m 2.

चूड़ी कच कङ्कण n 1, काच वलय m 1.

चूड़ा संमार्मक, बहु कर a 2, चाण्डाल m 1, (स्त्री) चाण्डाली f 5,

सलपू m 33.

चूत शुदा f 2, पापु m 8. पुरीदार n 2. (2) आम्र m 2, रसाल m

1, चूत n 1. चूतइ नितम्ब, जपन m 1, शोषि



फलक n 1.

चूतिया कापुर m 2, कातर, छद्र a  
2. (—यन=कातरता f 2.)

चून चूर्ण, पिष्टाद्य n 1.

चूना s. जम्बीर, कर्कर n 2, चूर्णोपल  
n 1. (v. i.) चल्पशः or विन्दु  
क्रमेण च्, संस्, हु 1 p.

चूनी ल n 1, रक्त माणि m 4. (2)  
वैदल n 1.

चूमना s. चुम्बन, चुम्बित n 1, बक्त्र  
संयोग m 1. (2) शिप्रांप्राण n 1  
(v. t.) चुम् 1 p. निम् 2 a.  
(तिर--=शिरसि उपाग्रा (जिम्)

चूर चूर्ण n 1. (2) चूर्णित, द्विज a 1  
(चूर--=द्विज भिन्न a 1.)

चूरन चूर्ण, पिष्ट n 1, सोद m 1.

चूल मूला धार m 2, विवर्तन कौल  
n 1, विवर्तना धार m 2.

चूलहा शुद्धि f 4, शुद्धी f 5, अग्नि  
कुण्ड n 1.

चूसना s. आचूषण n 1. (v. t.)

आचूप् 1 p. आचम्, पा (भिन्)

धे (धप्) 1 p. (2) उत्तूष् c.

चूहा मूषिक, ऊन्दुर m 2, खानिक,  
विलेशय a 1, आद्य m 8.

चूट लघु मय m 1.

चूटा कीट m 1 पिपीलक m 1.

चूटी विनीलिका f 2.

चेचक महुरिका f 1, शीतला f 2,  
वसन्त रोम m 2, विस्कोटक n 1.

चेत (ता) स्मरणशक्ति, स्मृति f 4,  
धारणा f 2.

चेतन शरीरिन्, प्राणिव् m 31, जन्  
m 8, चेतना वत् a 16. चेतन  
संचेतन a 1.

चेतना धारणा f 2, स्मृति f 4, (2)  
चेतना, संज्ञा f 2, ज्ञान n 1.

चेता स्मृति f 4, धारणा. f 2. (2)  
मनस् n 15, चित्त n 1.

चेला छात्र, शिष्य m 2, अन्तेवासिन्  
चेष्टा यत्न, प्रयत्न, उपाय, उद्योग m 1

चेष्टा f 2, (—करना=विधेय, यत्  
1 a.)

चेहरा मुख, वदन, आनन n 1.

चेत क्षेत्र m 2, चैत्र मास m 1.

चेतन्य चैतन्य, आत्मतत्त्व n 1, आत्मन्  
m 23. सावधान a 1, जाकरूक  
a 2.

चैत्र see चैत.

चैन सुत n 1, प्रमोद, आमोद, आनन्द  
m 1, विश्राम m 2. (—करना

=सुखं-अनुम् 1 p. सेव् 1 a.  
उपशुज् 7 a.) (—से गुजरना=

सुखेन कालं नी 1 p. सुत पूर्वकं  
कालः या 2 p.)

चौच चम्बू f 1n, पक्षि तुण्ड n 1,

खगारस्य n 1.

खोडा कवरी f 6, केराव-थ m 1.

खोप दन्तहेमन् n 1? (—लगाना=  
दन्तान् हेम्ना संयुञ् c.

खोखा पुष्कल a 1. (2) स्वच्छ a 1.

प्रवीण, कुशल a 1. (—पन=  
प्रवीणता, कुशलता f 2, स्वच्छता,  
पुष्कलता f 2.)

खोगा प्रावारक n 2, युहकञ्चुक n 1

खोत्रला परिहात, विनोद m 1, विनो-  
दोक्त f 4, विनोदभाषण n 1.

खोट आघात m 1, प्रहार m 2, (2)

क्षत n 1, हानि f 4. (—मरना  
=क्षण 8 p. धर्द् 1 p. प्रहारिण-  
हिम् 7 p. (—लगना=व्यापेत a  
भू 1 p. आहन् pass. प्रह  
pass.)

खोटी शिखा f 2. (2) शिखर n 2,  
शृङ्ग n 1.

खोटा चौर a 2, स्तेन, वञ्चक a 1,  
अपहारक a 2.

खोब पंरा यष्टि f 4, वितान दण्ड m 1  
वितान यष्टि f 4:

खोवा कण्डक, कीलक n 1. 2)  
चतुर्वेदिन् a 11.

खोर चौर, अपहारक a 2, स्तेन a 1.

खोरी चौथ n 2, स्तेन्य n 1, वञ्चकता  
f 2. (—करना=चुर् 10 p.

अपहृ ( हृ ) 1 p.)

खोली कञ्चुकी f 5.

खौक केन्द्रापण n 1, चत्वर n 2, रथ्या  
केन्द्र n 2, केन्द्रस्थल n 1. (2)  
सहस्रोत्थान n 1, सहसावबोध m  
1. (—पङ्कना=सहसा-उद्स्था (तिप्)  
1 p. अवयुध् 4 a.)

खौकना सहसा अवयुध् 1 a. सहसा उद्-  
स्था 1 p. संवस्त a भू 1 p.

खौतरा उच्चस्थान n 1, वेदि, वितदिं  
f 4, वेदिका f 2. (2) अलिन्द  
m 1, प्रभाष n 1.

खौतीस चतुर्विंशत् f 16. (—वां=  
चतुर्विंशत्तम a 1.)

खौत्रियाना दुसलोक-तां-गम् 1 p.  
दुष्ट्य a भू 1 p. दुर्निरीक्ष्यतांभन्  
1 a.

खौपर चतुष्टय f 5. अत्त ऋडा f 2,  
अक्षयुत n 1. (—खेलना=अर्चैः  
दिन् ( दीव् ) 4 p.

खौअन्नी चतुराणक n 1, आणक चतुष्टय  
n 1.

खौक प्राकरण, अहन n 1, अजिर (2)  
(—वाजार=चत्वर, रथ्या केन्द्र n  
2, केन्द्रापण, केन्द्रस्थल n 1.)

खौकडा ( डी ) चतुष्टय n 1. (2) मित्र  
मण्डली f 5. (चण्डाल—=पाप-  
सप्तिति f 4. (—मार क्त बैठना=

वद्धासन a स्था 1 p. पद्मासनस्थ  
a भू 1 p. (—भरना=उत्त्पु,  
वल्गु 1 v.)

चौफन्ना सावधान, अवहित, अप्रमत्त a  
1, दक्ष a 2, विमृश्य कारिन् a  
11.

चौकस जाकरूक, प्रजागर, उन्निद्र a 2,  
अवहित a 1. (2) पूर्ण मान n 1,  
चौका पाकशाला f 2, पवित्र भू भाग  
m 1.

चौको काष्ठासन (2) वेत्रासन n 1.  
(3) प्रहरिशाला f 2, रक्षिण्य वस  
m 1.

चौकीदार प्रहरिन् a 11, वैनोदिक  
a 1.

चौकोना चतुर्कोण a 1, चतुस्त्र a 2.

चौखट (टा) देहालि f 4, देहली f 5,  
द्वार पिण्डी, गृहाय प्रहणी f 5,  
चतुष्काष्ठ n 1, कपाटावरोध m 1,  
प्रवेश m 1, द्वार n 2.

चौखुंटा see चौकोना.

चौगुना चतुर्गुण a 1.

चौड़ा विशाल, विस्तृत, विस्तीर्ण, आयत  
विपुल a 1, पृथु a 6.

चौतारा चतुस्तान्तव a 1.

चौथ चतुर्थी f 5. (करवा—=सुभगा-  
चतुर्थी f 5.)

चौथा चतुर्थ a 1, तुर्य, तुरीय, a 2,

(2) चतुर्माह m 1, अस्थि सम्बन्ध  
दिन n 1.

चौथाई तुर्यांश, चतुर्थांश, तुरीय भाग  
m 1.

चौदश चतुर्दशी f 5.

चौदह चतुर्दशन् num. 10. (—वां  
=चतुर्दश a 1.)

चौधरी मुख्य, प्रधान a 1, अग्रणी  
m 7.

चौपट विनारा, विष्वंस, उच्छेद m 1,  
निधन, निपूदन n 1. (—करना=  
नरा, प्र-वि-ष्वंस् c. उच्छिद् 7 p.

चौपड़ चतुष्पटी f 5. अक्ष क्रीडा f 2,  
अक्ष यत n 1, (—सैलना=अक्षैः  
दिव् ( दीव् ) 4 p. क्रीड् 1 p.)

चौपाई चतुष्पदी f 5, श्लोक m 1.  
पद्य n 1.

चौपाड़ (ज) स्वागत शाला, विश्राम  
शाला, साधारण शाला f 2.

चौपाया चतुष्पाद् m 20, चतुष्पाद्  
m 1, पद्य m 8.

चौवीस चतुर्विंशति f 4. (—वां=  
चतुर्विंशतितम a 1.)

चौथे चतुर्वेदिन् a 11, माथुरप्रद्वय  
m 1.

चौमासा प्रवृष् m 19, चातुर्मास्य  
n 1.

चौमुखा चतुर्मुख a 1.

चौरस सम चतुरस्र a 2

चौरानवें चतुर्थवति f 4. (—वां=चतुर्थवतितम a 1.)

चौधसी चतुरशीति f 4. (—वां=चतुरशीतितम a 1.)

चौराह चतुष्पथ n 1, रथाकेन्द्र n 2.  
चौरी चामर n 2.

चौवन चतुः पञ्चाशत् f 16. (—वां=चतुः पञ्चाशत्तम a 1.)

चौवई वाला f 2, भङ्गावात m 1.

चौसठ चतुःषष्टि f 4. (—वां=चतुःषष्टितम a 1.)

चौसर see चौपड़.

चौहट्टा विशालापण n 1. (—वाजार=रथाकेन्द्र n 2, केन्द्रापण n 1.)

चौहत्तर चतुःसप्तति f 4 (—वां=चतुःसप्ततितम a 1.)

चौहान चतुर्वाहन a 1, चतुर्वाहन वंश m 1. (2) चतुर्वाहन वंशीय a 1.

चंगा नीरोग a 2, निरामय a 2, स्वस्थ थाविकल, थविष्णुत, कल्य a 1. (—करना=चिकित्स् 1 a. उपशाम् c. सुस्थ, नीरोग a कृ 8 p. (—भला=स्वस्थ a 1, नीरोग, निरामय a 2.)

चंगेर कुसुमभाजन n 1. 2) शस्त्रजं-स्थली f 5. मञ्जूषा f 1, पिटक पेटक n 1.

चंङ्ग थ्रिफेन धूमनालि f 4, थ्रिफेन धूमपान n 1. see चंङ्ग above.

चंडोल शिविका f 2.

चंदोआ लघु वितान, वितानक n 1.

चंवर चामर n 2.

च्युत च्युत, पतित, भ्रष्ट a 1, रखलित a 1.

छंड उद्वमन n 1. (—करना=उद्वम 1 p.

छई लय रोग, विषम च्वर m 2.

छफड़ा शकट, वहन, प्रवहण. यान n 1, शकटिका f 2.

छफना थद् 2 p. भत् 10 p.

छफाना तृक्षिनत् c. थद्, भत् c.

छका पट्क n 1. (—छटना=व्याकुली भू 1 p. मुद्, संवि-भम् 4 p.)

छज्जा वलाभि, वदभि f 4, गोपानसी f 5, पटले प्रान्त, वलीक m 1.

छटांक पण m 1, चतुष्टक मान n 1.

छट (ट्ट) पधी f 5, प्रसेविका f 2.

छटी (ट्टी) पधी पूजन n 1, पधी राभि f 4. (2) गोष्ठी f 5, प्रसेविका f 2

छड़ वेरादण्ड, वानीर दरड m 1, वंश दरड वंश यष्टि f 4.

छड़ना लुन्च् 1 p. तुपेन्थो धान्यं पृथक् कृ 8 p.

छड़ा एकाकिन् a 11. (2) अविवाहित, "अनूद, अपलीक a 1.

छड़ी पाथि दरड m 1, दस्त यष्टि f 4.

छत्त छदित् n 16, पट्टन n 1.  
 छत्ता मधुकोप m 2, करण्ड m 1.  
 (2) ग्राम m 2, गृह समूह m 1.  
 छत्तीस पट्ट विशत् f 16. (—वां= पट्ट त्रिंशत्तम a 1.)  
 छत्र छत्र, आतपत्र n 2. (2) राज्य, आधिपत्य n 1. (—धारी=राजन् m 23.) (—पति=चक्रवर्तिन् a 11, सम्राज् m 19. (—भंग =राज्योपद्रव m 2, उपप्लव m 1.  
 छत्री छत्र, आतपत्र n 2, लघुछत्र n 2.  
 (2) क्षत्रिय a 2, राजन्य a 1.  
 छदाम पणतुर्पाश, पणचतुर्पाश m 1.  
 छनक विन्दु पात m 1, विन्दु पातरव m 2. (2) नूपुररव m 2. शिञ्जन शिञ्जित n 1.  
 छन्द कविता, रचना f 2, पद्य, काव्य n 1, छन्दस् n 15.  
 छनछन शिञ्जित, कथित n 1 रव m 2, शिञ्जित n 1. (—वरना=शीम्ज् 2 p. कण् 1 p.)  
 छनना S. तितउ m 8, निर्गलिन n 1 वरन n 2. (v. i.) तितउना शुध्, निर्गल् pass.  
 छनवाना तितउना-शुध्, निर्गल् c.  
 छरकली गृहगोधा, गृहालिवा f 2, मुसली f 5.  
 छपना थक्, मुद, मुद्राक्षरैः थक्

pass.  
 छपाई मुद्रणकार्य n 2, मुद्रण-शुल्क-मूल्य n 1.  
 छप्पन पट्ट पञ्चाशत् f 16. (—वां= पट्ट पञ्चाशत्तम a 1.)  
 छपाय पट्ट पाद रचना f 2, पट्ट पर्दा  
 छप्पर पटल, तृण पटल n 1, तृण छदित् n 16. (—बन्द=तृणपटल कार a 2.) (—बांधना=तृण पटल रच् 10 p.—निर्मा 3p. (—बालना =तृणपटलेन आच्छद् 10 p.  
 छव (चि) शोभा, सुन्दरता f 2, छवि f 4, सौन्दर्य n 2.  
 छवीला सुन्दर, मनोहर a 2, सुशोभित a 1.  
 छवीस पट्ट विंशति f 4. (—वां= पट्टविंशतितम a 1.  
 छमछम वृष्टिरव m 2, वर्षण शिञ्जित n 1. (2) शिञ्जित. शिञ्जित n 1 (3) नूपुर-स्वन m 1.  
 छमा क्षमा f 1. (—करना=क्षम् (क्षाम्) 4 p.  
 छमाही मासपट्टक n 1. (2) पाणमा-सिक a 1.  
 छयासठ पट्टपट्टि f 4. (—वां=पट्ट पट्टितम a 1.)  
 छर्रा सीसक शुलिका, लोह शुलिका, नालासत्र युटिका f 2.

छल छल, कपट, केतव, वचन, प्रतरण  
n 2, लघ्न n 12.

छलना वञ्च् 10 p. प्रद, प्रलुभ्,  
मुह् c.

छलनी चालनी f 5, तितउ m 8.

छलांग उत्सवधन, वल्लिगत n 1, प्छति  
f 4, प्लव m 1 (—मारना=  
उत्सु 1 a. वल्गू 1 a.

छल्ला सुन्दर, प्रिय a 2, मनोह a 1.  
(2) अद्भुतीयक n 1.

छल्लिया वचक a 1, प्रतारक a 2,  
कितव a 1, मायिन्, कपटिन्  
a 11.

छां छाया f 2.

छांटना वृ 5 p. or 10 p. (2)  
विशिप् 7 p. पृषक् कृ 8 p.

छांटना उद्यम्, उद्भिर् 1 p.

छांदा खांदा, भाग, भक्ष्य भाग m 1.

छांव छाया f 2.

छांट पृषक् करण, निर्हरण, उद्धरण (2)  
वरण n 1. विशेषता f 2. (—करना  
=पृषक् कृ 8 p. निर्ह 1 p. विशिप्  
7 p. (2) वृ 5 p. or 10 p.

छाग छाग m 1, अजात्मज m 1.

छाह तकं n. 2.

छाज ह्य m 1.

छाइना ल्यन्, परिन् 1 p.

छाता धन, धातपत्र n 2.

छाती वतस्, उरस् n 15, वज्रः स्थल  
n 1. (—भङ्कना=उरःस्फुर् 1  
p. स्पन्द 1 a.) (—जलना=  
विलष्ट, दुःखित a. मृ 1 p. (—से  
लगाना=शिल्प, कुस् 4 p.)

छात्र छात्र, शिष्य m 2, अन्तेवासिन्,  
विद्यार्थिन् a 11, अध्येतृ a 1.

छात्रन आच्छादन, छादन, प्रावरण n 1.  
(—करना=आच्छद् 10 p.

छान वुस m 1, वृष m 2. कडंगरुतुप n 2.

छानवीन धवेक्षण, निरूपण, अनुसधान,  
विचारण, अन्येषण n 1, विदर्श  
m 2, जिज्ञासा f 2. (—करना=  
निरूप, आलोच् 10 p. अन्विप्  
4 p. सं-परि-अव-ईत् 1 a. विच्  
c. विमृश् 6 p.)

छानवे पण्यवति f 4. (—वां=पण्य-  
वतितम a 1.

छानाना तितउना or निर्गालनेन-शुभ् c.  
निर्गल् c.

छाप अंक m 1, चिन्ह n 1, मुद्रा  
f 1.

छापना अंक, मुद्रार्थः अंक 10 p.

छापा मुद्रा यन्त्र, मुद्रण यन्त्र n 2.  
(—खाना=मुद्रणालय, अन्धालय

छाया छाया, निरातपता f 2.

छार चार n 2, भत्यन् n 12.

छाल वल्क, वल्कल n 1, तत्त्वच्

f 14.

छात्रा पिठिका f 2, स्फोट, सुद्रमण गण्ड  
m 1, रक्तवर्ध f 5.

छावनी शिविर n 2, निवेश m 1.  
सेन्यानिवेश m 1.

छिछोरा वालिशा, वालेय a 1, वालगुदि  
a 4. (—पन=वालेयत्व, वालिशत्व  
n 1.

छिडकना सिच् (सिम्च्) 6 p.  
कणशः विकिर् 6 p.

छिडकाव ङित n 1, सेक, वारि सेक  
m 1. (—करना=see छिडकना.)

छिति सिति f 4, धरी, पृथिवी f 5.  
धरा f 1, भू f 11, भूमि f 4.

छिदना छिद्, भिद्, निर्भिद् pass.  
द्विन-भिन्न a भू 1 p.

छिद् बिद् n 2, छेद, भेद m 1. (2)  
दोष m 2. (—देखना=दोष दृश्  
(पश्य) 1 p. छिद्रे अन्विप्  
4 p.)

छिन क्षण n 1, निर्मपकाल अल्प-समय  
m 1.

छिनाज्ञ व्यभिचारिणी f 5, गाणिका  
f 2.

छिन्न द्विन भिन्न, विभिन्न a 1. (—होना  
=see छिदना.)

छिपना लुप् 1 p. लुप्त-युक्त a भू 1  
p. तिरो-भू 1 p. तिरोधा pass.

निर्ली 4 a. (सूर्य—=सूर्यस्तं, या  
2 p. or यम् 1 p.)

छिपाना s. गोपन n 1, गुप्ति f 4.  
(v. t.) गुप् 1 p. (गोपायति)  
प्रच्छद् 10 p. गुह् 1 u. अन्तर्था  
3 u. स्थम् 10 p. अपवृ c.

छिमा क्षमा f 1. (—करना=क्षम्  
(क्षाम्) 4 p.

छियानधे पण्णवति f 4. (—वां=  
पण्णवतितम a 1.)

छियालीस पट्त्वारिशात् f 16. (—वां=  
पट्त्वारिशात्तम a 1.)

छियासठ पट् पष्टि f 4. (—वां=पट्  
पष्टितम a 1.)

छियासी षडशीति f 4. (—वां=षड-  
शीतितम a 1.)

छिलका पल्क, वल्कल n 1, तुप् m  
19. वुस m 1, आवेष्टन n 1,  
त्वच् f 14.

छिहत्तर पट् सप्तति f 4. (—वां=पट्-  
सप्ततितम a 1.)

छी धिक् ind. with acc. (—करना  
धिक्कु, घृणांकृ 8 p.)

छीक हंजि f 4, छिका f 2, क्षवयु m  
8. (—ना=छिक् 1 a.)

छीका रञ्जु जाल, शुल्न n 1.

छी ट विन्दु m 8, कण m 1, पृषत् u  
11. (2) अङ्कितवसन n 1.

छीटा सेक, प्रसेक m 1, सेचन n 1.  
(—देना=सिच् 6 p.)

छीनना ह ( ह् ) 1 p. आरिप्य ग्रह  
9 p. आबिद् 7 p. आकल् 10  
p. ऋटिति कृप् 1 p.,

छीर छीर n 2, दुग्ध n 1, पयस्  
n 15.

छीलना तल् 1 p. निस्त्वची कृ 8 p.  
लंच-निर्ह or अपनी 1 p.

छुंछुंदर छुंछुंदरी f 6. गन्ध सुली f 5  
दीर्घनुएधी f 5, दिवाधिका f 2.

छुटकारा मोच, उद्धार m 2, शुक्ति f  
4. (2) स्वतन्त्रता f 2, स्वातन्त्र्य  
n 2.

छुटना मुच्, मोच्, सृन् pass. मुक्त  
a स्वतन्त्र भू 1 p.

छुटपन वाल्य, शैशव n 1, बाल भाव  
m 1. (2) अधमता, विकृष्टता  
f 2.

छुटभैया साधारण जन, दरिद्र जन m  
1, अधन a 1.

छुट्टी अनन्याय, अनव्याय दिवस m 1.  
(2) अनुज्ञा f 2, अनुमति f 4.  
(3) अवकाश, सवकाश दिवस  
m 1.

छुडाना मुच्, मोच् c.

छुरा लय कृपाण n 1, कृपाण n 1,  
असि, पुत्रक m 2.

छुरी कर्तिका, छुरिका, असि पुत्रिका  
f 1, कृपाणी f 5, छुरी f 6.

छुद्वारा शुक् सर्जर n 2, शुक् सर्जरी  
f 6

छुट मोचन, वर्जन, हान, अपासन n  
1. (—करना=मुच् 6 p.—अपास्  
4 p. अप-वि-हा 3 p.) (—ना  
=मुच्, अपास् pass. मुक्त a भू  
1 p.

छुत स्पर्श m 1.

छुना स्पृश 6 p. संलग् 1 p.

छुन्नन्न गारुड मन्त्र m 2, रसाकरण्ड  
m 1,

छुरु वेद m 1, बिद्र n 2, रन्ध,  
सुस्तर विवर n 2.

छुकना बहिष्कृ 8 p. पृषक् कृ 8 p.

छेडना अर्द्ध 1 p. मनस्तापं कृ c. पीडां  
दा 3 p. (s.) अर्द्धन n 1.

छेत्र क्षेत्र, n 2. तीर्थ n 1, पवित्र  
स्थान n 1. (2) फल n 1, भूमि  
f 4. (—फल=क्षेत्र फल n 1.)

छेद रन्ध, सुस्तर, बिद्र. विवर n 2,  
वेद m 1.

छेदना बिद् 7 p. व्यध् 4 p. बिद्रं कृ  
8 p.

छेगी अजा f 2, छागी f 5.

छेला भाग, बालाज m 1.

छोकरा बाल, बालुक m 1, शिशु



## ४m 8.

- छोफरी वालिका, कन्यका f 2.  
 छोटा कनीयस् a 15. कनिष्ठ a 1.  
 (2) अर्त्वायस् a 15, अल्पिष्ठ a  
 1. (3) अधम a 1, सुद्र a 2.  
 (4) दरिद्र a 2, निर्धन a 2..  
 छोड़ना त्यज्, परिहृ ( हर् ) 1 p  
 मुच् ( मुञ्च् ) 6 p.  
 छोर साम् m 23, (2) वेला f 2,  
 तट m 1, (3) परिधि f 4  
 छोलशरी वितानिका f 2.  
 छौर लौर n 2, मुण्डन n 1.  
 छंगा पङ्कल n 1.  
 छः (हृ) प् num. 6. (—वां=षष्ठ  
 m. n. 1, पथी f 5.  
 जर्झ निर्बल, वृद्ध a 1.  
 जर्झी वार्द्धक n 1, जरा f 1.  
 जकड़ना स्तब्धी भू 1 p. (2) स्तब्धी  
 कृ 8 p. दृढतयाबन्ध् 9 p.  
 जखम व्रण, आधात m 1, व्रत n 1,  
 ईर्षं n 2. (कारी—=मारक व्रण  
 m 1.  
 जग उत्सव, महोत्सव, भोव्योत्सव, यज्ञ  
 m 1. (2) जगत् n 11, संसार  
 m 2. (—मग=प्रकाश m 1,  
 विद्युति f 4.)  
 जगत् जगत् n 11, संसार m 2,  
 लोफ m 1.

- जगदम्बा जगदम्बा f 2, जगज्जननी  
 . f 5. दुर्गा f 1.  
 जगदीश जगदीश, ईश m 1, ईश्वर  
 परमेश्वर m 2.  
 जगना वि-प्र-मुष् 4 a. निद्रांत्यन् 1  
 p. जागृ 2 p. विनिद्र a भू 1 p  
 (2) प्रज्वल् 1 p. प्रज्वल् c.  
 pass.  
 जगन्नाथ जगन्नाथ, जगदीश m 1 see  
 जगरीश.  
 जगन्मगा प्रकाशित, सुशोभित a 1.  
 अति सुन्दर a 2, द्युति मत् a 9.  
 (—हृट=द्युति f 8, शोभा, सुन्दर  
 f 2, प्रकाश m 1.)  
 जगह स्थान (2) आसन n 1.  
 (—जगह=सर्वत्र ind.)  
 जगाना प्रबुध्, जागृ, उत्था c. उत्ति  
 c निद्रां भेज् 7. p.  
 जङ्गम जङ्गम a 1, चर a 2, चल  
 शील a 1. (2) जट्व् योशि  
 a 11.  
 जङ्गल वन, कानन, अरण्य n 1.  
 जङ्घा जङ्घा, प्रसृता f 2, पा  
 m 1.  
 जञ्चना अनुमा, अर्ध-निरूप्, निश्चि  
 निर्णा, pass. विभू c. pass. s  
 अनुमान n 1.  
 जज्ञ न्याय परि f 4, न्यायाधीश m

अक्षदर्शक m 2, न्यायायत्त m  
2, धर्माधिकारिन् a 11.

जजमान यजमान m 1. (2) शिष्य  
m 2.

जज्जीरा द्वीप m. n. 1, अन्तरीप  
n 2,

जट्टज्ज जल्पन n 1, वितण्डा वाद,  
असंबद्ध प्रलाप m 1 (—मारना  
=जल्प, वितण्डांबद्, असंबद्ध-  
प्रलाप 1 p.)

जटा जटा f 2, वेणी f 5. (—धारी  
=योगिन्, त्यागिन्, जटाधरिन्  
a 11.

जटायु जटायु m 8.

जटित साचित, मणिसचित a 1.

जठर जठर, उदर n 2, आमाशय  
m 1. (—अग्नि=जठरानल m 1,  
पाचन शक्ति f 4.)

जड़ मूल, कारण, निदान n 1, मूल  
भित्ति f 4. (—काटना=नशू c.  
मूलं कृन्तु 6 p.)

जड़ मूल a 2, मूह a. 1, अज्ञानिन्  
a 11.

जड़ना संयुज्, संक्षिप् c. सच्, संसंज्  
1 p. (s.) संक्षेप m 2, संयोजन  
संधान n 1.

जड़ाऊ साचित, मणिसचित a 1.

जड़िया संधानक a 1. मणिसंयोजक

a 1.

जड़ी काष्ठोपध n 1. (—वृद्धी=यार-  
र्योपध n 1.)

जतन यत्न, उद्योग, उपाय, उद्यम m  
1. (—करना=यत्न 1 a.)

जती यति m 4, जितेन्द्रिय a 2.

जन जन, मानव m हु मनुष्य, नर  
m 2.

जुन स्त्री f 8, भार्या f 1. (2) संशय,  
सन्देह m 1, शका f 2. (राह—  
=मार्गलुपटक a 1, पान्यावहर्तृ  
a 7.)

जनक जनक, सीरध्वज m 1.

जनना उत्पद्, जन् c. प्रसू 2 p.

जननी जननी f 5, मातृ f 12.

जनचासा जन्या यास m 1.

जनान खाना अन्तः पुर n 2, रम्यावास  
m 1.

जनाना स्त्री वर्ग m 2, नारी वृन्द-समूह  
m 1. (2) स्त्री f 8, स्त्रैण n

1. (2) स्त्री सम्बन्धिन् a 11.

(v. t.) समूच् 10 p. छा, वुच्  
शकू-सूच् c

जनाज्ञा शय शिविका f 2.

जनाच महाशय a 1, श्रीमत् a 9.

(—आली=महा मान्य a 1; मान्य  
पर a 2.) (—पूज=स्वामिन्  
a 11.)

जनार्दन जनार्दन, नारायण m 1, विष्णु  
m 8.

जनी नित्य शक्ति, संशयमम a 1.

जन्व दक्षिण दिश् f 14, अवाची  
f 5.

जनून विषिप्तता f 2, वातुलत्व n 1,  
\* वातुल रोग m 2.

जन्नी विक्षिप्त, वातुल (2) शक्ति  
a 1.

जनेऊ यज्ञोपवीत, उपवीत n 1, ब्रह्म  
सूत्र n 2.

जनेत जन्या f 2.

जन्त्री पञ्चांग पत्र, तिथि पत्र n 2. (2)  
धातु तन्तु यन्त्र n 2, धातु तन्तु  
कर्षणी f 5.

जन्तु जन्तु m 8, प्राणिन् m 31,  
चेतन a 1.

जन्त्र यन्त्र n 2, साधन n 1.

जन्म जन्मन् n 12, उत्पत्ति f 4, प्रादु-  
र्भाव m 1. (—होना=उत्पद्  
4 a. प्रादुर्भू 1 p.

जन्मान्तर पुनर्जन्मन् n 13, अन्य जन्मन्  
n 12.

जन्मान्ध a 1, अन्धोद् भूत a 1.

जन्माष्टमी जन्माष्टमी f 5, श्री कृष्ण  
जन्म दिन n 1.

जप मन्त्रावर्तन, मालावर्तन n 1,  
पाठ, जप m 1.

जपना ईश्वरं भजू 1 p. मन्त्रमावर्त 10  
p. मन्त्रैः or मन्त्रेण चै 1 p.

जप्त शान्ति f 4, सन्तोष m 2, सहिष्णु-  
ता. (—करना=स्वाधिकारं कृ. 8 p.  
आह 1 p. आत्म सात् कृ. 8 p.)  
(2) प्रभाव m 2.

जय यदा ind. (—कभी=यास्मिन्  
काले ind.) (—तक=यावत्  
ind.)

ज्वर बल n 1, शक्ति f 4. (—दस्ता  
=बलात्कार m 2.) (—करना=  
पीड् 10 p. अर्द् 1 p. बलात्-  
वलेन, तरसा, प्रसभं प्रसद्य, बलात्कारेण  
ind.)

जम यम, यमराज m 1, मृत्यु m 8.  
(—जम=सदा, सर्वदा, नित्यम् ind.)  
जमघट संघट, समूह, संघात, जनौष  
m 1.

जमना उत्पद् 4 a. जन् (जा) 4 a.  
आविर्भू 1 p. (2) रुद् ( रोद् )  
1 p. s. यमुना f 2, कालिन्दी  
f 5.

जमहर्षि जृम्भा f 2, मुखव्यादान n  
1, (—लेना=जृम्भ् 1 a.)

जमा see मीजान, संख्य m 1. (2)  
राशि '२' f 4, (4) समूह  
1. (—करना=  
कृ. (3)

समष्टी-एकत्री कृ ४ p.) (—स्वर्च  
 आयव्यय m 1.) (=करना=आय  
 व्यय-संख्या २ p, -गण १० p.)  
 (—वन्दी=भूमिकर n २, राजस्व.  
 करनिर्धारण n 1.) (—करना=  
 भूमिकर-निरूप १० p निर्धृ १०  
 p.)

जमास्रत श्रेणि f 4, गण m 1.  
 (—वन्दी=श्रेणिव्यवस्था f 2.)

जमाई जामातु m १०, कन्या भर्तु m  
 ११, पुत्रो पति m ४.

जमाकरना एकत्री कृ ४ p. सांघे ५  
 p. आधी कृ ४ p. न्यम् ४ p

जमादार सैन्य नायक m 1. (२)  
 राशि नायक m 1.

जमानत आधि m ४, न्यास m १,  
 निक्षेप m २, प्रति भाव्य n १,  
 निःशङ्कता f २. (—देना=निक्षेपम्  
 अर्ध १० p. दा ३ p. निःशङ्कता  
 मापाद् १० p.) (—लेना=निक्षेप  
 or न्यासस्था c, प्राति भाव्यं कृ  
 ४ p.)

जमीन भू f ११, भूमि f ४, शस्यक्षेत्र  
 n २. (—दार=भूमि पति m ४,  
 भूसापत्ति मत् a ९, भूस्वामिन् a  
 ११.) (—दासो=भू-सर्पित f ४.)

जमीना न्यूनता पूरक a २, क्रोड पत्र  
 n २.

जमात्त अद्भुतता, अलौकिकता, लोको-  
 संतरता f २, आश्चर्य सौन्दर्य n २.  
 (२) शोभा f २, छवि f ४.

जमुना यमुना f २ कालिन्दी f ५.

जम्बु जम्बु m ४, जम्बू फल n १.

जम्बुक जम्बुक, शृगाल m १. (श्री)  
 शृगाली f ५.

जम्बूद्वीप जम्बूद्वीप m. n १. भारत  
 वर्ष m २, भारत देश m १.

जय जय, विजय m १. (—पाना=  
 विजि ( जय ) १ a )

ज़र धन n १, द्रव्य n २, सम्पत्ति f ४  
 (गर=सुवर्णकार m २) (—एतह  
 सील=भूमिकर n २, राजस्व n १)

ज़रव उपन n १. (—देना=गुण १०  
 p.) (२) आघात m १. (—सगना  
 आहन् pass. आघातः जन् (जा  
 ४ a )

ज़रह कवच, तनुप्राण n १.

ज़रा जरा f ५, वृद्धावस्था f २, वार्दक  
 n १.

ज़रा अल्प, स्तोक a १. (—सा=किञ्चिन्मान  
 a २.)

ज़रायत कृषि f ४. (—पेशा=कृषीवल  
 a १, कृषक a २.)

ज़रायुज जरायुज a १, जरायुजात a १.

ज़रासन्ध जससन्ध m १, कस श्वशुर  
 m २.

जनार्दन जनार्दन, नारायण m 1, विन्दु  
m 8.

जनी नित्य शक्ति, संशयमम a 1.

जन्य दक्षिण दिग् f 14, अयाची  
f 5.

जनून विरिधता f 2, वातुल्य n 1,  
वातुल रोग m 2.

जनूनी विरिध, वातुल (2) शक्ति  
a 1.

जनेऊ यज्ञोपवीत, उपवीत n 1, ब्रह्म  
सूत्र n 2.

जनेत जन्या f 2.

जन्त्री पञ्चांग पत्र, तिथि पत्र n 2. (2)  
धातु तन्तु यन्त्र n 2, धातु तन्तु  
कर्षणी f 5.

जन्तु जन्तु m 8, प्राणिन् m 31,  
चेतन a 1.

जन्त्र यन्त्र n 2, साधन n 1.

जन्म जन्मन् n 12, उत्पत्ति f 4, प्रादु-  
र्भाव m 1. (—होना=उत्पद्  
4 a. प्रादुर्भू 1 p.

जन्मान्तर पुनर्जन्मन् n 13, अन्य जन्मन्  
n 12.

जन्मान्ध a 1, अन्धोद् भूत a 1.

जन्माष्टमी जन्माष्टमी f 5, श्री कृष्ण  
जन्म दिन n 1.

जप मन्त्रावर्तन, मालावर्तन n 1, मन्त्र  
पाठ, जप m 1.

जपना ईश्वरं भञ् 1 p. मन्त्रमावर्त् 10  
p. मन्त्रैः or मन्त्रेण चै 1 p.

जप्त शान्ति f 4, सन्तोष m 2, सन्धि-  
ता. (—करना=स्वाधिकारं कृ 8 p.  
ग्राह 1 p. आत्म सात् कृ 8 p.)  
(2) प्रभाव m 2.

जय यदा ind. (—कभी=यारिम्  
काले ind.) (—तक=यवद्  
ind.)

ज्वर बह n 1, शक्ति f 4. (—दस्ती  
=बलात्कार m 2.) (—करना=  
पीड् 10 p. अर्द् 1 p. बलात्-  
वलेन, तरसा, प्रसभं प्रसह, बलात्कारेण  
ind.)

जम यम, यमराज m 1, मृत्यु m 8.  
(—जप=सदा, सर्वदा, नित्यम् ind.)  
जमघट संघट, समूह, संघात, जनौष  
m 1.

जमना उत्पद् 4 a. जन् (जा) 4 a.  
आधिर्भू 1 p. (2) रुह् ( रोह् )  
1 p. s. यमुना f 2, कार्लन्दी  
f 5.

जमर्हा जृम्भा f 2, मुसव्यादान n  
1, (—लेना=जृम्भ् 1 a.)

जमा see मीजान, संघय m 1. (2)  
राशि (3) समष्टि f 4, (4) समूह  
m 1, आय m 1. (—करना=  
संचि 5 p. (2) राशी कृ (3)

समष्टी-एकत्री कृ ४ p.) (—खर्च  
 आयव्यय m 1.) (=करना=आय  
 व्यय-संख्या २ p.,-गण १० p.)  
 (—वन्दी=भूमिकर n २, राजस्व.  
 करनिर्धारण n 1.) (—करना=  
 भूमिकर-निरूप १० p निर्धु १०  
 p.)

जमागत श्रेणि f 4, गण m 1.  
 (—वन्दी=श्रेणिव्यवस्था f २.)

जमाई जामातृ m 10, कन्या भर्तृ m  
 11, पुत्री पति m 4.

जमाकरना एकत्री कृ ४ p. सांचि ५  
 p. आधी कृ ४ p. न्यस् 4 p

जमादार सैन्य नायक m 1. (२)  
 राबि नायक m 1.

जमानत आधि m 4, न्यास m 1,  
 निक्षेप m २, प्राति भाव्य n 1,  
 निःशङ्कता f २. (—देना=निक्षेपम्  
 अर्ध १० p. दा ३ p. निःशङ्कता  
 मापाद् १० p.) (—लेना=निक्षेपं  
 or न्यासस्या c, प्राति भाव्यं कृ  
 ४ p.)

जमीन भू f 11, भूमि f 4, शस्यक्षेत्र  
 n २. (—दारी=भूमि पति m 4,  
 भूसम्पत्ति मत् a 9, भूमामिन् a  
 11.) (—दारी=भू-सम्पत्ति f 4.)

जमीना मृगता पूरक a २, क्रोड पत्र  
 n २.

जमाल अद्भुतता, अलौकिकता, लोको-  
 चरता f २, आश्चर्य सौन्दर्य n २.  
 (२) शोभा f २, छवि f 4.

जमुना यमुना f २ कालिन्दी f ५.

जम्बु जम्बु m ४, जम्बू फल n 1.

जम्बुक जम्बुक, शृगाल m 1. (स्त्री)  
 शृगाली f ५.

जम्बूद्वीप जम्बूद्वीप m. n 1. भारत  
 वर्ष m २, भारत देश m 1.

जय जय, विजय m 1. (—पाना=  
 विजि ( जय् ) 1 a )

ज़र धन n 1, द्रव्य n २, सम्पत्ति f 4  
 (गर=सुवर्णकार m २) (—एतह  
 सौल=भूमिकर n २, राजस्व n (1)

ज़रव गुणन n 1. (—देना=गुण् १०  
 p.) (२) आघात m 1. (—लगना  
 आहन pass. आघातः जन् (जा  
 4 a )

जरह कवच, तलुनाण n 1.

जरा जरा f ५, वृद्धावस्था f २, वार्द्धक  
 n 1.

ज़रा अल्प, स्तोक a 1. (—सा=किञ्चिन्मान  
 a २.)

ज़रायत कृषि f 4. (—पेशा=कृषीवल  
 a 1, कृषक a २.)

जरायुज जगपुज a 1, जरायुजात a 1.

जरासन्ध जरासन्ध m 1, कस श्वशुर  
 m २.

जरीव क्षेत्र मान n 1, मान शृङ्खल  
n 1.

जरूर अवश्यम् ind. (-त=आवश्यकता  
f 2.)

जरूरी आवश्यक a 1.

जर्जर जीर्ण, शीर्ण a 1, जर्जर a 2.

जर्द पीत, पीत वर्ण a 1, पाण्डु a 6,  
पाण्डुर a 2.

जर्दी पाण्डुता, पीतता f 2. (-मायल  
ईषत्याण्ड a 6.)

जर्दी परमाणु, अणु m 8, कर्ण m 1.

जर्दीहृ त्रय चिकित्सक a 1, चिकित्सक  
a 1.

जर्दीही त्रय चिकित्सा, चिकित्सा f 2.

जर्दी तीवर्थ तन्तु जाल n 1.

जल जल n 1, नीर n 2, पयस् n  
15, वारि n 3, अर्प् f 19.  
(pl.) (-मर्ह=वारि विरतृति f  
4, जलालव m 1. (2) चमत्कार  
m 2.

जल चर जल चर a 2, जल जीव  
m 1.

जलज कमल, पद्म, पद्मज, सरोज n 1.  
शङ्ख m 1. (3) मुक्ता f 2.

जलजला भूकम्प, भूचाल m 1.

जल्दी शीघ्रम्, त्वरितम्, सत्वरम्  
adv. (2) शीघ्रता f 2, त्वरा  
f 1.

जलधर जलधर m 2, मेष, पय  
वारिद m 1.

जल धारा जल धारा f 1, खण्ड  
15, प्रवाह m 2:

जलन कोप, सन्ताप, ताप m 1,  
दुःख n 1, अशान्ति f 4.

जलना कुप्, कुध् 4 p. दुःखित  
1 p. मनस्तापं जन् c.

जल निधि जल निधि, अन्वि, वृ  
m 4, सागर, समुद्र m 2.

जल पान आद्य भोज्य n 1,  
m 2. (2) अल्पाहार m  
(-करना=किञ्चिन्मात्रं मच् 10.

जलसा उत्सव m 1, पर्वन् n 1  
अधिवेशन n 1. (सालाना-  
वार्षिकोत्सव m 1.)

जला दग्ध, भञ्ज, पक्व a 1: (-  
=अप्रसन्न, क्रुद्ध a 1.)

जलाना दह् 1 p. (2) प्रज्वल् c.

जला घतन देश निष्कासन,  
n 1. (-करना=देशान्-नि-  
निष्कास् c. (2) विदेश वास  
10 p.) (-होना=देश-  
निष्कास् pass.)

जलाशय जलाशय, तडाग, ह्रद् m  
सरम् n 15,

जलील लुद्ध a 2, नीच a 1.  
क्राञ्जित, अयमानित a 1: (-

समष्टी-एकत्री कृ 8 p.) (—सर्व  
 आयव्यय m 1.) (=करना=आय  
 व्ययं-संख्या 2 p, -गण् 10 p.)  
 (—बन्दी=भूमिकर n 2, राजस्व.  
 करनिर्धारण n 1.) (—करना=  
 भूमिकर-निरूप 10 p. निर्धृ 10  
 p.)

जमाकृत श्रेणि f 4, गण m 1.  
 (—बन्दी=श्रेणिव्यवस्था f 2.)

जमाई जामातृ m 10, कन्या भर्तृ m  
 11, पुत्री पति m 4.

जमाकरना एकत्री कृ 8 p. संचि 5  
 p. आधी कृ 8 p. न्यस् 4 p.

जमादार सैन्य नायक m 1, (2)  
 सखि नायक m 1.

जमानत आधि m 4, न्यास m 1,  
 निक्षेप m 2, प्रति भाव्य n 1,  
 निःशङ्कता f 2. (—देना=निक्षेपम्  
 अर्धं 10 p. दा 3 p. निःशङ्कता  
 सायाद् 10 p.) (—सेना=निक्षेप  
 or न्यासस्था c, प्राति भाव्यं कृ  
 8 p.)

जमीन भू f 11, भूमि f 4, शस्यक्षेत्र  
 n 2. (—दार=भूमि पति m 1,  
 भूस्वामि मन् a 9, भूस्वामिन् a  
 11.) (—दारी=भू-स्वामिन् f 4.)

जमीना भूगता पृक्त a 2, कोङ पत्र  
 n 2.

जमाल अद्भुतता, अलौकिकता, लोको-  
 तेरता f 2, आश्चर्य सौन्दर्य n 2.

(2) शोभा f 2, छवि f 4.

जमुना यमुना f 2 कालिन्दी f 5.

जम्बु जम्बु m 8, जम्बू फल n 1.

जम्बुक जम्बुक, शृगाल m 1. (स्त्री)  
 शृगाली f 5.

जम्बूद्वीप जम्बूद्वीप m. n 1. भारत  
 वर्ष m 2, भारत देश m 1.

जय जय, विजय m 1. (—पाना=  
 विजि ( जय् ) 1 a )

जूर धन n 1, द्रव्य n 2, सम्पत्ति f 4  
 (गर=सुवर्णकार m 2.) (—एतह  
 सील=भूमिकर n 2, राजस्व n 1)

जूरध गुणन n 1. (—देना=गुण् 10  
 p.) (2) आघात m 1. (—लगना  
 आहन् pass. आघातः जन् (जा  
 1 a )

जूरह कवच, तनुनाण n 1.

जरा जरा f 5, वृद्धावस्था f 2, धार्द्रक  
 n 1.

जरा अल्प, स्तोक a 1. (—सा=किञ्चिन्मान  
 a 2.)

जरायत कृषि f 4. (—पेशा=कृषीवल  
 a 1, कृषक a 2.)

जरायुज जरायुज a 1, जरायुजान a 1.

जरास्तन्ध जरास्तन्ध m 1, कम श्वशुर  
 m 2.



जरीव जैन मान n 1, मान शृङ्खल  
n 1.

जरूर अवश्यम् ind. (-त=आवश्यकता  
f 2.)

जरूरी आवश्यक a 1.

जरजर जीर्ण, शीर्ण a 1, जरजर a 2.

जर्दे पीत, पीत वर्ण a 1, पाण्डु a 6,  
पाण्डुर a 2.

जर्दी पाण्डुता, पीतता f 2. (-मायल  
ईषत्पाण्डु a 6.)

जर्दी परमाणु, अणु m 8, कर्ण m 1.

जर्दीहृ व्रण चिकित्सक a 1, चिकित्सक  
a 1.

जर्दीही व्रण चिकित्सा, चिकित्सा f 2.

जर्दी जीवर्थ तन्तु जाल n 1.

जल जल n 1, नीर n 2, पयस् n  
15, वारि n 3, अर्प् f 19.  
(pl.) (-मर्द=वारि विरतुति f  
4, जलासवं m 1. (2) चमत्कार  
m 2.

जल चर जल चर a 2, जल जीव  
m 1.

जलज कमल, पद्म, पद्मज, सरोज n 1.  
शङ्ख m 1. (3) मुक्ता f 2.

जलजला भूकम्प, भूचाल m 1.

जल्दी शीघ्रम्, त्वरितम्, सत्वरम्  
adv. (2) शीघ्रता f 2, त्वरा  
f 1.

जलधर जलधर m 2, मेघ, जल  
वारिद m 1.

जल धारा जल धारा f 1, खेतम् m  
15, प्रवाह m 2.

जलन कोप, सन्ताप, ताप m 1, तप्त  
दुःख n 1, अशान्ति f 4.

जलना कुप्, कुप् 4 p. दुःखित a 1  
1 p. मन्त्रतापं जन् c.

जल निधि जल निधि, अग्नि, उदधि  
m 4, सागर, समुद्र m 2.

जल पान आद्य भोज्य n 1, प्रथमाहार  
m 2. (2) अन्पाहार m 2  
(-करना=किञ्चिन्मात्रं भक्ष् 10 p.)

जलसा उत्सव m 1, पर्वन् n 13,  
अधिवेशन n 1. (सालाना—  
वार्षिकोत्सव m 1.)

जला दग्ध, भञ्ज, पक्व a 1. (-भुज्  
=अप्रसन्न, क्रुद्ध a 1.)

जमाना दह् 1 p. (2) प्रव्वल् c.

जला चतन देश निष्कासन, नियास  
n 1. (-करना=देशान्-नियार्थं  
निष्कास c. (2) विदेश वास दह्  
10 p.) (-होना=देशान्-नियार्थं  
निष्कास pass.)

जलाशय जलाशय, तडाग, हृद् m 1.  
सरम् n 15,

जलील हृद् a 2, नीच a 1. (2)  
ज्ञाञ्जित, अपमानित a 1: (-करना

=सञ्जित a कृ 8 p. अप-भव-मन्  
4 a.) (—होना = सञ्जा मनुभू  
1 p. अपमन् c pass.)

तलजाद निर्देय, घातक, वधक a 1.

तलेत्री अमृती f 5, माधुरी f 6.

तव यदा ind, (—तक = यावत् ind.)

तवान युवन् m 25. (स्त्री) युवती f

5, तरुण m 1. (स्त्री) तरुणी f

5, प्रौढ a 1.

तवानी यौवन n 1, तारुण्य n 1,

प्रौढावस्था f 2.

तवाय उत्तर, प्रत्युत्तर n 2, प्रतिभाषण

n 1. (—देना = उत्तरं दा 3 p.

प्रतिभाष 1 a. प्रत्याचक्ष् 2 a.

(2) अपास् 4 p. न संमन् 4 a

(—दावा = अभियुक्त भाषण n 1)

तथा (उच्चार) समुद्र लोभ, विशोभ

m 2.

तवात्त अवनति, हानि f 4. (—होना

= दा pass, भवनत a भू 1 p.

अवनति गम् ( गच्छ् ) 1 p.

जवाहुर रत्न n 1, माषि m 4.

जशन् आनन्द, आनन्दोत्सव m 1, सुख

n 1, प्रसन्नता f 2. (—उद्वाना

= आनन्द मनु भू 1 p. सुखिन् a

वृत् ( वर्त् ) 1 a.

जस यशस् n 15, कीर्ति f 4.

जस्त कांस्य n 1, पीतलोह m 1.

जसोदा यशोदा f 2, श्री कृष्ण जननी  
f 25

जहूर विष n 2. (—कातल = हाला-  
हल n 1 )

जह्वां यत् ind. (—तहां = इतस्ततः  
ind (2) सर्वम् ind.)

जह्नुम नरक n 2

जह्वा न जगत् n 11, संसार m 2.

जह्वालत मूर्खता, अज्ञता, मूढ़ता f 2,  
अज्ञान n 1.

जहाज् अर्थवयोत m 1, समुद्रयान,  
अर्थवयान n 1.

जह्वांन बुद्धिम्, धारण शक्ति मत् a 9  
सुबुद्ध a 1.

जहेज् औतुक n 1.

जाई पुत्री f 6, इहित् f 12.

जांघ जङ्घा, प्रसृता f 2.

जांघिया जाङ्घिक n 1, बृहन्कीपीन  
n 1.

जांचना विभू c. निरीञ् 1 a. आलोञ्  
10 p. अनुमा 7 a. मूल्यं निर्णो

1 p.

जागना प्रवृत् 4 a. जागृ 2 p. न  
सप् 7 p. (5.) जागरण n 1.

जागती जोत प्रत्यक्षशक्ति f 4, उवाचा  
f 2.

जागरण जागरण n 1, अस्वाप m 1  
प्रबोध m 1.

जाग्रत जाग्रति f 4, जाग्रद्वरथा f 2,

(2) चैतन्य n 1.

जागीर भूमिपति f 4, भूमिसंपद् f 11

(2) करभाग, राजस्वांश m 1, अग्रहार m 2. (—दार=करभागिन् रामस्वाश्रीन्, अग्रहारिन् a 11, भूमिपतिमन् a 9.)

जाट मूलं a 2, जट, अज्ञ a 1,

प्राग् a 2, (2) कृषक a 2, कृषीवल a 1.

जाड़ा शीत n 1 शीतकाल m 1.

( सगना = शीत मनु भू 1 p. शीतार्त a भू 1 p. शीतेन भिद् pass.)

जात जाति f 4, वर्ण m 1. विशेषण n 1.

जातक बाल, बालक m 1, शिशु m 8, (स्त्री) बालिका f 2.

जाति वर्ष m 1, जाति f 4, (2) उत्पत्ति f 4, जन्मन् n 12.

जाती स्वाभाविक a 1. (2) निज, स्वीय a 1.

जाट्टु गारुड a 1, यन्त्र, तन्त्र n 2.

(—गर = गारुडिक a 1, तान्त्रिक a 2.)

जान देह, काय m 1, शरीर n 2.

(—परिचान = परिचिति f 4, परिचय m 1.) (—बुधके ॥

ज्ञानतः, ज्ञानपूर्वकम् adv.)

जानकी जानकी f 5, जनकात्मना f 2, संता f 2.

जानना वृत् ( नोष् ) 1 p. अज्ञ ( गच्छ ) 1 p. ज्ञा 9 p.

जानवर जन्तु m 8, प्राणिव, देवि a 11, (2) पशु m 8.

जानशील युवराज m 1, (स्त्री) युवराज्ञी f 5 (2) प्रतिनिधि a 1.

जाना प्रिय a 2, प्रियतम a 1. जानिध पत्न m 2, (प्रज—=पत्न पूर्वतः ind. with Gen.)

जानी प्रिय a 2, प्रियतम a 1. (—दुश्मन = कथोस्तुक a.)

जानी व्यभिचारिन् a 11, विषयलोलुप विषयोस्तुक a 1.

जाप जप, मन्त्र पाठ m 1, मन्त्रावर्तन मालावर्तन n 1, (—करना = मालया मन्त्र मावर्त् 10 p.)

जाम याम m 1, प्रहर m 2.

जामन जम्बु फल n 1. (2) जाम m 8,

जामा प्रवारक n 2. (—मे फले समाना = अत्यन्तं मुद् 1 a. आमे देन प्रफुल्ल a भू 1 p.) (—बाहर होना = अत्यन्तं कुप् 4 f (2) अत्यन्तं प्रमुद् 1 a.)

जामाता जामातृ m 10

जामिन प्रति भाव्यक, निःशङ्कता पादक  
a 1.

जामिनी प्रातिभाष्य n 1, आधि f 4.

(—देना = निःशङ्कता मापाद् 10  
p. न्यासदा 3 p. प्राति भाष्यं  
न्यस् 4 p)

जाम्बवन्त जाम्बवन् a 16.

जाय स्थान n 1, आवास m 1.

जायका आस्वाद, स्वाद, रस m 1.

जायज् उचित, योग्य, युक्त a 1. (2)

शौचित्य n 1, योग्यता f 2,  
उचितम्, युक्तम् adv.

जायद् अधिक a 1, विशेष a 2.

जायदाद् सम्पत्ति f 4, सम्पद् f 17,

विभूति f 4

जायफल जावित्रा फल n 1.

जाया पत्नी f 5, जाया f 2, भार्या  
f 1.

जार जार m 2, कामुक a 1, उपयति  
f 4.

जारी प्रचलित, व्यवहृत a 1.

(—करना = प्रारभू 1 a. प्रचल्  
प्रसू c.) (—रलना = प्रवृत् (वर्त्)  
1 a.) (—होना = प्रचलित a मू  
1 p. प्रचल्, प्रसू c. pass.)

जाल जाल n 1, पाश m 1, (2)

छल, कपट n 1, छद्मन् n 12,  
(—साध = छात्रिक, दात्रिक a 1)

(—सानी = वचकता f 2, कपट  
n 1, छद्मन् n 12)

जाला सूत्र जाल, तन्तु जाल n 1,

(प्रांत का- = पटल, चतुर्जाल  
n 1,)

जालिम निर्दय, वृशंस, जाल्म a 1,

अत्याचारिन a 11,

जाली तन्तु सन्तति f 4, असाद्रवसन

n 1, (2) छात्रिक a 1,  
छद्मनिर्मित a 1

जाल्म see जालिम

जासूस गुप्तचर a 2, गुप्तदूत m 1,

संवाद दूत m 1, (स्त्री) गुप्तदूती,

संवाद दूती f 5,

जाहिर प्रत्यक्ष, गोचर a 2, प्रकट,

प्रकटी भूत a 1

जाहिरा प्रत्यक्षतया, प्रकाशम् adv.

जाहिल मूर्ख a 2, मूढ़ जड़ a 1.

जिकर वर्णन, कथन n 1, चर्चा f 2,

आज्ञाप m 1, निवेदन n 1,

(—करना = निविद् c. आलप्  
1 p. वर्ण 10 p.

जिगर चित्त, हृदय n 1, मनस् n 15

(2) यकृत् n 11, (लखते =

आत्मज m 1. (स्त्री) आत्मजा f

2. (—दोस्त = सुहृद् 20.)

जिहासा जिज्ञासा f 2, अनुसंधान,

अवेषण n 1, (—करना = ज्ञानम्

-३५ (इच्छ) 6 p. अनुसंधा 3  
p. अन्वि 4 p.)

जितना यावत् a 16.

जितेन्द्रिय यति m 1, जितेन्द्रिय n 2  
सयत a 1.

जिह्व हट m 1, आप्रह, दुराप्रह m 1  
(—करना = आप्रह 9 p. हट  
माचर् 1 p. दुराप्रहं कृ 8 p.

जिह्वा आप्रहिन, हटिन् a 11.

जिधर यतः, यव ind.

जिघ्र प्रेत, भूत m 1. पिशाच m 1  
(स्त्री) पिशाची f 5.

जिन्द्रगी जीवन n 1, आयुम् n 17,  
जीवनकाल m 1.

जिन्द्रा जीवित a 1.

जिवहृ हिंसा f 2 हनन n 1, मेघ घात  
m 1, (—करना = हन् 2 p.

जिमाना भुञ् c

जिम्मेवार प्रष्टव्य, अनुयोष्य, अनुयो-  
गाधान a 1

जिम्मेवारी भार, भर m 2, धूर् f  
25, प्रष्टव्यता f 2

जियरा जीव m 1.

जियादा अधिक a 1, विशेष a 2,  
(जियादती = अधिक्य n 1,  
विशेषता f 2; (2) बलात्कार m  
2; (3) अन्याय m 1, अनीति  
f 4.

जियाफत प्रीति भोजन n 1, आनन्द  
भोज m 1, निमन्त्रण n 1, (—देता  
= प्रीत्या भुञ् c, प्रीति भोजनिमन्त्र  
10 p.)

जिथा (वा) ना जीव् c. पा c.  
(पालपति)

जिल्ला मण्डल m 1, चक्र n 2, विभाग  
m 1, प्रदेश m 1. (—साहिब  
= मण्डलेश्वर m 2, मण्डलाधीरा  
m 1.)

जिल्लाना जीव् c. पा c. (पालपति)

जिब्लत लज्जा, न्यूनता f 2, हानि f 4  
(—उठाना = लज्ज 1 a. लज्जा  
मनुभू 1 p हानि सह 1 a.)

जित्द चर्मन् n 13, त्वच् f 14. (2)  
बन्ध m 13, वेष्टन n 1, बन्धनी  
f 5. (3) तण्ड n 1, भाग m  
1. (4) पुस्तक n 1. (—बांधना =  
बन्धन्या संयुज् c पुस्तकं बन्ध  
9 p.)

जिस यद् Pro. 6.

जिस्म देह, काय m 1, शरीर n 2,  
बपुम् n 14.

जिहन धारणा f 2, स्मृति, बुद्धि f 4.

जिह्वा जिह्वा, रसना f 2.

जी श्रीमन् a 9, महाशय, मान्य a 1.  
(—हां = सत्य ओम् ) vac.

श्री मखेवम् ind.)

जी जीव m 1, प्राण m 1, आत्मन्  
m 23. (—बहलाना = मर्ना  
विनोद् 10 p.) —करना = स्पृह  
10 p.) (—खोलकर = उदारतया  
adv.) (—पुराना = आलस्यं or  
दीर्घ स्रजतामाचर 1 p.) (जाति-  
= जीवन काले, स्वायुषि Lac.  
Sing.)

जीजा भगिनी पति m 4, भगिनी भर्तृ  
m 11.)

जीत जय, विजय m 1. (—ना = जि  
( जय् ) 1 p. विजि ( जय् )  
1 a.)

जीन पर्ययन, पर्याण, पर्ययण n 1.  
(—पोश = पर्याण वसन n 1.)

जीना जीव् 1 p. प्राणान धृ 10 p.

जी ना सोपान, आरोहण n 1, पर्वट n  
13, भर्गा f 5.

जीभ जिह्वा, रसना f 2.

जीमना गुज् 7 a. अद् 2 p. भव्  
10 p.

जीरा जीरक n 1, जरण n 1, कणा  
f 2, अजाजी f 5.

(काला—=सुशवी, कारवी f 6.  
काला, उपकुञ्जिका f 2.)

जीर्थी जीर्थ, पुगय, रुटिन a 1, जर्ध  
a 2.

जीट जीव, प्राण m 1.

जीवन जीवन n 1, आदुम् n 17  
—चरित्र = जीवनवृत्त n 1.)

जीविका जीविका f 2, जीवनोपाय m  
1, निर्वाह m 2.

जुआ द्यत n 1, अत्क्रीडा f 2,  
(—खेलना = द्यतं कृ 8 p. अलैः  
दिव् ( दीव् ) 4 p.)

जुआर सप्रद्र लोभ m 2, (2) प्रिंगु  
m 8, अछुधान्य u 1,

जुआरी द्यतकार a 2

जुकाम अवश्याय, प्रतिश्याय m 1

जुग युग m 1, (—जुग = रुदा, सर्वदा  
ind.)

जुगत युक्ति f 4, चानुर्थ्य n 2, चतुरता  
f 2

जुगनी कष्टा भरण n 1

जुगन्त् स्वद्योत, व्यतिरिक्तण, प्रभाकट  
m 1

जुगगाफिया भूगोल विद्या f 2, भूतल  
विमान n 1, समार ज्ञान n 1

जुगल युगल, द्वन्द्व n 1

जुगली रोमान्य m 1, (—करना  
= चर्चमाह 1 p. रोमन्य मन्वत्  
1 p, रोमन्यायते)

जुज भाग, अंश m 1, रुएट n 1

जुटना गुणुन् 7 a, मेपुत् अद् 1 p,  
परस्पर बोद्धं मह् 9 p,

जुड़ना संस्कृत a भू i p. संश्लिप्  
pass.

जुतना आयुज् pass.

जुदा भिन्न, विभिन्न, पृथग्भूत a 1,  
वियुक्त a 1, (—करना = पृथक् कृ  
8 p, विद्युज् c विभिद c (—हाना  
= वियुज्, पृथक् कृ pass

जुद्ध युद्ध n 1, संग्राम m 2. (—करना  
= युध् 1 p)

जुनार यज्ञोपवीत, उपवीत n 1, ब्रह्म-  
स्त्र n 2.

जुमळ शुक्रवार, श्रुवासर m 2.

जुरभत वीरता f 2, साहस n 1,  
उत्साह m 1. (—करना = उत्साह  
1 a. साहसं कृ 8 p.)

जुरीव पादवसन, पादाब्धादन n 1

जुर्म अपराध m 1, दोष m 2.  
(—करना = अपराध् 4 p.

जुल्म अन्याय m 1, अत्याचार m 2.  
(—करना = अत्याचर् 1 p. अन्याय  
माचर् 1 p.)

जुधान जिहा, रसना f 2, वाच् f 14,  
वाणी f 5. (—पर खाना = भाष्  
1 a. वच् 2 p.)

जुहार जैनशिष्टाचार m 2.

जूं पूका f 2, आलिया f 1.

जूट जटा f 2, वेणीबन्ध m 1.

जूड़ा वेणीबन्ध, कबरी बन्ध, कच बन्ध  
m 1, कबरी f 6.

जूता उपानह् f 23, (drv.) पादत्राण  
n 1.

जून योनि f 4, जन्मन् n 12.  
(—बदलना = जन्मान्तरेगम् 1 p.  
जन्मान्तर मधिगम् ( गच्छ् ) 1 p.

यूजं यथा, यावद् ind.

जेठ 1 (2) भंतुज्येष्ठ

जेवढी रूढ f 9, यटी, वारिघटी f 5.

जेघर भूषण, आभूषण n 1, मलंकार  
m 2, (—पद्मिना=शरीर मलं-  
कारैः भूष् 10 p.)

जेहृत्तम वितस्ता f 2, वितस्ता नदी  
f 5.

जै जय, विजय m 1. (—पाना=विजि  
(जय्) 1 a.)

जैन जैनमत n 1, (2) जैन मतानुया-  
यिन् a 11.

जैगी जैनमतानुयायिन् a 11.

जैसा यथा ind. (2) यादश a 1.  
(स्त्री) यादशी f 5.

जौ (ज्यौ) यथा ind. (2) यावत्  
ind. or a 16. (—कार्यो=  
यथापूर्वम्, पूर्ववत् adv.) (—ही=  
यावत्, तत्क्षणम् ind.)

जौक जलौका f 2.

जो यद् pro. 6.

जोखना तुल् 10 p. परिमाण 3 p.

जोखिम (जोखो) शब्दा f 2, सन्देह  
m 1, मय n 1. (2) सकट, कष्ट  
n 1, कृद्ध n 2. श्रयाय m 1.

जोग योग (2) संयोग m 1. (3)  
योग्य; उचित a. 1.

जोगिया रक्त पीत वर्ण m 1, गेरुक  
n 2.

जोगी योगिन् a 11.

जोट युगल, द्वन्द्व n 1. (2) समान,  
सम a 1.

जोड़ सन्धि m 1, संयोग, संगम m 1  
मित्रता f 2, श्रुति f 4.

जोड़ना संयुज्, संक्षिप्, संगम् c.

जोड़ा see जोट.

जोत ज्योतिस् n 16, तेजस् n 15,  
प्रकाश m 1.

जोतना आयुज्, युज् c.

जोता आयोजक a 1, कृषिवल m 1.

जोतिप ज्योतिर्विद्या f 2, आकाश  
विज्ञान n 1.

जोतिपी ज्योतिर्विद् m 20, f 17.

जोषा योष्ट a 7, वीर a 2, सैन्य  
a 1.

जोवन यौवन, तारुण्य n 1.

जोरु जाया f 2, भार्या f 1, पत्नी  
f 1.

जोर बल n 1, पराक्रम m 2, शक्ति  
f 1, सामर्थ्य n 1.

जोगी (ड़ी) see जोट or जोड़.

जोश उत्साह, उत्तेक, आवेश m 1,  
अन्तःसोभ, उद्रेक m 2, (2) अन्त  
स्ताप m 1, चित्त वैकल्य n 1.

(—मे आना=उद्रेक, उत्सुक a मू  
1p. अन्तस्तप् pass चित्त वैकल्यं  
म् 1 p.)

जोशांदा काय m 1. (—बनाना=कथ्



10 p.)

जोशीला सोत्साह, उत्सिक्त, उद्विक्त  
a 1.

जोसी ज्योतिर्विद् m 20, f 17.

जोहना अन्विप् 4 p. अनुसंधा 3 p.

चित्ताशय or मनोभिप्राय-बुध् (बोध्)

1 p. ज्ञा 9 p. अधिगम 1 p.

जौलों (लग) यावत् ind.

जौं यव m 1, यवात्र n 1.

जौज़ भर्तृ m 11, पति m 15.

जौज़ा भार्या f 1, पत्नी f 5, जाय  
f 2.

जौन-सा यःकश्चित् m. यत् किश्चित् n.

या काचित् f.

जौनाहर श्रीति भोजन, सह भोजन, सं-  
भोजन n 1, विशिष्टान् संभार m  
2, निमन्त्रण n 1.

जौहर तत्व n 1, सार m 2.

जौहरी रत्नविक्रयिन् a 11, मणिविक्रेतृ  
a 7, माणिक्यरत्नक a 2, रत्ना  
जीविन् a 11.

जंग युद्ध n 1, संग्राम m 2, समर n  
2. (मैदानए—=समराहण n 1.

जंगी योष्ट a 7, सैन्य a 1, सांग्रामिक  
a 12.

जंगल अरण्य, वन, कानन n 1.

जंगली आरण्य, वन्य a 1.

जंगल सिंघाण, सिंहान m 1, किट्ट

m 1, मण्डूर m 2.

जंजाल विवाद, प्रयास, उपरोध m 1,

कृष्ण n 2, वैषम्य n 2, वैकल्य n

1. (-पदना=वैषम्ये उपपदध् pass.

कृष्णपत् 1 p.)

जंज्र यन्त्र n 2.

जंजीर शृङ्खल n 1, लोहरशृङ्खल f 9.

जन्त्री पद्माग पत्र n 2, तिथि पत्र n 2.

ज्ञात ज्ञान, अवगमन n 1. (2) ज्ञाते,  
अवबुद्ध, अवगत a 1.

ज्ञान ज्ञान n 1, विद्या f 2.

ज्ञानी ज्ञानिन् a 11, ज्ञानवत् a 16,  
विद्वान् a 18.

ज्येष्ठ ज्येष्ठ मास m 1.

ज्येष्ठा ज्येष्ठा f 2, ज्येष्ठा नक्षत्र n 2.

ज्यौं यथा ind. (-त्यौं=यथा कथं  
चित् adv.) (-का त्यौं=यथा  
पूर्वम्, पूर्ववत् adv.

ज्योति ज्योतिस् n 16, प्रभा f 1,  
ज्वाला f 2, युति f 4.

ज्योतिष् see ज्योतिष्.

ज्योति सरूप ज्योतिःस्वरूप m 2,  
विज्ञानमय m 1, चैतन्यात्मक m 1.

ज्वर ज्वर m 2, ताप, शरीर ताप m  
1, (-होना=ज्वरेण आक्रम् pass

ज्वराकान्त a भू 1 p.

ज्वलन ज्वलन, तपन n 1, ताप, दाह

m 1, (2) उष्णता f 2.

उच्चार समुद्र क्षोभ m 2, (2) त्रिपंथ  
m 8, अखुधान्य n 1.

उज्ज्वला ज्वाला f 2, वहिंह शिला f 2.

(—मुखी=भान्नेयगिरि m 5,  
ज्वाला मुख a 1.)

भक्त-भक्त प्रलाप m 1, जल्पन n 1,  
असार वचन n 1, (—मारना=  
प्रलप 1 p. निःसारं वद् 1 p.  
निरर्थकं भाप 1 a. जल्प 1 p.)

भक्तकी विवादेत् a 11, कलह प्रिय a  
2, (2) जल्पक, वातुल a 1.

भक्तगङ्गा विवद् 1 a. कलहं कृ 8 p.  
विलम्ब 1 a. (s विप्र तिपत्ति f 4.

भक्तगङ्गा विवाद, विसंवाद, कलह m 1,  
वाकलह m 1, वाग्युद्ध n 1.  
(—लू=विवादिन् a 11, कलहिन्  
a 11.

भक्तुला प्रशिथिल कञ्चुक n 1. (2)  
वाल कञ्चुक n 1.

भक्तुजर घटी f 5, मीवा घटी f 5.

भक्तु त्वरितम्, शीघ्रम् ind. (—पट=  
सत्वरम् adv. )

भक्तुक 8. सहसा कर्ष. आक्षेप m 2.  
(—मारना=सहसा प्राकृष् 1 p.  
आधिप् 6 p.

भक्तुकना लघु-सहसा-तद् 10 or प्रह  
1 p. एकाघातं कृ 8 p.

भक्तुका एकाघात, लघ्याघात m 1, लघु

क्षेप m 2.

भक्तु मेघाच्छाद m 1, मेघाच्छन्नता,  
दुर्दिनता f 2, (पत—=वसन्त  
m 1.)

भक्तुना पत् 1 p. अल्पशःपत् 1 p.

भक्तुवेर वन्यवदारिका f 1.

भक्तुभक्तु त्वरितम् शीघ्रतया, त्वर्यम्, ..  
सहसा adv.

भक्तुही ततत वर्षण n 1, दुर्दिन n 1,  
मेघाच्छाद m 1.

भक्तुकना निर्माल्, उन्मील् 1 p.  
निमिष् 6 p. पद्म संकुच् 1 p  
(2) बीजू 10 p. व्यजनेन विष्ट  
5 p.

भक्तुकी तन्द्रा f 1.

भक्तुपट सरभसकम्, संरम्भ m 2,  
आपात. सवेगावस्कन्द m 1.

भक्तुपटना सवेगं-अभिद्रु or आपत् 1 p.  
आस्कन्द, अवरकन्द 1 p.

भक्तुपट्टा भवस्कन्द, आपात, वेगापात m  
1, सहसाक्रम m 2.

भक्तुभक्तु धारावर्षण, वर्षाशिञ्जन n 1.

भक्तुभक्तुमाना शुभ् 1 a. प्रकाश, धुत्  
I a.

भक्तुमाका वेगवर्षण n 1.

भक्तुभेल व्यापात m 1, व्याक्षेप, अन्तराय  
m 2, विलम्बहेतु m 8.

भक्तुना s निर्गतर n 2, स्त्रौतस् n 15.

- सवण n 1. (v.i) कणशःपत् 1  
p. सु ( सव् ) 1 p.
- भरौला वातायन n 1, गवाक्ष m 2.  
भक्तक द्युति, कान्ति f 4, शोभा f 2,  
सौन्दर्य n 2.
- भक्तना वीज् 10 p. व्यजनेन-विधु  
5 p.
- भक्त्या साहसिक, क्रोधिल, चण्ड शील  
a 1. आवेशवत् a 16.
- भाङ्कना जाल मार्गेण दृश् ( पर्य् ) 1  
p. प्रबन्धं निरीत् 1 a. सूक्ष्मं निरूप्  
10 p.
- भाङ्की देवमूर्ति f 4, निरावरण दर्शन  
n 1.
- भाङ्वा पाद शोधन, पाद मर्दन n 1.
- भाङ्सा छल, कपट n 1, छत्रन् n 12,  
(2) भय n 1, भीति f 4. (3)  
तर्जन n 1. (—देना=प्रतृ 10,  
वम्च् 10 p. (2) भी c. (3)  
संतर्ज् 1 p. (—वाप्त=आधिक a  
1, कपटिन् a 11.)
- भाङ्ग त्वग्वालि m 4. जडल, कालक n  
1, विष्णु n 6.
- भाग केन n 1, मण्ड, उत्तेक m 1.  
(—भाग होना=केनायते केनं—उत्पद्  
c. or निर्गम् c.) (भागीला=केनिल  
a 1.)
- भाङ्गु शुल्म, रतम् m 1. चुप m 2,  
(2) वृत् m 2, पादप m 1.  
(वतियोंका—=दीपवृश् m 2,  
वार्तिस्तम्ब m 1, दीपौष m 1.
- भाङ्गुन मार्जन, नक्तक, रेखुमार्जन m 1,  
(2) मार्जनी f 5.
- भाङ्गुना रेणुं अपमृज् 2 p, नीरजीकृ  
8 p. निधूषी कृ 8 p. मृज् 2 p.  
or c,
- भाङ्गा विद्या f 2, पुरीष n 2, मल n  
1. (—फिरना=पुरीष मुत्सृज् 6 p.  
पुरीषोत्सर्ग कृ 8 p.)
- भाङ्गी शुल्म, रतम् m 1, चुप m 2.
- भाङ्गु संयार्जनी, शोधनी f 5, (—देना=  
मृज् 2 p. or c. अपमृज्, अपवद्  
c.) (—कश=संयार्जेक a 1, बह  
कर a 2, खलपू m 33.)
- भाङ्गी घटी, कलशी f 5.
- भाङ्गु करंड, कण्डोल m 1, पिपेटक n  
1. (पानीकी=अवरोध, जलावरोध  
m 1.)
- भाङ्गु दरशा f 2, वस्तय, प्रान्त m 1,  
अथल m, n 1.
- भिक्षक साध्वसोत्कम्प, आकस्मिक प्रकम्प  
m 1. (—ना=सचकितं न्यपद्य 1 p.  
चकित a भू 1 p. सहसा कम्प or  
स्पन्द् 1 a.)
- भिक्षकना भुङ्क्वा तर्ज् c, निर्भस्  
10 p.

भिन्नम कवच, सतुवाय n 1.  
 भिन्नमिल वीचि प्रमा f 1, तरक  
 प्रकाश m 1.  
 भिल्ली तगुशलि f 4, अन्धावेष्टन n  
 1. (—पडना=त्वाधिवालिः जन्(जा)  
 4 p.)  
 भिल्लि इद m 1, कासार m 2.  
 भुक्ताना कुष्, कुप् 4 p. कोप  
 आविष् 6 p. रुष्ट a म् 1 p.  
 भुङ्क्षाना असत्यवादिन् a प्रकटीकृ 8  
 p. असत्यववृत्तय-या c.  
 भुङ्क्ष संघ, समूह, सप्रदाय, समवाय m 1  
 भुक्तना नम्, अवनम् 1 p. नम्री  
 1 p. अवनत a भू 8 p.  
 भुक्ताना नम्, अवनम् c नम्री कृ 8 p.  
 भुटपुटा रक्त प्रमा f 2, अरुषोदय  
 m 1.  
 भुटमट see भुङ् above,  
 भुपी वलि f 4, वली f 5, चर्मरेखा f  
 1, चर्म भङ्ग, चर्म संकोच m 1.  
 (—दार=वलीमत् a 9, वलिभ  
 a 1.)  
 भुक्तसना शैव दह् 1 p, अक्षारी कृ  
 8 p.  
 भुक्ताना प्रेल् c. आन्दोल 10 p.  
 इतरततः सं-वि-चल् c.  
 भुटमा प्रेल् 1 a.  
 भुटा प्रेल्, दोलन n 1.

भूठ असत्य, अनृत n 1, मिथ्या ind.  
 भूटा असत्यवादिन्, मिथ्यावादिन् a 11  
 भ्रतववत् a 7.  
 भूमफा अवतंस m 1, कर्णकुण्डल n  
 2, कर्णाभरण m 1.  
 भूमना इतरततः प्रविचल् 1 p. धू  
 pass. इतरततः प्र-विचल् c.  
 pass. प्रेल् 1 p. दोलायते (d)  
 भ्रूल दोली f 5, प्रेखा f 1, हिन्दोल m  
 1. 2) पश्वाच्चादन n 1.  
 भ्रूलनः see भूमना.  
 भ्रूला दोला f 2, प्रेखा f 1, प्रेतोलन,  
 शिष्य n 1, हिन्दोल m 1.  
 भ्रोल (भ्रमेज) विवाद, विसंवाद, कलह  
 m 1, कलि m 4, विप्रतिपत्ति  
 i 4. (—करना=कलहं कृ 8 p.  
 विवद् 1 a. विलम्ब 1 a. विसंवद्  
 1 p.  
 भ्रोलना सह् 1 a,  
 भ्रोक नम्रता f 2, निम्रत्व n 1. (2)  
 आषात m 1, ताडन n 1, (3)  
 प्रक्षेप m 2, अभ्याषात m 1.  
 भ्रोका वाताषात, अभ्याषात m 1.  
 भ्रोट्टा प्रेल्, दोसन n 1. (—लेना=  
 प्रेल् 1 a.)  
 भ्रोट्टा महिष m 2.  
 भ्रोपड (झी) कुटीरक, कुटीर n 2, कुटी  
 f 5.

भोजा (ली) भस्त्रा f 1, प्रसेव  
m 1.

भौसा तर्जन, भर्त्सन n 1. (—देना=  
भयंश् c. तर्ज् 10, भर्त्स्  
10 p.)

भौसाइ अपर्ण वृत्त m 2.

भोजोडना चर्च् 1 p. (2) हस्तेनप्रबुध्  
c. करेणचल् c.

भ्रंभ्रट विवाद, विसंवाद m 1, विप्रति-  
पति f 4. (—मे पडना = कृच्छे-  
पत् 1 p. विप्रतिपन्न a भू 1 p.

भ्रंभ्रनाना कण् c. वाद् 10 p.

भ्रंभ्र काकपदा m 2, गर्भरोमन् n 13,  
चूडा f 2

भ्रंभ्र ध्वज m 1, पताका f 2.

भ्रंभ्रलां काक पदिन् a 11, काक पत्त-  
धर a 2, सचूड a 1.

ट-टक दृष्टि f 4, निरीक्षण, निर्वर्षण  
n 1. (—लगाना = निरीच् 1 a,  
निर्वर्षे 10 p.

टकटकी यद्-रियर-आनिमेप-दृष्टि f 4.

(—वान्धना = दृष्टि वन् 9 p.

यद्-रियर-दृष्टया-दृश् ( परश् ) 1 p

or विलोक् 1 a.)

टकराना भा-समा-इन् 2 p. प्रह 1 p.

मस्तकं तद् 10 p.) मस्तकम्

समाइन् 2 p. (2) गिषः संयुज्

pass. (3) मोषीकृ 8 p. विकली

कृ 8 p.

टकसाल टंकराला, मुदांकन शाला f 2.

टका पणद्वय n 1. (2 धन n 1.

टकाइ स्युति शुल्क, सेवन मूल्य n 1,

सेवनार्थ m 2.

टकोर टङ्कार m 2, ध्वनि m 4, वक्त्र

n 1. (—ना=लघु आ-अभिन्

2 p. or प्रह 1 p.)

टङ्कार मस्तकाघात, समाघात m 1.

(—मारना=see टकराना.)

टटपूजिया अल्पधनवद् a 16,

अल्पसम्पत्तिमत् a 9, अल्पधन a 1.

टटीहरी टिट्टिभी f 5, (m) टिट्टिम

m 1.

टटीन्नना चेटया-अभिन् 4 p. हस्तेन

or हस्ताभ्यां-मृग्, निरुम् 10 p.

टटी वंशावरण, व्यवधान n 1, जवनिका

f 2. (2) पुरीषोत्सर्ग m 2, मल-

विसर्जन n 1. (3) मलत्याग स्थान

n 1. (—जाना=पुरीषोत्सर्गाय गम्

1 p.)

टट्टू अश्वशाव, चुद्रघोटक m 1.

टन अष्टाविंशति खारी मान, n 1.

टनटन टंगार m 2. (—करना=घट्यां

वाद् 10 p, लघु आइन् 2 p.)

टपकना अल्पशः-भु ( प्रष् ) 1 p.

चर्च् 1 p.

टपकाना अल्पशः or विन्दुकमेण-निगीष्

1 p. द्रु c.

टपका विन्दु m 8, (2. पकाम्र n 2.

टमटम लघुयानं, वंशवादन, चतुर्वाहन  
n 1.

टर जल्पन n 1, प्रलाप, वृथावाद m  
1. (2) दर्दुरव m 1. (-मारना=  
प्रलप्, जल्प, वितण्डां वद् 1 p.)

टरफा (छा) ना शाब्देन-पलाय् 1 a.  
अपसृप्, अपधाव् 1 p. व्यपदेशं  
कृ 8 p.)

टर (ल) ना अती-व्यती-गम् p. or या  
2 p. अतिवृत् 1 a.

टर्रा जल्पक, वातुल a 1, मिथ्यावादिन्  
a 11.

टर्रांना जल्प् 1 p. मिथ्या वद् 1 p.  
वृथा भाव् 1 a.

टस्सर जुमा f 1, अतसी f 5, शण  
n 1.

टसरी आतसिक, औमिक a 1.

टहनी शाला, प्रशाला f 2,

टहल सेवा f 2, शुश्रूषा f 1. (-करना  
=सेव् 1 a. शुश्रूषां कृ 8 p.)

टहलना वि-ह ( हर् ) 1 p. इतस्ततो  
अम् 1 and 4 p. परिकम् 8 p.

टहलवा सेवक, भृत्य m 1, दास m  
1, अनुचर m 2, (स्त्री) दासी  
f 5.

टहलाना वि-ह, इतस्ततःचल्, परिकम् c.

टांक टक् m 1. (2, संयोजन n 1.  
(3) सेवन, सीवन n 4.

टांकना संपुञ्, संशिलप् c. संसक्ती कृ  
8 p. सिव् 4 p.

टांका अंक m 1, संश्लेषण n 1. (2)  
सेवन, सीवन n 1, (-सगाना=  
संशिलप् c.)

टांकी चीर n 2, वस्त्र खण्ड n 1

टांग जङ्घा, प्रसृता f 2.

टांगना अवलम्ब, अनु-सञ्ज् (पञ्ज्) c.

टाट शाणपुट, स्पून, शाणपट n 1.

टाप अश्वगति f 4.

टापना लु 1 a. बल् 1 v. लंप्,  
उल्लु 1 a उल्लव् 1 p.

टापू द्वीप m 1, अन्तरापि m 2.

टाल इन्धनापण n 1, काष्ठशाला f 2,  
(-मटोला=व्यपदेश m 1, व्याघेपं  
m 2, श.ट्यापसपेण n 1.

टालना शाब्देन-अपसृप् or पलाय् c.  
(2) विलम्ब c. व्याघिप् 6 p.  
व्यपदेशं कृ 8 p.

टाला विलम्ब, व्यपदेश m 1, व्याघेप  
m 2, श.ट्यापसपेण n 1.

टिकट अनुज्ञाचिन्ह, अनुफलक n 1,  
अभिज्ञानचक्र n 2, निर्देशनी f 5,

टिकटिकी अनिमेष दृष्टि f 4, निर्वर्णन  
n 1, (-त्रांपना=अनिमेषेण-टश्  
(पश्य्) 1 p.

टिकना विश्रम् 4 p. निवस् 1 p.

चिरंस्था ( तिप् ) 1 p, (2)

दुराचारात् नि-वृत् ( वर्त् ) a,

टिकस कर n 2, राजांश m 1,

टिकाना निवस्, विश्रम् c,

टिकिया लघुपिटक n 1,

टिटकारना मुखशब्देन-न्वल् c or गम् c

टिट्टीहरी टिट्टीमी f 5, टिट्टिम m 1.

टिकड़ कान्दव. बृहस्पिटक n 1,

टिड्डा शरभ m 2, शलभ m 1,

शिरि m 5,

टिड्डा शलभा f 2,

टिमटिमाना मन्दं 2 प्रकाश् 1 a,

सतरलं or सक्तम् प्रमा 2 p, or

द्युत् 1 a.

टिप्पण टिप्पणी f 5, व्याख्या, टीका

f 2, विवरण n 1. (-करना=टीक्

1 a, व्याख्या, 2 p. विवृ 5 p.

टीका see टिप्पण, (2) तिलक n 1,

(3) भालाभरण n 1.

टीप पूर्ति f 4. (-करना=शिलासन्धिन्

पूर् 10 p., दृष्टका चूर्ण शिलावका

शेषु संश्लिषु 4 p.)

टीला लघु पर्वत m 1, उच्च भूमांग

m 1.

टुण्डा एक हस्त a 1, अपूर्ण हस्त a 1.

टुक अष्टु a 6, स्तोत्रक, अल्प a 1,

टुकड़ा भाग, अंश m 1, सण्ड n 1.

(2) पिष्ट कांश m 1.

दुष्ठा कातर, दुद्र a 2, दुद्रासु  
a 17.

दूट विभाग m 1, विश्लेष m 2,

दुटन, n 1, दुटि, असंहति f 4.

दूटना दूट् 4 p. विश्लिष्, विमन्  
pass.

दूटपड़ना समाकम्, अवस्कन्ट् 1 a,

दूटा भिन्न, विभक्त, विश्लिष्ट, विपुक्त a

1. (-दूट्य=नांश a 1.)

दूम भूषण, आभरण n 1. अलशर

m 2.

टेक स्थूणा f 2, स्तम्भ m 1. (2)  
अवलम्ब m 1, आश्रय m 2.)

टेढा वक्र, विपम a 2, कुटिल a 1.

(-चलना=कुटिलं गम् 1 p.)

टेर स्वर m 2, आह्वान n 1, प्रार्थना

f 2. (-ना=आलप् 1 p.)

टेवा जन्मफल n 2, जन्म कुण्डली f 5,

लग्न पत्र n 2.

टोक् प्रतिरोध, विष्टम्भ m 1. (टोक=

अन्तराय m 2, व्याघात, प्रतिबन्ध,

प्रतिषेध m 1, बाधा f 2.)

टोकना निधिष्, प्रतिविष् 1 p. वाध्

1 a. उप-नि-अव-प्रति-स्तम्भ् 9 p.

रुष् 7 p.

टोकरा करण्ड, कण्डोल m 1. वेटक

n 1.

टोकरी पेटिका f २, मञ्जूषा f 1.  
 टोटका मन्त्र m २, गारुड a 1. (२)  
 रक्षा करण्ड m 1.  
 टोटा हानि f 4, निष्कलता f २,  
 अज्ञान m 1, अपचय m 1.  
 टोप शिर स्वाण, शीर्षण, शिरस्क n 1,  
 शिरस्त्र n २.  
 टोपा आदक n 1.  
 टोपी शिरस्का, शीर्षणया f २.  
 टोला बीधी f ३, आवास m 1,  
 नगरिक देश m 1. (२) समूह,  
 गण m 1.  
 टोली गण, समूह, रुद्र m 1, अर्था  
 f 5.  
 टोह हस्त निर्बर्णन n 1. (२) अनुसन्धान  
 अन्वेषण n 1, (-ना or लगाना=  
 अनुसंधा ३ p. आन्विष् 4 p.  
 हस्तेन निर्बर्ण 10 p.  
 टोन नगर n २, (-हाल=परसभा भवन  
 n 1,  
 ट्रेड व्यापार m २, व्यवसाय m 1,  
 (-मार्क=व्यापार मुद्रा f 1, व्यापारज्ञ  
 m 1, व्यापार चिह्न n 1,  
 ट्रेन्डलेटर अनुवादक a 1,  
 टंटा विवाद, वाकलह m 1, विप्रातर्पण  
 f 4,  
 टंगना आलम्बू, अवलम्बू c, (आन्दोल-  
 यति D

ठक धारति f 4, सप्ताथात m 1,  
 लघुप्रहार m २, (-ठकाना=लघु  
 अभिहन् २ p, लघु-प्रह 1 p, or  
 तद् 10 p.)  
 ठकुराई प्रधानता, स्वामिता, प्रभुता f २  
 ठग रश्मक, लुण्ठक, धूर्त, मार्ग लुण्ठक  
 a 1,  
 ठट (ट) संघ, समूह, समुदाय m 1.  
 (२) शोभा f २, सौन्दर्य n २,  
 (-वनना=सुसमायोगी जन् (जा)  
 4 a.)  
 ठट्टा परिहास, नर्मालाप m 1, नर्मन् n  
 1३, परिहासोक्ति f 4, (-करना=  
 परिहस्, विनोदवाक्ये षड 1 p.)  
 (-वान्त=वैहासिक, परिहासशील,  
 विनोदरासिक a 1)  
 ठठेरा धातु पात्र कर्तृ, धातु पात्र निर्मातृ  
 a 7,  
 ठठोल वैहासिक, परिहासशील, विनोदर-  
 तिक a 1,  
 ठठाली विनोदोक्ति, परिहासोक्ति f 4.  
 ठन्कार रणन, कणन, शिञ्जित n 1,  
 (-होना=रण, कण 1 p.)  
 ठप्पा चिह्न, लण्डक n 1, मुद्रा f 1,  
 (२) संस्थान n 1, (-लगाना=  
 अंक 1 p. रूप 10 p विहित a  
 कृ 8 p. मुद्र 10 p.)  
 ठरक रस, आस्वाद m 1, व्यसन n 1



ठरकी व्यसनिन् a 11.

ठसाठस परिपूर्ण a 1.

ठहरना स्या (तिच्) 1 p. विश्रम् 4 p.

निवस् 1 p.

ठहराना स्या, विश्रम्, निवस् c. (2)

मूल्य-निर्धृ 10 p. or स्या c.

ठांघ स्थान n 1.

ठांसना पाणिप् 10 p.

ठाकुर प्रधान a 1, अध्येत् a 2, ईश्वर  
m 1, स्वामिन् a 11, (=द्वारा =  
देव मन्दिर, विष्णु मन्दिर n 2.)

ठाकुराई प्रधानता, स्वामिता, प्रभुता f 2,

ठाठ रचना f 2, समा योग m 1, (2)

शोभा f 2, सौन्दर्ये n 2.

ठानना निश्चय 5 p. अव-निर्धृ  
10 p.

ठापना मुद्र 10 p. अक् 1 p. चिन्हित  
a कृ 8 p.

ठिकाना स्थान n 1, (2) व क्षनामन्  
n 12,

ठीक तथ्य, अत, सत्य n 1, (2) शुद्ध,  
यथार्थ, याथातथ a 1, निर्दोष a 2

ठीकरा मृद् भाण्ड शकल, मृद् भाण्ड  
सखण्ड n 1, शकल, खण्ड n 1,

ठीकरी see ठीकरा above,

ठुमक स्खलित गति f 4, मन्द गति f  
4. (=ना = स्खलितं चल् 1 p.)

ठुङ्डी चिबुक n 1, मुस्ताधोभाग

m 1.

ठूंड अणवृत्त m 2, रुण्डपादप m 1.

(2) खिन्न हस्त m 1, (3) अणु

n 1. (=दिखाना = किमपि न

(यच्छ्) 1 p. प्रवृ 10 p. न.

अनुबध् 4 a. with acc. अणु

द्य c.)

ठूसना साकल्येन भद् 10 p. अति-

भोजनेन कुलिं पूर् 10 p. अतिदुःख

या-अद् 2 p. बलात् निविश् c.

ठेक धान्य गोष्ठी f 5, धान्य राशि m

4, अन्न प्रसेव m 1.

ठेका समय, पण, नियम, अभ्युपगम m

1, संविद् f 7. (=करना =

समय-संविद-पणं कृ 8 p. or

संपद् 4 a.) (=दार = पणकर्त्

a 7, कृत संविद् m 20, f 17;

नियम कृत् m 20, f 16.

ठेकी धान्य राशि, राशि m 4.

ठेठ शुद्ध, आलिप्त, अनाविल, सरल a 1,

अमिश्र a 2.

ठेल हस्तयान n 1.

ठेलना हस्तेन-हस्ताभ्यां-हस्तादिना-चल्

प्रसु, प्रणुद् c. प्र 10 p.

ठेला वस्तुनात वाहन n 1. (2) प्रयोद-

यान, प्रचारण वहन n 1.

ठौकना तद् 10 p. प्रह 1 p. आहन

2 p. (2) गिखन् 1 p.

डोकर आनात m 1, आइति f 4,

(2) विप्रतिपत्ति f 1 (-खाना = प्रखल्, विचल् 1 p. विभम् 4 p प्रतिहन् pass. विघ्नेन or विघ्नैः प्रतिहन् pass. व्रम् pass.)  
—मारना = प्रतिहन् 2 p, ग्रह I p.)

डोठ शुक् वृक्ष m 2, इयड पादप m 1, (2) महामूढ a 1. वज्र मूर्त्त a 2.

डोड़ी चिबुक n 1, इनु n 6.

डोस घन a 1, पूर्ण गर्भ a 2, अशय कठिन a 1.

डौर वास, आवास m 1, रघान n 1.

डंठनामा s. ऋणकार, क्लृप्त m 2, कथन, शिक्षित n 1 (v.i.) शिञ्च् 2 a. कण्, कलं स्वन् I p. (ऋणभ्रूयायते D.)

डंष्ट शीत n 1. शीत काल m 1, शिशिर m 2. (—हृगना = शीत मनु भू 1 p. शीतेन भिद् pass.)

डंष्टक शीतलता f 2, शैत्य n 1.

डंढा शीतल a 1. (2) दीर्घसन्निन् a 11. (—सा; भना = दीर्घ निःश्चम् 2 p.)

डंढाई विजया, भजा f 2. (2) ताप रामन, उष्यानिर्वापन a 1, दाहहर तापहर a 2.

डकराना विक्रु, आकन्द I p.

डकार उद्गार m 2. (—लेना = उद्गृ ( गिर् ) 6 p. (—ना = साकल्पे । भुञ् 7 a. अतितृष्ण्या भद् 10 p.)

डकैती लुण्ठक मार्ग वक्त्रक a 1, पान्या पहारक a 2.

डकौत वेद पात्र ब्राह्मण m 1, वेदपात्रा पसद a 1.

डगमगाना कम्प, मन्दं युत् 1 a.

इतरततः चल् 1 p. प्रखल् 1 p.

(2) चित्त वैकल्यगधिगम् 1 p.

डट्टना सन्नद्ध-व्यम a भू 1 p. चित्तं स्थिरी कृत्यकार्यं सम्पद् 10 p.

डट्टा पिधान, कृपापिधान n 1.

डवडवाना अमैः or अशुभिः नेत्रे पू. 10 p. अशुषि सु c.

डवरा सरस् n 15. तहाण m 1. (2) अतालिक a I. अतथ्यस्वन a 1.

डघोना नि-मरन् ( मञ्च् ) c. जल मञ्जनेन-व्यापद्, मृ, नश् c. (2) दुगचारिन् a कृ 8 p. दुराचार नियुञ् c.

ड(डि)ज्वा वाष्ठ पेटक n 1. सापिधान मञ्जसा f 1.

डमरू डमरू m 9.

डर भय n 1, दर n 2, धिन्ता, आशंका f 2, भीति f 4, सायस

m 1.  
 डरना भी 3 u. उद्विन्न 6 a. संवि-  
 प्रम् 4 p.  
 डरपोक भीत a 1, भीतिम् a 9,  
 भीरु m 9, (स्त्री) भीरु 10.  
 डराना संवत् c.  
 डरावना भयंकर a 2, भयावह, भयानक  
 a 1.  
 डला लोष्ठ, गण्ड, पिएड m 1.  
 डलिया लघु कण्डोल m 1.  
 डली अल्पांश, अल्पभाग m 1, लण्ड  
 n 1.  
 डसना दंश् ( दश् ) 1 p. उनाद्  
 10 p.  
 डांग उच्च शिखर n 2, सावु m 8,  
 (2) वंरा दण्ड m 1, वंरा यष्टि  
 f 4  
 डांगर पशु m 8.  
 डांटना अ.कुशु 1 p. गद्द 1 u. निर्भर्त्सु  
 10 a. वाचा दण्ड 10 p.  
 डांडना दण्ड 10 p.  
 डांवाडोल धनवस्थित, अस्थिर वित्त a  
 1, अस्थिर a 2.  
 डाक पत्र प्रापण, संवाद प्रापण, प्रापण  
 n 1, (—खाना = पत्र प्रापण-  
 कार्यालय m 1, प्रापण कार्यालय  
 m 1, संवाद प्रापणालय m 1)  
 (—मूल = पत्र वाहन शुल्क n 1,

प्रापण मूल्य n 1.) प्रापण निवेष्ट  
 m 1, (—अक्षर = प्रापण पत्र  
 a 2)

डाका लुण्ठकारण n 1. (—डना=  
 लुण्ठकैःभ्राम् pass. (—पारना=  
 वलात्-आदिद् 3 p. or आद्  
 ( हर ) 1 p.

डाकिनी डाकिनी, पिशाची f 5.

डाकिया लेखहार a 2, प्रापक a 1,  
 पत्र वाहक a 1.

डाकी वमन, उद्गिरण n 1. (—करा  
 = उद्गृ ( गिर ) 6 p.

डाकू लुण्ठक a 1, वशाहर्तु a 7,  
 वलापहारक a 2.

डाह दंष्ट्रा f 1.

डायन डाकिनी, पिशाची f 5.

डायरी दिनचर्या f 1, दिनचर्या पुस्तक  
 n 1, दैनिकलेख m 1.

डार(ल)ना मन्वत् c. उचित्, निश्चित्  
 6 p. (2) संमित् c. (3) मूल  
 धनत्वेन-स्था c.

डाली शाला f 2. (2) कलोनायन,  
 उपायन n 1, उपहार m 2; वलि  
 m 4. (—देना = कलानि-उपायनी  
 कृ 8 p. उपहारदा 3 p.)

डिगनां पत्र 1 p. अम् 1 p. (2)  
 वेम्, कम् 1 a.

डिगरी पंदरी f 5, पद n 1; उगधि

m 1. (2) राजाज्ञा, राजव्यवस्था,  
f 2, (-दार = सन्धराज प्रसाद  
a 1, राजप्रसादिन् a 11.)  
(-करना = व्यवस्थाया निर्णा 1 p.  
डिपटी सहायक a 1, सहकारिन् a 11  
(2) प्रति हस्त a 1, उपन्यायाधीश  
a 1, उपदण्डाधिकारिन् a 11,  
(-कर्मिश्नर = मण्डलेश m 1,  
मण्डलाधिकारिन् a 11.)  
डिपार्टमेंट विभाग m 1.  
डिविया लघु पेंडिका f 2,  
डिप्लिक्ट मण्डल n 1, (-चोर्ड =  
माण्डलिक परिषद् f 17.)  
डोंग विकल्पन, दर्शभाषण n 1, दर्पोक्ति  
f 4, आत्मश्लाघा f 2. (-मारना =  
निकर्त् 1 a. ट् 4 p. सदर्भाष  
1 a. आत्मानं-श्लाघ 1 a.)  
डौल शरीर n 2, देह m 1. (-डौल  
= देह माया f 1, शरीर बन्ध  
m 1.)  
डुबकी निमज्जन n 1, अवगाह, चारि  
प्रवेश m 2. (-मारना = आन्तु  
1 a. नि-मस्त् (मज्) 6 p.  
धनिःश्वस्तु a 10 जले—विश  
6 p.)  
डुयाऊपानी चगाथ जल n 1.  
डुया(घो)ना नि-मस्त् c. जले प्रविष्य-  
न्याय् c. (2), दुराचारिन् a क्

8 p. दुराचौर नियुज c. (3)  
वितश् c.  
डुलाना प्रेल्, इतरततः चल् c.  
डूयना नि-मस्त् (मज्) 6 p. आन्तु 1  
a. व्यावृत्त a म् 1 p.  
डूम गान वाद्या नीविन् a 11, दौन्दमेय  
पाटहिक a 1.  
डेढ़ साधक a 1.  
डेरा भावास, नियात m 1, आवास-  
विश्राम-स्थान n 1. (2) निवेश  
m 1, पट भवन n 1. (-डालना  
= निवेश-स्था c. (2) अम् 4 p.  
डेला मृगिण्ड m 1, लोघ n 1  
डोंगा लघुनौ m 13, द्रोणी f 5,  
द्रोणि f 4.  
डो(डों)डी घोषण n 1, घोषणा f 2.  
(-पिटवाना = शुष् ( घोष् )  
10 p.  
डोंना पत्र चपक n 2, पत्र पुट n 1,  
पुट n 1, पुटक n 1.  
डोर(री) तन्तु धारा, सूत्र धारा f 1,  
वटी f 5, तन्त्री f 6, रूढ f 9,  
(2) शुल्ब n 1.  
डोरिया शुल्बांशुक, वयोगर्भाशुक n 1.  
डोल उदम्बन, जलोद्धारण n 1.  
डोलना प्रेल् 1 a. इतरततः चल् 1 p.  
डोला शिषिका f 2, शिषिकायान  
n 1.

डोली शैविका f 2.

डोड़ा सार्धक a 1.

डों(ड्यो)डी देहली f 5, द्वाराजण n 1

डौल मात्रा f 1, दशा, अवरथा f 2.

(डौल=शरीर बन्ध m 1, देह मात्रा f 1.)

डंक दश m 1. दश चंड f 6.

(-मारना=दश (दश) 1 p, अत्यन्त पीड् 10 p. व्यच् c.)

डंका पदह दण्ड m 1, वाद्यपटि f 4,

(-वजना=सुप्रसिद्ध-विख्यात a भू 1 p.) (-वजाना=उत्कृष्टतया-राम् 2 p.

आज्ञा c. आधिपत्यं कृ 8 p सर्वविख्यातत्वेन-वृत् (वर्त्) 1 a.)

(-की चोट कहना=विध्वंसतया भाष् 1 a. नि-शङ्क वद् 1 p. सर्व प्रकारां न् 2 p.)

डकनी डकिनी f, अत्याचारिणी f 5.

डंगर पशु m 8, (2) मूर्ख a 2.

डंड साधारण व्यायाम m 1, दण्ड-वद्

व्यायाम m 1, दण्ड व्यायाम m 1 (-पेलना=दण्डवत् व्यायामकृ 8 p.)

डंडा द m 1, यष्टि f 4.

डंडी तु . दण्ड m 1.

डंडीत दण्डवत्. काम, साष्टम मण्डाम m

1. (-करना=दण्डवत् प्रश्नम् 1 p. साष्टमं नम् 1 p.)

ड्योड़ा सार्धक गुणित a 1.

ड्योड़ी देहली f 5, द्वाराजण n 1.

ढ-ढक गुप्त, प्रच्छन्न, गृह a 1. (2)

राज वद् a 1, कारावासिन् a 11.

ढफना (s.) पिधान, आवरण, प्रच्छादन n 1. (v.t.) गृह् 1 u. प्रच्छद्

10 p. अपवृ 5 p. or c. पिधा 3 p.

ढकेलना (s.) अपसारण, सम्भालन n 1, प्रणोद m 1. (v.t.) संवल,

अपसृ. प्रशुद् c.

ढकोसला असत्य वचन, मिथ्या भाषण n 1, मिथ्याक्ति f 4, छत्रवचन n

1 (-लगाता=प्रवृत्तवद् 1 p. छत्र वचनानि भाष् 1 a.)

ढकन पिधान, आवण, आच्छादन n 1.

ढका ढका i 2, वृहत्पठह m 1.

ढव रीति f 1, विधि m 4, प्रकार m 2. (वे-=कुरूप a 2, यशोभित

a 1.)

ढलना द्रु (द्र्) 1 p. (उमर- = पश्चिमावस्थां प्राप् pass. or

5 p.)

ढलाई द्रवण-मूल्य-शुल्क n 1, प्रवर्णार्थ m 2, (2) निम्न प्रदेश, उत्तम भू

भाग m 1.

ढलाई पातन मूल्य n 1. पातन द्रव्य n 2. पातनार्थ m 2,

दधाना अधः कृ, पत् c.

ढाई सार्धहय n 11.

ढांकना आच्छद् 10 p. पिथा 3 p.

घावु 5 p. cr c.

ढांचा आकार, प्रकार m 2, रीति f 4,

(2) संस्थान, आवेष्टन n 1,

उपष्टम्भ m 1.

ढांपना see ढांकना above.

ढाक पलाश m 1. (2) कटि f 4,

कटि देश m 1.

झाडस आश्वासन, समाश्वासन n 1,

धैर्य n 2, (—वांधना = आ-समा-

श्वस् 2 p. धैर्य आ-स्था ( तिप् )

अवलम्बु 1 a.) (—देना = समा-

श्वस् c.)

ढाल क्रमशः निम्नता f 2, अपसर्पिणीम्

f 11, निम्नता f 2. (2) फलक

n 1, शक्ति, चर्म शक्ति f 4, चर्मन्

n 13.

ढाजना दु ( द्र् ) c.

ढाजवां क्रमशः निम्न a 1.

ढिग समीपं (पे) अन्तिकं (के) निकटं

(टे) ind.

ढिठाई धृष्टता f 2, धार्च्यं n 1. (2)

अदूर दृष्टि f 1.

ढिघरी काचाच्छादन, काचावरण n 1,

(2) प्रभाशमन, वृत्ति शमन, दीपावरण

n 1.

ढीठ धृष्ट a 1. (2) अदूर दार्शिनं a 11

ढीत्त विलम्ब m 1, विर n 2, दीर्घ

सूत्रता f 2.

ढीला शिथिल a 1, दीर्घ सूत्रिन् a 11

ढु(ड)जना प्र-सु (सव्), ढु (द्र्)

प्रवद् 1 p.

ढुत्ताई वहन शुल्क n 1, वहन वेतन

n 1, वहन मृति f 4, वहन निवेष्ट

m 1.

ढूढना अन्विप् 4 p. अतुसंधा 3 p

ढूढिया जैन मुनि m 4

ढूकना अन्तिकं आगम्, उपगम्, उपसर्पं

p. with acc.

ढोर राशि m 4, समुदाय m 1.

ढेला लोष्ठ n, मृषियण्ड m 1.

ढोना वह् 1 p. (शर्षदिना) नी (न्य्)

1 p.

ढोर पशु जात n 1, पशु समूह m 1.

ढोल दुन्दुभि m 4, पटह m 1.

ढोला प्राग्य छन्दस् n 15.

ढौंचा सार्धचतुष्टय n 1, (2) सार्ध

चतुर्शुषित a 1.

ढेन रीति f 4, विधि m 4, प्रकार

m 2.

ढेढोरा घोषण n 1, घोषणा f 2.

(—हराना=वुप् (घोष्) 10 p.)

तमज्जबं आरच्यं n 2.

तमज्जुक सम्बन्ध, संयोग m 1, संमेलन

n 1. (— वनाना=सम्बन्धं युज् c संयुज् 7 a.) (— तोडना=पृथक् कृ 8 p. or भृ 1 p.)

तआम्मल शोक, उद्वेग m 1, चिन्ता, व्याकुलता f 2. (— करना=शुच् ( शोच् ) 1 p. उद् विज् 6 p.)

तआस्सुव पक्षपात m 1, स्वमता प्रद m 2. (— सु=पक्ष पातिन् a 11, स्वमता ग्रहिन a 11.) (— करना=निर्वन्धेन-आविचार-पक्षपातं कृ 8 p. स्वमतं रक्ष् I p.)

तई अर्पणावरीष, लांहावरीष, अम्बरीष, n 2.

तक पर्यन्तम् ind. incom m यावत् ind. with acc.

तकड़ा पुट, टट a 1, बलवत् a 16, सबल, शक्त a 1.

तकदीर भाग्य, दैव, भागधेय n 1.

तकना निरीत् 1 a, निर्वर्ण 10 p. दृग् ( पश्य् ) 1 p.

तकच्युर अभिमान n 1, गर्व, दर्प, अहङ्कार m 2. (— करना=अभिमान् 4 a. अहं कृ 8 p. सगर्वे a भृ 1 p.)

तकरार तर्क m 2, (2) विवाद, कलह m 1, (— करना=वि-वद, निसंबद 1 p. कलहं कृ 8 p. वितर्कणं वद् 1 p.)

तकला तर्क m 9, तर्क n 1, तर्क्या f 5.

तकलीक परिश्रम m 2, आयास, यत्न m 1, (2) पीडा f 2, दुःख, कष्ट n 1, सन्तार m 1. (— उठाना=यत्नं कृ 8 p. आयास् 4 p. (2) दुःखं सह् 1 a. पीडां-कष्टं अतुभू 1 p.)

तकल्लुफ प्रयास m 1, परिश्रम m 2, उपचार, आयास m 2, (— करना=प्रयस् 4 p, उपचारं उपचर् 1 p. कृ 8 u.)

तकसीम विभाग, भाग m 1. (— करना=विभज् 1 a.)

तकसीर दोष m 2, अपराध m 1, प्रमाद m 1, स्तखन n 1.

तकाजा याचना f 2, भिक्षा f 1. (2) अतुरोध, उपरोध m 1, (— करना=उपरुध्, अतुरुध् 4 a. with acc. (2) याच् 1 a.)

तकान श्रम m 2, लेद, अध्व लेद m 1, स्थगित्य n 1. (— चदना=अध्वलेदं-सद् 1 a. or अतुभू 1 p स्थगित् a भृ 1 p.)

तकाधी कृषिचिंतन n 1, कर्मणपण m 1, कृषि निवेश m 1, कृषि भृति f 4.

तकिया उपधान, वालिश n 1. उपवर्ह

n 2. (—कलाप=स्वभाव अभ्यास  
m 1.

तक्र तक्र n 2, मथित दधि n 5.

तक्षक रथकार m 1, तक्षक m 2, or  
a. स्वपति m 4 लघु a 7.

तखत काष्ठ फलक n 1, (2) सिंहासन  
राजासन, भद्रासन n 1,

तखता शव-फलक, शव वहन n 1.

तखमीना ऊहा f 2, अम्पूहन, अनुमान  
n 1. (—लगाना=ऊह् 1 u.  
भनुमा 3 p.)

तखफीफ न्यूनता f 2, संक्षेप m 2,  
प्रत्याहरण n 1, (—करना=प्रत्या-  
ह ( हर् ) 1 p. संक्षिप् 6 p.)

तगमा पदक, मानपदक n 1.

तगर तगर n 2.

तगार कर्दम भारड n 1. पङ्कपात्र n 2.  
तगैयुर परिवर्तन n 1, परिवृत्ति f 4.  
(—हीना=परिवर्त् 1 a.)

तज पिंगवृक्ष m 2, पिंगलच् f 14.

तजना त्यन् 1 p. मुच् ( मुन्च् )  
1 p.

तजरवा परीक्षा f 1, प्रयोग m 2,  
अनुभव, उपभोग m 1. (—करना=  
अनु-भू 1 p. उपभुञ् 7 a. परीच्  
1 a. प्रयोगेण-दश् ( पर्य् ) 1 p)  
(—कार=अनुभवित् a 11, सानु-  
भव, परिणत प्रज्ञ a 1, पक्क बुद्धि

a 6.)

तजवीञ्ज उपाय m 1. (2) प्रस्ताव m  
1, सम्मति f 4. (—करना=उपायं  
कृ 8 p. or आचर् 1 p.) (—वेश  
करना=प्रस्तावं संचल् c. or  
प्रमृ c.)

तट तट n 1 तीर n 2, कूल n 1,  
वेला f 2.

तडकना विट, निर्भिद् pass. [2]  
ईपद्-दद् 1 p.

तडफा प्रातर् ind. प्रभात n 1, अरु-  
णोदय, प्रातःकाल m 1. (—हुआ=  
ईषद्गध a 1.)

तडपना आकुली-भू 1 p. संतप्त a भू 1  
p. परितप् 4 p. अज्ञानिचल् c.  
इतस्ततः लुट् 1 p.

तडाग तडाग m 1, सरस् 15.

तडित तडित्, विद्युत् f 16, प्रशान  
m 4, सौदामनी f 5.

तत्काल तदैव, तत्क्षणमेव, स्वरितमेव,  
ind.-adv.

तत्क्षण see तत्काल above.

तत्ता तप्त, उष्ण a 1. (—करना=तप्  
c. उष्णी कृ 8 p.)

तत्पर उद्यमशील, सोद्यम, तत्परायण a  
1, उद्योगिन् a 11, कटिवद्, सधद्  
a 1.

तत्त्व सत्य, तथ्य, तत्त्व, मूल n 1, सार



n 1. (— वनाना=सम्बन्धं युज् c  
संपुज् 7 a.) (— तोड़ना=पृथक्  
कृ 8 p. or भृ 1 p.)

तत्राम्मल शोक, उद्वेग m 1, चिन्ता,  
व्याकुलता f 2. (— करना=शुच्  
( शौच् ) 1 p. उद् विज् 6 p.)

तत्रास्सुव पक्षपात m 1, स्वमता ग्रह  
m 2. (— मु=पक्ष पातिन a 11,  
स्वमता ग्रहिन a 11.) (— करना=  
निर्वन्धेन-अभिचार्य-पक्षपातं कृ 8 p.  
स्वमतं रघ् I p.)

तर्ह्य अप्पाग्वरीष, लोहाग्वरीष, अम्बरीष,  
n 2.

तक् पर्यन्तम् ind. incom m यावत्  
ind. with acc.

तक्कड़ा पुष्ट, दृष्ट a 1, वलवत् a 16,  
सवल, शक्त a 1.

तक्कीर भाग्य, दैव, भागधेय n 1.

तक्कना निरीक्ष् 1 a, निर्वर्ण् 10 p.  
दश् ( पश्य् ) 1 p.

तक्कञ्चुर अभिमान n 1, गर्व, दर्प,  
अहङ्कार m 2. (— करना=अभिमान्  
4 a. अहं कृ 8 p. सगर्वे a भू  
1 p.)

तक्करार तर्क m 2, (2) विवाद, कलह  
m 1, (— करना=वि-वद, निसंवद  
1 p. कलहं कृ 8 p. वितण्डां वद्  
1 p.)

तक्कला तर्क m 0, तर्क्य n 1, तर्क्य  
f 5.

तक्कलीफ परिधम m 2, आयास, यत्न  
m 1, (2) पीडा f 2, दुःख, कष्ट  
n 1, सन्तान m 1. (— उठाना=  
यत्नं कृ 8 p. आयास् 4 p. (2)  
दुःखं सह् 1 a. पीडां-कष्टं अनुभू  
1 p.)

तक्कल्लुफ प्रयास m 1, परिश्रम m 2,  
उपचार, अत्यादर m 2, (— करना  
=प्रयस् 4 p, उपचारं उपचर् 1  
p. कृ 8 u.)

तक्कसीम विभाग, भाग m 1. (— करना  
=विभज् 1 a.)

तक्कसीर दोष m 2, अपराध m 1,  
प्रमाद m 1, स्वसन n 1.

तक्कजा याचना f 2, भिक्षा f 1. (2)  
अनुरोध, उपरोध m 1, (— करना=  
उपरुध्, अनुरुध् 4 a. with  
acc. (2) याच् 1 a.)

तक्कान श्रम m 2, खेद, अश्व, खेद m  
1, स्थगित्व n 1. (— चड़ना=  
अश्वखेदं-सह् 1 a. or अनुभू 1  
p स्थगित् a भृ 1 p.)

तक्कवी कृषिवृत्तन n 1, कर्षणपण m  
1, कृषि निवेश m 1, कृषि मृति  
f 4.

तक्किया उपधान, वालिश n 1. उपवर्ह

n 2. (—कलाम=स्वभाव अभ्यास  
m 1.

तक्र तक n 2, मयित दधि n 5.

तक्षक रथकार m 1, तक्षक m 2, or  
a. स्थपति m 4 लघु a 7.

तक्षत काष्ठ फलक n 1, (2) सिंहासन  
राजासन, भद्रासन n 1,

तक्षता राव-फलक, राव वहन n 1.

तक्षमीना ऊहा f 2, अभ्यूहन, अत्रुमान  
n 1. (—लगाना=ऊह् 1 u.  
भनुमा 3 p.)

तक्षकीक न्यूनता f 2, संक्षेप m 2,  
प्रत्याहरण n 1, (—करना=प्रत्या-  
ह ( इर् ) 1 p. संक्षिप् 6 p.)

तक्षमा पदक, मानपदक n 1.

तगर तगर n 2.

तगार कर्दम भाण्ड n 1, पङ्कपात्र n 2.

तगैयुर परिवर्तन n 1, परिवृति f 4.  
(—होना=परिवर्त् 1 a.)

तज विंगवृत्त m 2, विंगत्वच् f 14.

तजना त्यञ् 1 p. मुच् ( मुन्च् )  
1 p.

तजरवा परीक्षा f 1, प्रयोग m 2,  
अनुभव, उपभोग m 1. (—करना=  
घनु-भू 1 p. उपभुञ् 7 a. परीच्  
1 a. प्रयोगेण-दश् ( पश्य् ) 1 p)  
(—कारं=अनुभवित् a 11, साजु-  
भव, परिणत प्रज्ञ a 1, पक बुद्धि

a 6.)

तजवीज उपाय m 1. (2) प्रस्ताव m  
1, सम्मति f 4. (—करना=उपायं  
कृ 8 p. or आचर् 1 p.) (—वेश  
करना=प्रस्तावं संचल् c. or  
प्रसृ c.)

तट तट n 1 तीर n 2, कूल n 1,  
वेला f 2.

तट्टकना विट, निर्भिद् pass. [2]  
ईपद्-दद् 1 p.

तट्टका प्रातर ind. प्रभात n 1, अद्-  
योदय, प्रातःकाल m 1. (—हुआ=  
ईषद्गध a 1.)

तट्टपना आकुली-भू 1 p. संतप्त a भू 1  
p. परितप् 4 p. अक्रानिचल् c.  
इतरततः लुट् 1 p.

तट्टाग तडाग m 1, सरस् ती 15.

तट्टित तडित्, विद्युत् f 16, अशान  
m 4, सौदामनी f 5.

तत्काल तदैव. तत्क्षणमेव, स्वारितमेव,  
ind.-adv.

तत्क्षण see तत्काल above.

तत्ता तप्त, उष्ण a 1. (—करना=तप्  
c. उष्णी कृ 8 p.)

तत्पर उद्यमशील, सोद्यम, तत्परायण a  
1, उद्योगिन् a 11, कटिवद्ध, सजद्ध  
a 1.

तत्त्व सत्य, तथ्य, तत्व, मूल n 1, सार

m 2. (2) पञ्चतत्त्व n 1.  
 (पृथिव्येतजो वाय्वाकाश n 1.)  
 (-ज्ञान = ब्रह्म ज्ञान n 1.)

तथा तथा ind. तेन प्रकारेण instr  
 sing.

तद्द्वार उपाय, यत्न m 1. (-करना=  
 उपायं-चिन्त् 10 p. or कृ 8 p.  
 यत्नं कृ 8 p. or यत् 1 a.)

तदारूढ उद्यम, उपाय m 1; विधान,  
 सम्पादन n 1. (-करना=विधा 3  
 p. संपद् 10 p. (2) उपाय-  
 उद्यमं कृ 8 p. or आचर् 1 p.

तद्धित तद्धित प्रकरण n 1.

तन तनु f 9, शरीर n 2, देह, काय m  
 1, (-मनधन से करना = सर्वात्मना  
 सर्वथा कृ 8 p. or सेन् 1 a.)

तनक अल्प, स्तोक, अत्यल्प a 1, अलु  
 a 6.

तनकी परिष्किया f 1, परिष्कार m 2,  
 निर्णय m 1. (असर- = परिष्कार्यांश  
 निर्णेत व्यांश m 1, विचारणीय  
 विषय m 2.)

तनखाह वेतन, वर्तेन n 1, वृत्ति f 4.  
 तनज्जल द्रास, अपचय m 1, अपकर्ष  
 m 2. (-करना = हूस् c.) (-होना  
 = अपचि, हीनस्थांनी pass. न्यूनी  
 भू 1 p. लघु कृ pass. पूर्वावस्थांनी  
 pass.)

तनदिही यत्न, उद्यम m 1, पश्चिम m  
 2. (-से = तोद्योगं, सयत्नम् adv.)

तनना दण्डवत्-स्था ( तिष्द् ) 1. p.  
 उन्नत-उच्चिन्न a स्था ( तिष्द् ) 1  
 p. उद्स्था 1 p.)

तनय तनय, आत्मज m 1, ससु m 8,  
 पुत्र m 2. (स्त्री) पुत्री f 6.

तनहा एकाकिन् a 11, अद्वितीय a 1,  
 (2) एकान्तता f 2.

तनाजा विवाद, विसंवाद, कलह m 1,  
 कलि m 4, -करना = विवद् 1 p)

तनाल भस्तल n 1, लोहोपानत्तल n 1  
 तनी बन्धनी, योजना. f 5, वीटिका  
 f 2.

तनु f 9. देह, काय m 1, शरीर n 2  
 तन्दरुस्त नीरोग a 2, स्वस्थ a 1,  
 आरोग्यवत् a 16.

तन्दरुस्ती आरोग्यता, स्वस्थता f 2,  
 स्वास्थ्य n 1.

तन्दूर कन्दु m 8, वृहच्चुलि f 4; (2)  
 आपाक m 1, उष्णता f 2.

तन्त्र तन्त्र n 2, तन्त्र शास्त्र n 2.  
 तप ज्वर m 2, शरीर ताप m 1 (2)

तपश्चर्या f 1, तपस् n 15.  
 (-करना = तपश्चर्या कृ 8 p. तपः-  
 तप् 4 p.) (-शदिक = विषमज्वर  
 m 2.)

तपत उष्णता f 2, ताप m 1, धर्म

m 2, उष्मन् m 23.

तपना तप् 1 p. तप्त a कृ pass.

भू, तप्त a भू 1 p.

तपस्या तपश्चर्या f 1, तपस् n 15.

(—करना = तपः-कृ 8 p. or तप् 4 p.)

तास्वी तपस्विन् a 11, तपोधन a 1,  
तपोरत a 1.

तपाना v. f. तप्, उत्ताप m 1, see तपत.

तप्त तप्त, उष्ण, चण्ड a 1.

तफरीक व्यवकलन, अपाकरण, विगोजन

अपनयन n 1, (—करना = अपा

कृ 8 p. न्यूनी कृ 8 p. अपनी

1 p. निःसृ c. विभिद् 7 p.)

तफुलील विवरण n 1, स्फुट व्यवस्था

f 2. (—वार विस्तार पूर्वकम् =  
adv.)

तफावत भेद m 1, विशेषता f 2,

अन्तर n 2.

तबदील परिवर्तित a 1. (—करना =

परिवृत् c. स्थानान्तर-नी 1 p.)

(—होना = परिवृत् (वर्त्) 1 a.

स्थानान्तर-नी pass.)

तबदीजी परिवृति f 4, परिवर्तन n 1.

तबला लघ्वानक n 1. (dw.)

आनकद्वय n 1.

तबाह विनष्ट, नष्ट a 1. (—करना =

विनष्ट c.) (—होना = विनष्ट a

भू 1 p.)

तबाही विनाश, नाश m 1

तबीयत स्वभाव m 1, प्रकृति f 4,

(2) शरीरानस्था f 2. (—लगाना =

सुद ( मोद् ) 1 a. आनन्द मउभू

1 p. (2) चित्तैरिपरी भू 1 p.

प्रसन्नता मधि-गम् ( गच्छ् ) 1 p.)

(—विगडना = रुष्ण a भू 1 p.

अस्वास्थ्यं प्राप् 5 p)

तबीध वैद्य, चिकित्सक a 1, भिपन्

m 18.

तबेला अश्व शाला, पशुशाला f 2.

तम तमस् n 15, अज्ञान n 1, तमो-

गुण m 1. (2) अन्धकार m 2.

तमोगुण तमोगुण m 1, तमस् n 15.

तमभा लोभ m 1, तृष्णा f 2.

(—करना = लुम् 4 p.)

तमक शोवेश, शोषवेश m 1. (2)

अभिमान n 1, गर्व m 2.

तमगा पदक, मान पदक n 1-

तमधा इच्छा, आशा f 2.

तमनवा अग्न्यस्त्र, युलिकस्त्र n 2,

तमसील उदाहरण a 1, दृष्टान्त m 1,

उपमा f 2. (—देना = उदाह (द्) )

1 p. दृष्टान्तेन दृग् c. उप-मा

3 a.)

तमाकू तमाल n 1, तमाल पत्र n 2.

(यद् अनिश्चित है)

तमाम सर्वं pao. 1, संपूर्ण, समस्त,  
आखिल a 1, अशेष a 2.

तमाल तमाल m 1. तमाल वृक्ष  
m 2.

तमाशबोन कलह कारिन् a 11, कलह  
कारक a 2, विवाद प्रिय a 2.

तमाशा प्रसादन, दृश्य, मनोहर दृश्य  
n 1, (2) प्रदर्शनी f 5.

(-दिखाना = मनोहर दृश्यैः आनन्द

c. प्रसादम्-उत्सद् c. 12) अदूर

दर्शितया कार्य करणेन अपरान्

आनन्द c.

तमीज़ विवेचन, विभावन, अभिज्ञान  
n 1, परिच्छेद m 1. (-करना

=विविच् 3, 7 p. or c.

परिच्छिद् 7 p. विभू c, लद्

10 p.)

तमोगुण तमोगुण m 1, तमस् n 15

तम्बाकू तमाल पत्र n 2. (-पीना =

धूमं-तमाल धूमं-पा ( पिव् ) 1 p)

तम्बिया वृहक्षपक n 2, वृहत्पुट n 1.

तम्बू पट भवन n 1, पट निवेश m 1.

(-लगाना = पट भवनं स्था c.

निवेशं स्था c.)

तम्बूर पटल n 1.

तम्बूरा तम्बीबाव n 1, बीणा f 2.

तम्बूली ताम्बूलिन्, ताम्बूलविक्रयिन् a

11, ताम्बूलविक्रेतृ a 7.

तरं तर्कटी f 5, तर्कटी फल n 1. (2)

किञ्च, सावित जल पूरित a 1, माद्रे

a 2. (-थो ताजा = विघान्तोद्यत

a 1, नवीन a 1, अच्युण्ण, अभि-

नव, अम्लान a 1.) (-करना =

आदी कृ 8 p. किद् c.)

तरक त्याग m 1, उत्सर्ग m 2.

(-करना = त्यन् 1 p. उत्सृन् 6

p. अपसृ c.)

तर्क तर्क m 2, विचार m 2. ऊहा

f 2, ऊहन अनुमान n 1. (-करना

=विचर् c. ऊह u. अनुमा 3 a.)

तरका दाय m 1, धन n 1, सम्पत्ति

f 4, सम्पद् f 17.

तरकारी मूलादि व्यञ्जन मूलोपसेचन

n 1.

तरकीव रीति f 4, विधि m 4 प्रकार

m 2.

तरकी उन्नति, वृद्धि f 4, विशेषता,

आधिकता f 2. (-करना = उन्नत-

a भू 1 p. आधिक्यमधि-नाम् 1 p.)

तरङ्ग तरङ्ग m 1, वीचि, उर्मि f 4.

तरजुमा अनुवाद m 1, भाषान्तर प्रापण

n 1. (-करना = अनुवद् 1 p.

भाषान्तरंती ( नय् ) 1 p.)

तरतीव क्रम m 2. (-वार = क्रमेण

क्रमशः ind.) (-रखना = क्रमेण

स्था c.)

तरदीद खण्डन n 1, निषेध m 1,  
 प्रतिषेध m 1 (—करना=नि-पति-विध्  
 1 p. खण्ड् 10 p. प्रतिकूलं क्य्  
 10 p.)  
 तरना तरण, पार गमन n 1. (v.i.)  
 तृ ( तर् ) 1 p.  
 तरफ पार्श्व n 1, आभिमुख्य n 1,  
 अभिमुखम् adv. (—दार=सहा-  
 यक a 1, पक्षपातेर् a 11.)  
 (—दारी=पक्षपात m 1, साहाय्य  
 n 1.)  
 तरबूज तरभुज n 1.  
 तरमीम शोधन n 1, उद्धार, परिष्कार  
 m 2. (—करना=संशुध् c.परिष्कृ  
 8 p.)  
 तरवार वृत्त m 2, पादप m 1, तर  
 m 9.  
 तरवार अस्त्रि m 4, तर्क m 1.  
 तरस दया, अनुकम्पा, करुणा f 2,  
 कारुण्य n 1. (—खाना=दय्,  
 अनुकम्प 1 a.)  
 तरसना अल्पतन्-स्पृह् 10 p. उत्कटेच्छां  
 धृ 10 p. उत्कटे-अभिलष् 4 p.  
 तरह वत् ind. incomm. इव ind.  
 तुल्य, उपम a 1, incomm.  
 इस—=इत्यम्, एवम् ind.)  
 (उस—=तथा ind.) (किस—=कयम्  
 ind.) (जिस—=यथा ind.)

(—हर=सर्वथा ind.)  
 तगजू तुला f 2.  
 तराचट अम्लानता, अर्क्षता, अभिनयता  
 नूतनता f 2. (2) हरितता f 2.  
 तराशुना s. तरुण छेदन n 1, (v.t.)  
 तन् 1 p. छिद् 7 p.  
 तरी व्यञ्जन जल n 1, उपसेचन मल  
 n 1. (2, अम्लानता, अर्क्षता  
 f 2.)  
 तरीक तिथि f 4, प्रवेष्ट n 1. (2)  
 मत n 1, सिद्धान्त m 1.  
 तरीका विधि m 4, रीति पद्धति f 4.  
 तरु तरु m 9, वृक्ष m 2, पादप  
 m 1.  
 तरुण तरुण m 1, (स्त्री) तरुणी f 5,  
 प्रौढ मध्यमावस्था a 1, युवन्  
 m 25. (स्त्री) युवती f 5.  
 तरेपन त्रिभारत् f 16.  
 तरेसठ त्रिषष्टि f 4.  
 तरेया तरणविद्, सवनकृत् m 20,  
 f 16-17.  
 तरंग वीचि f 4, लहरा f 6, तरङ्ग  
 m 2.  
 तर्क तर्क, विचार m 2, ऊहा f 2,  
 अभ्यूहन n 1, (—करना=विचर् c.  
 ऊह 1 u. अनुमा 3 a.)  
 तर्ज रीति f 4, विधि m 4, प्रकार m  
 2, प्रचाली f 5, पद्धति f 4.

तर्जनी तर्जनी f 5, श्रंगुष्ठ सर्मापांगुली f 5.

तर्पण तर्पण, पितृ जल दान n 1, (2) तृप्ति f 4. (3) सन्तोष m 2. (-करना=पितृभ्यः जलं दा 3 p. तृप् 10 p.)

तरार वचन रचना चतुर a 2, वाक्पट्ट a 6, (2) सुवक्तृ a 7.

तर्सौ परशुदिवस m 1.

तल्लस्य कदुस्वभाव, तीक्ष्ण a 1, कट्ट a 6, (2) तिक्त a 1.

तल्लना घृते or तैले-पच् c. अस्ज् c. or 6 p. भृज्ज् 1 a.

तल्लफ अपचय m 1, अपहय m 2. प्रत्याहरण n 1, हानि f 4. (-करना=प्रत्याह 1 p.) (-होना=प्रत्याह, अपाहि, हा pass.)

तल्लफुज्ज उच्चारण, शुद्धोच्चारण n 1.

तल्लय वेतन, वर्तन n 1, भृति f 4, (2) आहान n 1. (-करना=आहे ( ह्य् ) 1 p.)

तल्लवाना आहानपण m 1 साध्यशुद्धक n 1, साध्यवेतन n 1.

तल्लमन्ताना अधीर a 2-वृ 1 p. प्रत्यन्तं स्पृह 10 p.

तल्लवार असि m 4, धेग, करवाल m 1.

तल्ला तल्ल n 1, अधोभाग m 1.

तल्लाक-विवाह लाप, प्रत्यादेश, विवाहो-

धेद m 1, भार्या-निराकरण n 1, पत्नी त्याग m 1. (-देना=विवाहं लुप् c. or भिद् 7 p. पत्नी-निरास् 4 p. ल्यञ् 1 p. निराकृ 8 v.)

तल्लाव सरस् n 15, तद्भाग m 1, पल्लव n 1.

तल्लाश अन्वेषण, अनुसंधान, निरीक्षण n 1, जिज्ञासा f 2. (-करना=अन्विप् 4 p. अनुसंधा 3 p. निरीच् 1 a.)

तल्लाशी निःशेषावलोक m 1, निःशेष निर्धत्ता f 2. (-लेना=निःशेषं निरीच् 1 a. निःशेषं विलोक 10 p.)

तल्लुआ तल्ल, प.द तल्ल n 1:

तल्ले अधः, अधस्तात्, नीचैस् it d.

तल्ल तदा ind.

तल्लज्ज् ध्यान n 1, मनोयोग m 1, अवधान n 1. (2) दया f 2, दया दृष्टि f 4. (-करना=मनोयोगं दा 3 p. अवधा 3 p.)

तल्ला पिष्टक पाचन, पाचन n 1, गोल पाचन n 1.

तल्लाज्ज् शुश्रूषा f 1, सेवा f 2, शुश्रूषण, आतिथ्य n 1.

तल्लाख इतिहास m 1, इतिवृत्त n 1.

तल्ला अश्वशाला, पशु शाला f 2.

तल्लाखीस निदान, मूल ज्ञान, कारण ज्ञान n 1. (-करना=कारणं or निदानं

ज्ञा 9 p.)

तशतरी शराविका f 2.

तशफकी धैर्य n 2, सान्वन n 1,  
सान्वना f 2.

तशरीफ महत्व n 1, महत्ता, उकृष्टता,  
मानिता f 2. (—साना=आगम्  
मानपूर्वकं-आगम् 1 p.) (—रखना=  
सु-समानं-रथा ( तिष् ) 1 p.)

तशरीह वर्णन, विवरण n 1, व्यवस्था  
f 2. (—करना=वर्ण 10 p.  
बिष्ट 5 p.)

तसदीक प्रमाण, निदर्शन n 1, द्दी-  
करण n 1. (—करना=प्रमाणीकृ  
द्दी कृ 8 p. स-प्रमाण-कम् 10 p  
विज्ञा c.)

तसनीफ कृति f 4, रचना f 2,  
आविष्कार m 2. (—करना=रच्  
10 p. आविष्कृ 8 p. निर्मा  
3 a.)

तसमा चर्मरञ्जु f 9, चर्मवन्धन n 1,  
चर्मवन्ध m 1.

तसव्ज्जी सन्तोष m 2, तुष्टि f 4,  
धैर्य n 2, सान्वना f 2, (—देना=  
सान्व 10 p. सन्तुष् c.) (—होना  
सन्तुष् 4 p. तुष्ट a मू 1 p.)

तसकीम प्रथाय m 1. नमस्कार m 2,  
वन्दना f 2. (2) स्वीकार m 2.  
(—करना=नम् 1 p. वन्द 1 a.

(2) स्वीकृ 8 u.)

तसवीर मूर्ति f 4, चित्र n 1, प्रतिमा  
f 2, (—खिचना=चित्र-निर्मा 3  
p. or रच् 10 p.)

तह तल, अधस्तल n 1, (2). तत्व,  
रस्तु तत्व n 1. (3) वस्तु भंग  
m 1. व्यावृत्ति, वसनव्यावृत्ति f 4  
(—को पहुंचना=तत्वमवगम् 1 p.)

तहकीक गवेषणा, विचारणा, जिज्ञासा  
f 2, विचार m 2, तलानु संधान  
अनु संधान n 1. (—करना=गवेष  
10 a. विमृश 6 p. अनुयुज् 7  
p. अनु संधा 3 p.)

तहकीकात अनुयोग m 1. विमर्श  
m 2, पृच्छा f 2, विवेचन, अनु-  
संधान n 1. (—करना=see  
तहकीक करना above.)

तह खाना अथः शाला f 2.

तहज्जीव सम्भता, सिष्टता f 2, सदाचार  
m 2.

तहम्मुल सन्तोष m 2, धैर्य n 2,  
धीरता f 2. (—करना=धैर्य  
मवलम् 1 a.)

तहरीर लेख m 1, लिपि f 4,  
लिखित n 1. (—करना=लिख  
1 p.)

तहज्जका भय, महामय n 1, उपसव  
m 1, विक्रोम m 2.



तद्दसीज सख्य m 1, संग्रह m 2,  
समाहरण n 1. (2) सख्य स्थान  
n 1 कर सञ्चालय m 1,  
उपमण्डल n 1, उपमण्डल राज-  
धानी f 5, (- करना=संवि  
5 p. संग्रह 9 p.) (-दार=  
कर माहक a 2, कर संचेतु a 7.  
(2) उपमण्डलाधीश a 1, उप-  
मण्डलाधिकारिन् a 11.(नायन- --  
=उपमण्डलेश सहायक a 1, उप-  
कर माहक a 1.)

तद्दां तत्र ind.

तस्कर तस्कर, चौर a 2. स्तेन a 1.  
तस्मा चर्मवन्धन n 1, चर्मरञ्जु f 9.  
तस्मई प.यत्, पाय सौदन n 1.

तांत स्नायु f 9.

तांवा ताम्र n 2.

ताई ज्येष्ठ पितृव्य पत्नी f 5.

तार्द पुष्टि f 4, पृष्टपोषण, अतुमोदन  
n 1. (-करना=अनुमुद् 1 a.  
अनुकूलं कथ् 10 p. पृष्टं पुष् c.)

ताऊ ज्येष्ठ पितृव्य m 1.

ताऊन महामारी f 6, मूषिक रोग m 2.

ताऊस मयूर m 2, शालिन् m 31,  
वर्द्धि m 5. (तखत—=मयूरासन  
मयूराकारासन n 1.)

ताक दृष्टि f 4, अवलोकन n 1, (2)  
निपुण, दिव्यात, समर्थ a 1, चतुर

a 2. (3) विपमाक m 1, विपम.  
संख्या f 2. (4) कपाट m 1,  
(—ना=निरन्तरं-दृश् ( पश्य् ) 1  
p. अवलोक 10 p. निभृतं दृग्  
1 p.)

ताकत शक्ति f 4, पराक्रम m 2, बल  
सामर्थ्य n 1. (-वर=वलवत् a  
16, शक्तिमत् a 9, शक्तिशालिन्  
a 11, शक्त, समर्थ a 1.)

ताकीद् अवधारण, गुरुच्चारण n 1,  
दृढता पादन n 1. (-करना=  
गौरवेण उच्चर् c. दृढतया कथ्  
10 p.)

तागा सूत्र n 2, गुण m 1, रञ्जु f 9.

ताज मुकुट n 1, अभिषेक मुकुट, राज  
चिन्ह n 1. (-पोरी=अभिषेको  
सव m 1, राज्याभिषेक m 2)

ताजा नवीन, भ्रामिनव, असुष्ण  
अग्लान a 1. (-तरथो विश्रान्तो-  
यत् n 1.)

ताजीम सरकार m 2, मान n 1,  
प्रतिष्ठा f 2. (-करना=सत्-कृ  
8 u.)

ताजीरात हिन्द भारत दण्डनीति  
f 4, भारतीय दण्ड संग्रह m 2.

ताड तालवृक्ष m 2. (-जाना= सत्वं  
अवधु 10 p. अवधुध्, अधिगम्  
1 p.)

ताडका ताडका f 2, मारीचजननी f 5.  
 ताडनी तड् (ताड्) 10 p. दण्ड 10  
 (2) निर्भल 10 p.  
 तात तात a 1, प्रिय a, वत्सल a 1.  
 (2) पितृ m 10, जनक m 1.  
 तातीज्ज अयकारा, अनप्याय, पुण्याह m  
 1, उद्धर्ष दिन n 1.  
 तति ततः, अतः ind.  
 तात्पर्यं तात्पर्यं n 2, प्रयोजन 1,  
 अर्थ, भाव m 1, अभिप्राय m 2.  
 त दाद संख्या, गणना f 2, संख्या n  
 1. (—करना=गण् 10 p. संख्या  
 2 p.)  
 तान तान, लय m 1, स्वर m 2.  
 (—ना=तन् 8 p. विसृ c.  
 (रञ्जादिना) दृष्टया c.)  
 ताना न्यकार m 2, सोल्लुण्ठनोक्ति f 4  
 सोत्प्राप्त वचन n I. (—जनी वरना  
 =सोत्प्राप्त वद् 1 p. सोल्लुण्ठनं भाष्  
 1 a. न्यक्कृ 8 p.  
 तान्त्रिक तन्त्रविद् m 20, f 17.  
 तान्त्रिक a 2.  
 ताप दुःख n 1, पीडा f 2, क्षेरा, ताप  
 m 1. (2) ज्वर m 2.  
 तापना आतप-सेव् 1 a. अज्ञानि-उष्णी  
 कृ 8 p. तप् c.  
 तापतिल्ली लीहा f 2, लीहारोग  
 m 2.

तावेदार आज्ञा कारिन्, वशावर्तिन् a  
 11, नम्र a 2, विनीत a 1.  
 (—होना=अतुरुध् 4 a. with  
 acc.)  
 तावेदारी वशावर्तिता, आज्ञा कारिता,  
 अधीनता, नम्रता f 2, आज्ञा-  
 करत्वं n 1. (—करना=अतुरुध् 4  
 a. with acc.)  
 तामस (श नमोऽण् m 1, तमस् n  
 15. (2) क्रोध, कोप m 1. (3)  
 आवेश 1. (—आना=क्रुध्  
 क्रुप् 4 p, कोप आविश् 6 p,  
 कोपा विनष्ट a भू 1 p.  
 तामसी क्रोधित, कोपन, कडरवभाव a 1.  
 तामीर निर्माण, विधान n 1, रचना  
 f 2. (—करना=निर्मा 3 p. विधा  
 3 d. रच् 10 p.) (—कराना=  
 निर्मा ७.)  
 तामीज्ज सम्पादन, निर्वर्तन, अनुष्ठान n  
 1, (—करना=अनु-रथा ( तिम् )  
 1 p. निर्वृत् c. सम्पद् c)  
 ताम्बूल ताम्बूल n 1, पान पत्र n 2,  
 नागरलता पत्र n 2  
 ताम्र ताम्र n 2.  
 तायफा समूह, गण m 1. (2) गणिका  
 गण, नर्तकी गण m 1.  
 तार तार, धातु सूत्र n 2, तारा f 1.  
 लोह सूत्र n 2, लोह तन्तु m 8,

(3) तन्त्री f 6. (4) विद्युत्संदेश,  
विद्युद्वाताविह m 1, विद्युद् यन्त्र  
n 2 (लगा- = सततम्, सन्ततम्  
निम्तरम् adv.) (-देना = विद्युद्  
यन्त्रेण or तारया संदेश-ग्रहि 5 p.  
प्रेस् 10 p.)

तारतम्य तारतम्य n 1, क्रम m 2.

तारन तारण सन्मार्गं प्रवर्तन n 1,  
उद्धार m 2. (तरन- = शुक्ति प्रद  
a 1.)

तारना तृ c. सन्मार्गे प्रवृत् c. (2)  
नियतकाले-सम्पर् 10 p.

तारा तारा f 6, तारक, नक्षत्र n 2.

(2) तारा f 6, बृहस्पति पत्नी f 5.

तारीख तिथि f 4, प्राविष्ट n 1. (2)  
शतहास m 1, शतवृत्त n 1.

तारीक स्तुति f 4, प्रशंसा, स्थापा f 2

(2) लक्षण n 1, स्वरूप n 2.

(-करना = प्रशंस, स्थाप् 1 a,

स्तु 2 p. (2) लक्ष् 10, स्वरूपदृश् c

ताल ताल m 1, स्वर m 2, लय m

1. (2) ताल वृत्त m 2. (3)

सरस् n 15. तद्भाग m 1.

तालव्य तालव्य, तालस्थानीय a 1.

ताला ताल m 1, तालक n 1, ताल

यन्त्र n 2. (-लगाना = तालेन-यन्त्र

9 p.-पिपा 3 p. निरुध् 7 p.)

ताली कुशिका f 2, ताली f 5 (2)

तालिका, हस्त तालिका f 2.

(-वजना = तालिका-सम्प्रपद् pass)

(-वजाना = तालिकां सम्प्रपद् c.)

तालीम शिवा f 1, पठन n 1,

(-देना = पद्, शिच् c. उप.

दिश् 8 p.) (-पाना = पद् 1

p. शिच् 1 a. उपदिश् pass)

तालु तालु m 8.

ताघ गर्व, दर्प, अहङ्कार m 2, (मूर्खों

पर-देना = साटोपं वद् 1 p. उद्गत

a मू 1 p.)

ताषान दण्ड m 1, कर n 2, अधिक

द्रव्य n 2, कुसीद n 1, विशेष

धन 1

ताषीज़ मन्त्र m 2, तन्त्र n 2.

ताश पत्र क्रीडा f 2, (-लेखना = पत्रैः

क्रीड् 1 p.)

तासीर छण m 1, प्रभाव m 1, फल

n 1. (-करना = फेल् 1 p. मुर्ख

1 p. फलं उद-इ 2 p. (उदेति).)

तासु तस्य n. m. तस्याः Gen.

Sing.

तासीं ततः ind.

ताहम तथापि ind.

ताही तम् m. तत् n. ताम् f. acc.

Sing.

तिकोना त्रिकोण a 1.

तिजारत व्यापार m 2, व्यवसाय m 1

वाणिज्य n 1. (-करना=वाणिज्यं  
कृ 8 p. व्यवस् 4 p.)

तिगुना त्रिगुण a 1.

तित्तर तित्तिर m 2, तित्तरि m 5.

(-वितर=विध्वस्त, विललित, प्रस-  
लित a 1.) (-होना=विचल्,

प्रसखल् 1 p. प्रतिज्ञानपा c.

(पालयति)

तिथि तिथि f 4, प्राविष्ट n 1.

तिन्हें तान् m. तानि n. ताः f. acc.  
pl.

तिनका तुण n 1, पास n. m. 1,

पशु भदय n 2.

तिशरा विकृत्वस् ind. adv.

तिमिर तिमिर n 2, अन्यकार m 2,

तमस् n 15. (2) नेत्र रोग m 2

तिरछा वक a 2, कुटिल a 1.

तिरपोञ्जिया विदार n 2, Sin.

तिरस्कार तिरस्कार, न्यकार, अनादर

m 2, अपमान n 1. (-करना=

तिरस्कृ 8 u. अपमन् 4 a.)

(-होना=तिरस्कृ, अनाद, अपमन्  
pass.)

तिरानचे त्रिणवति f 4.

तिरासी ड्यरति f 4.

तिरिया स्त्री f 8, नारी f 6.

तिल तिल, साराल n 1, सुबन्ध m 1

तिलक मुख्य, अमगण्य, प्रधान a 1.

(2 तिलक, चन्दनादि चिन्ह n 1

तिलङ्गा तिलङ्ग a 1, तिलङ्ग देशधि  
a 1.

तिह्नी सींहा f 2.

तिवाड़ी विवेदिन् a 11, विवेदिनाक्षय  
m 1.

तिह्छर त्रिसप्तति f 4.

तिह्हरा विहावृत a 1.

तिह्हाई तृतीयांश, तृतीय भाग m 1.

तिह्हारा भवतः Gen. Sing. of  
भवत् (2) विशत् f 16.

तीक्ष्ण तीक्ष्ण, तिक्त a 1, कट्ट a 6.

तीखा तीक्ष्ण, तिक्त a 1, तीत्र a 2,  
उत्कट a 1.

तीज तृतीया f 2, तृतीया तिथि f 4.

तीजा तृतीय a 1.

तीत्तर तित्तिर m 2, तित्तिरि m 5.

तीन त्रि num. 3.

तीर शर m 2, वाण, सायक m 1,

इणु m 9. (2) तीर n 2, तट n

1, वेला f 2. (-अन्दाज=सद्य

वेधिन्, शरवेधिन् a 11.)

(-चलाना-शरेण लक्ष्यं वन्धु  
9 p.)

तीर्थ तीर्थ n I. पुरयक्षेत्र n 2, पुण्य

भूमि f 4. (2) उगध्याय m 1.

(4) शास्त्र n 2.

तीली शालाक, तृण शालाका f 2.

(2) नासाभरण n 0.

तीव्र तीव्र a 2, उकट, तीक्ष्ण a 1.

तीस त्रिंशत् f 16.

तीसरा तृतीय a 1.

तुंद दुष्ट a 1, कट्ट a 6, रुद्र a 2.

(—मिजाज=कट्टस्वभाव a 1, दुष्प्र  
कृति m. f 4.

तुफ यति f 4, छन्दोबन्ध m 1.

तुख्म बोज n 1.

तुच्छ तुच्छ, नीच a 1, लुद्र a 2.

तुपक महाम्पस्त्र n 2, शतघ्नी f 5.

तुरंत त्वरतिम्, तूर्णम्. शीघ्रम् a d v.

तुरंग तुरग, तुरंग m 2, अश्व m 1.

तुरत see तुरंत above.

तुर्किस्तान यवनदेश, हूणदेश m 1.

तुरश तीक्ष्ण, श्रुत a 1. (—मिजाज=  
दुःस्वभाव, तीक्ष्ण स्वभाव a 1.)

तुरशी अग्लता, तीक्ष्णता, कट्टता f 2.

तुल तुल्य, सदृश, समान a 1.

तुलना ऽ. सादृश्य n 1, समता f 2.

(v.i.) तुल् or तुलया समी क  
pass.

तुलसी तुलसी f 5, तुलसीदल n 1.

(—दास=तुलसीदास m 1.)

तुला तुला f 2, समी करण n 1. (2)

सप्तम राशि m 4, तुला f 2.

तुलाई तोलन निवेश, तोलन पथ m 1

कार्पासास्तरण. तुलास्तरण. n 1.

तुल्य तुल्य, सदृश, समान a 1.

तुष्ट तुष्ट, प्रसन्न, सन्तुष्ट a 1. (—होना=  
तुष्ट 4 p.) (—करना=तुष्ट c.)

तुम्बा तुम्बि f 4, तुम्बा f 5, तुम्बा f  
2, तुम्बिका f 2, अलावू f 10.  
यतिपात्र n 2, यतिक मण्डल  
m 8.

तू त्वम् nom sing. of युष्मद्  
(—तडाग=अप्रशब्द m 1, दुर्वचन  
n 1, (—करना=दुर्वचनानि-प्रयुज्  
1 a. or भाष् 1 a.)

तृतिया तुल्य-तुल्याञ्जन n 1, मयूरक  
a 2, कासीस n 1, m 1.

तूफान धूलिवात्या f 2, (2) उपसव.  
उपद्रव m 2.

तूमड़ी see तूवा above.

तूमना तुल or कार्यासं-संशुध् c.

तूल तूल, निर्वाज कार्पास n 1. (2)  
दीर्घता f 2. (—अर्ज=विस्तार  
m 2, परिणाह m 1.)

तूप्याम् तूर्णाम्, मौनम्, निःशब्दम्,  
मूकतया adv.

तृण तृण, शादल n 1, पशुभक्ष्य n 1,  
घास m. n 1.

तृतीया तृतीया f 2, तृतीया तिथि f 4.

तृप्त तृप्त, प्रसन्न, परिपूर्ण a. 1. (—होना  
=तृप्त 4 p.) (—करना=परिपूर्  
10 p. तृप्त c. प्रसद् c.)

तृषा तृषा f 1, पिपासा, तृष्णा f 2.  
 (—लगना पिपासां-अनुभू 1 p.)  
 तृष्णा तृष्णा f 2, लोभ m 1.  
 तैत्तलीस विचत्वारि f 16, त्रयश्च  
 त्वारिशात् f 16.  
 तेतीस त्रयस्त्रिंशत् f 16.  
 तैदुष्णा चित्रक, चित्रक्यात्र m 2.  
 तैईस त्रयोविंशति f 4.  
 तेग करवाल, खड्ग m 1, असि m 4,  
 2) विजय m 1. (—मारना=  
 विजि ( जय् ) 1 a. युद्धेनामि  
 (जय्) 1 p.  
 तेज तेजस् n 15, प्रताप m 1, प्रभाव  
 m 2, रोश्चर्य n 2. [—तेजस्विन्  
 a 11, प्रतापशालिन् a 11.]  
 तेज तीक्ष्ण a 1, तीव्र a 2.  
 (—करना=तीक्ष्णी कृ 8 p.)  
 (—होना=क्रोधे-आविश् 6 p.  
 (2) तीक्ष्णी कृ pass.)  
 तेरस त्रयोदशी f 5.  
 तेरह त्रयोदशान् num. 10.  
 तेरहृथी प्रेतक्रिया f 1, त्रयोदशादिन  
 कृत्य n 1.  
 तेर तव Gen. Sing of तुष्णद्.  
 तेज तैल n 1, सार m 2, रस m 1.  
 तेक्रिया तैलवर्षण a 1. (मिड्डा—=विष  
 n 2.)  
 तेली तैल निष्कासक a 1, तैल विक्रेतृ  
 a 7.

तेररी भुकुटी f 5, भ्रूमङ्ग m 1,  
 (—चदाना=भुकुटी or भ्रूमङ्ग  
 कृ 8 p or भवं दृश् c.)  
 तेवहार पुण्याह, महोत्सव m 1, पर्वन्  
 n 13, उत्सव दिन n 1.  
 तेनात नियत, स्वीकृत a 1, (—करना  
 =नियत a कृ 8 O. (—होना=  
 नियत a भू 1 p. नियती कृ  
 pass.)  
 तैयार उद्यत, प्रस्तुत a 1. (—करना  
 =सम्पद् c. निर्मां c रच् 10.  
 (—होना=उद्यत-प्रस्तुत a भू 1  
 p. or कृ pass.)  
 तेरना तु ( तर् ) 1 p. तु ( त्वत् )  
 1 a.  
 तेरक तरण कृन्, प्लवन कृन् m 20  
 f 16, तरण विद m 20 f 17.  
 तेरुङ्ग कर्णाटक देश m 1, (2) तैलत्र  
 देशीय a 1.  
 तैय क्रोध, कोप, आदेश, कोपावेश m 1  
 (—में आना=कुद्ध-कुपित a भू  
 1 p. कोप आविश् 6 p)  
 तोड़ तुटि f 4, विच्छेद, भङ्ग, भेद m  
 1, भेदन, विदारण, खण्डन n 1.  
 तोड़ना see तोड़ above. (v.t.)  
 मन्न्, उच्छिद् 7 p. द्, द्,  
 खण्ड c.)  
 तोड़ा हानि f 4, न्यूनता, उन्नता f 2,

द्रास, अपचय m 1, (2) मुद्रा  
सहस्र भरत्रा f 1, धन भरत्रा f 1.

(4) रज्जु स्रग्द n 1. (4)  
अरुपांश, अप्यकांश m 1. (-जाना  
= श्रुत् 4 p. उच्छिद्, स्रग्द,  
भञ्ज् pass.)

तोता शुक m 1, see शुक.

तोष शतघ्नी, गोल प्रक्षेपणी f 5, महा-  
ग्न्यस्त्र n 2, (-खाना = शतघ्नी  
सम्भार m 2.)

तोषा अत्युत्तम. सौन्दर्य-सम्पन्न a 1.  
(2) उपायन n 1, प्राभृत n 1.  
(—पेश करना = उपायनीकृ 8 p.  
उपहारत्वेन-दा 3 p)

तोषडा भक्ष्य भस्त्रिवा, अपवाच भस्त्रिका  
f 1.

तोय त्वाम् acc. Sing of युष्मद्  
(2) तोय, जड n 1, वारि n 3.

तोरण तोरण n 1, वहिर्दार n 2, द्वार  
शोभावह a 1.

तोल तोलन, समीकरण, भर मान n 1  
(2) विगणना f 2, विगणन n 1  
(—ना=तुल्, तुल् 10 p. तुलया  
सर्पाकृ 8 p. (in mind.)  
विमृश 6 p. आलोच्, विगण् 10  
p. विचर् c.)

तोला टक m 1.

तोशा यात्रा भोजन n 1, मार्ग भक्ष्य

n 2. (—खाना=वस्त्र भाण्डार  
m 2.)

तोष मनः प्रसाद m 1, तोष m 2,  
प्रसन्नता f 2.

तोष्टमत अभियोग, अपवाद m 1,  
अभिषेप m 2, अभिशंसन, दूषण  
n 1. (—खाना=अपवद्, अभि-  
शंस् 1 p. अभिशिप् 6 p. दूष्  
10 p.)

तौ तदा ind. (—भी=तथापि ind.)

तौकीक दया f 2, ईश्वरकृपा f 1,  
(2) शक्ति f 4, सामर्थ्य u 1.

तोवा अनुताप, पश्चाताप, अनुशय,  
अनुशोक, दुष्टता खेद m 1.  
(—करना = अनुशी 2 a. अनुशुच्  
1 p. अनुतापवद् 1 p. पश्चात्  
तिद् pass पश्चात्तपं कृ 8 U.)

तौर आकार, प्रकार m 2. (2) राति  
f 4, विधि m 4.

तौलिया मार्जन, शरीर शोधन n 1.  
मार्जन वस्त्र n 2.

तौहीन अवमानना, अवज्ञा f 2, निष्कृति  
f 4, अपमान n 1, (—करना  
अवमन् 4 a. निकृ 8 u. अव-ज्ञा  
9 p. अधिशिप् 6 p. (—करने  
वाला = अवज्ञा करिन् a 11.)

त्याग त्याग, संन्यास m 1, मोचन,  
वर्जन n 1. (-ना or करना =

स्वज्ज 1 p सुच् (सुम्च्) 6 p.  
संयत् 4 p.)  
स्वामी त्यागिन्, संन्यासिन् a 11, यति  
m 4.  
स्वो तथा, तावत् ind. (स्वो—=यथा  
कथञ्चित् adv.)  
स्वोही मस्तक बालि f 4, म्रुकुटि, त्रिवाल्लि  
f 4, (—चन्द्रना=भुकुटी कृ 8  
u. म्रमत्रं कृ 8 p. भुकुट्या तर्ज्  
10 p.)  
स्वोद्धार पुण्याह, महोत्सव m 1, पर्वन्  
n 14, उत्सवदिन n 1.  
त्रयोदशी त्रयोदशी तिथि f 4.  
त्रास त्रास m 1, भय n 1, भीति f 4  
(—होना=त्रस् 4 p.)  
त्राहि दयस्व, त्राहि imp. 2nd p  
Sing.  
त्रिकालदर्शी त्रिकाल दर्शिन्, योगिन्  
a 11.  
त्रिकूट त्रिकूट, त्रिकूटचल m 1, लङ्का-  
गिरि m 5.  
त्रिकोण त्रिकोण, त्रिभुज a 1.  
त्रिगुण शुष्यय n 2. त्रिगुण n 1,  
प्रकृति f 4, सत्वरजस्तमस् pl.  
n 15.  
त्रिदोष सन्निपात m 1, त्रिदोष m 2.  
त्रिनेत्र त्रिनेत्र, शङ्कर m 2, शिव m 1  
राशिपाले m 4, शम्भु m 8.

त्रिकला त्रिकल n 1, हारीतक्यादित्रय  
n 2.  
त्रिभुज त्रिभुज, त्रिकोण a 1.  
त्रिभुवन त्रिभुवन n 1, त्रैलोक्य n 1,  
त्रिलोकी f 5.  
त्रिजोष see त्रिभुवन above.  
त्रिलोकीनाथ विष्णु m 8, जगत्त्वा-  
भिन् a 11, त्रैलोक्यनाथ m 1.  
त्रिवेणी त्रिवेणी f 5, प्रयाग तीर्थ n 1.  
त्रिशूल त्रिशूल n 1, शिवास्त्र n 2.  
त्रिसंख्या त्रिकाल सख्या f 2, त्रिसंख्य  
n 1.  
त्रुष्टि त्रुष्टि f 4, ऊनता, त्रु f 2.  
त्रेता त्रेता f 2, त्रेता युग, राम युग  
n 1.  
त्रैलोक्यी see त्रिभुवन above.  
त्रचचा त्रच् f 14, कृति f 4, देह  
चर्मन् n 13, (2) तक्षत्रच् f 14.  
तंग रराना, मेलला, अश्वरराना f 2,  
अश्वकाशी f 5, (2) सकुञ्चित a  
1, (—रंरतं निर्धन a 1, दरिद्र a  
2.) (—दस्ती=निर्धनता f 2,  
दारिद्र्य n 2, धनाभाव m 1.)  
(—दिल=संकुचित चित्त a 1,  
अनुदार a 2.) (—दिली=संकोच  
m 1, अनुदारता f a.  
तेशीह दण्ड मय, प्रबोधन, अनुशासन  
n 1. (—करना=अनु-प्र-बुध्



हास, अपचय m 1, (2) मुद्रा  
सहस्र भस्त्रा f 1, धन भस्त्रा f 1.  
(4) रज्जु खण्ड n 1. (4)  
अरुपांश, अप्यकांश m 1. (-जाना  
= शुट् 4 p. उच्छिद्, खण्ड,  
भञ्ज pass.)

तोता शुक m 1, see शुक.

तोप शतघ्नी, गोल प्रक्षेपणी f 5, महा-  
ग्न्यस्त्र n 2, (-खाना = शतघ्नी  
सम्भार m 2.)

तोफा अत्युत्तम. सौन्दर्य-सम्पन्न a 1.  
(2) उपायन n 1, प्राभृत n 1.  
(—पेश करना = उपायनीकृ 8 p.  
उपहारस्तेन-दा 3 p)

तोघड़ा भक्ष्य भस्त्रिका, अपवाज भस्त्रिका  
f 1.

तोय त्वाम् acc. Sing of युष्मद्  
(2) तोय, जल n 1, वारि n 3.  
तोरण तोरण n 1, वहिर्द्वार n 2, द्वार  
शोभावह a 1.

तोल तोलन, समीकरण, भंग मान n 1  
(2) विगणना f 2, विगणन n 1  
(—ना=तुल्, तुल् 10 p. तुलया  
सपीकृ 8 p. (in mind.)  
विमृश 6 p. आलोच्, विगण् 10  
p. विचर् c.)

तोला टक m 1.

तोशा यान्ना भोजन n 1, मार्ग भक्ष्य

n 2. (-खाना=वस्त्र भाण्डार  
m 2.)

तोप मनः प्रसाद m 1, तोप m 2,  
प्रसन्नता f 2.

तोहमत अभियोग, अपवाद m 1,  
अधिक्षेप m 2, अभिशंसन, दूषण  
n 1. (-लगाना=अपवद्, अभि-  
शंस् 1 p. अधिक्षिप् 6 p. दूष्  
10 p.)

तौ तदा ind. (-भी=तथापि ind.)  
तौफीक दया f 2, ईश्वरकृपा f 1,  
(2) शक्ति f 4, सामर्थ्य n 1.

तौवा अनुताप, पश्चाताप, अनुशय,  
अनुशोक, दुष्टता खेद m 1.  
(—करना = अनुशी 2 a. अनुशुच्  
1 p. अनुतापंवह् 1 p. पश्चात्  
खिद् pass. पश्चात्तपं कृ 8 U.)

तौर आकार, प्रकार m 2. (2) रीति  
f 4, विधि m 4.

तौलिया मार्जन, शरीर शोधन n 1.  
- मार्जन वस्त्र n 2:

तौहीन अवमानना, अवज्ञा f 2, निवृत्ति  
f 4, अपमान n 1, (-करना  
अवमन् 4 a. निकृ 8 u. अव-ज्ञा  
9 p. अधिक्षिप् 6 p. (-करने  
वाला = अवज्ञा कारिन् a 11.)

त्याग त्याग, संन्यास m 1, मोचन,  
वर्जन n 1. (-ना or करना =

स्वप्न 1 p सुच् (सुच्) 6 p.  
संन्यस् 4 p.)  
स्वाग्नी स्वाग्निन्, संन्यासिन् a 11, यति  
m 4.  
स्वो तथा, तावत् ind. (स्वो—=यथा  
कथञ्चित् adv.)  
स्यौहृद् मस्तक बलि f 4, भुक्कृटि, त्रिवलि  
f 4, (—चदाना=भुक्कृटि कृ 8  
u. भ्रमन्तं कृ 8 p. भुक्कृट्या तर्ज  
10 p.)  
स्योद्धार पुण्याद्, महोत्सव m 1, पर्वन्  
n 14, उत्सवादिन n 1.  
त्रयोदशी त्रयोदशी तिथि f 4.  
त्रास त्रास m 1, भय n 1, भीति f 4  
(—होना=त्रस् 4 p.)  
त्राहि दयस्त्र, त्राहि imp. 2nd p  
Sing.  
त्रिकालदर्शी त्रिकाल दर्शिन्, योगिन्  
a 11.  
त्रिकूट त्रिकूट, त्रिकूटाचल m 1, लङ्का-  
गिरि m 5.  
त्रिकोण त्रिकोण, त्रिभुज a 1.  
त्रिगुण गुणत्रय n 2. त्रिगुण n 1,  
प्रकृति f 4, सत्त्वर्जस्तमस् pl.  
n 15.  
त्रिदोष सन्निपात m 1, त्रिदोष m 2.  
त्रिनेत्र त्रिनेत्र, शङ्कर m 2, शिव m 1  
शाशिमालि m 4, शम्भु m 8.

त्रिफला त्रिफल n 1, हारीतक्यादित्रय  
n 2.  
त्रिभुज त्रिभुज, त्रिकोण a 1.  
त्रिभुवन त्रिभुवन n 1, त्रैलोक्य n 1,  
त्रिलोकी f 5.  
त्रिजोक see त्रिभुवन above.  
त्रिलोकीनाथ विश्व m 8, जगत्त्वा-  
पिन् a 11, त्रैलोक्यनाथ m 1.  
त्रिवेणी त्रिवेणी f 5, प्रयाग तीर्थ n 1.  
त्रिशूल त्रिशूल n 1, शिवास्त्र n 2.  
त्रिसंध्या त्रिकाल सन्ध्या f 2, त्रिसन्ध्य  
n 1.  
त्रुटि त्रुटि f 4, ऊनता, न्यू f 2.  
त्रेता त्रेता f 2, त्रेता युग, राम युग  
n 1.  
त्रिलोकी see त्रिभुवन above.  
त्वचा त्वच् f 14, कृति f 4, देह  
चर्मन् n 13, (2) तद्वत्त्वच् f 14.  
संग रसाना, मेखला, शरवाराणा f 2,  
शरवकाशी f 5, (2) सकृच्चित्त a  
1, (—दंति निर्धन a 1, दरिद्र a  
2.) (—दस्ती=निर्धनता f 2,  
दारिद्र्य n 2, धनाभाव m 1.)  
(—दिल=संकुचित चित्त a 1,  
अनुदार a 2. (—दिली=संकोच  
m 1, अनुदारता f a.  
संधीहृद दण्ड भय, प्रबोधन, अनुशासन  
n 1. (—करना=अनु-प्र-वृत्

c. अशुशास् २ p.)

तम्बु पट भवन n 1, पट निवेश m 1  
(—लगाना = पट भवन-निवेश c.  
स्या c.)

तम्बोली ताम्बूल विक्रेतृ a 7.

थई राशि m 4, (—लगाना = राशीकृ  
8 u.)

थकना श्रम् ( श्राम् ) 4 p. स्थगित a  
भू 1 p.

थकाना रथम् c. श्रम् c.

थन स्तन m 1, पयोधर m 2.

थपकना s. लघुतल स्पर्श m 2, स्नेह  
स्पर्श m 2, स्नेह तलाघात m 1.  
(v. 1.) प्रेम्णा-हर्षण-हस्तेन स्पृश  
6 p.

थपडाना फलतलेन-प्राहन् २ p. चपेटं  
or चपेटिकां दा 1, 3 p.

थप्यद् चपेट, हस्ताघात, तला घात m  
1, चपेटिका f 2, —मारना =  
see थपडाना adove.)

थम स्तम्भ, ग्रूप m 1, स्थूणा f 2,  
(2, आश्रय m 2, आलम्ब m 1

थरथर कम् m 1, वेपन n 1.  
(—थरीना = कम्, वेप् 1 a.)

थल स्थल n 1, निर्जल भू f 1, मरु  
स्थल n 1, (—चर = स्थलचर  
a 2.)

थलिया भोजन पात्र n 2, स्थाली f 5.

थाम see थम above. (—ना =

संभू 10 p. उत्-स्तम्भ 9 p.  
थालम्ब 1 a. थवलम्बं दा 3 p.)

थान्त्रला पुष्पाधार m 2, पुष्प पात्र n 2  
(2) लताधार m 2.

थान पशु स्थान n 1, (2) पूर्ण वस्त्र  
n 2, अस्त्रयुद्ध वसन n 1. (3)  
संख्यान n 1.

थाना रत्निगण वास m 1, रत्ना पुरुष  
स्थान, रत्नक स्थान n 1, रत्निगण  
कार्यालय m 1. (2) स्थान n 1.

थापा हस्त निन्द n 1, पञ्चाङ्गलाङ्ग m  
1. (— मारना = पञ्चाङ्गलेन or  
हस्तेन चिन्हित a कृ 8 u.)

थापी कर स्पर्श m 2, (—देना =  
साशिपं-श्रीति पूर्वकं हस्तेन स्पृश 6  
p. साधुवद् 1 p. धन्यवादं कृ 8 u.)

थाम see थम above or थाम्.

थाल सपाट पात्र n 2, वृहत्सपालिका  
f 2.

थाली श्रवक पात्र, भोजन पात्र n 2,  
स्थालिका f 2.

थाह तल, शरितल n 1. (थ = थगाध  
a 1, अतलस्पर्श a 2.)

थिरकना खलित a भू 1 p. स्तल 1  
p संखलितं-नृत् 4 p.

थुयकारना सावमानं-निः सं c. सति-  
रस्कारं-निष्कास् c.

धृक लाला, मृणिका f 2, सन्दिनी f  
 ०. निष्ठीवन n 1, निष्पृति f 4.  
 धृकना लालां-निः मृ c. निष्पृ,   
 निष्पृत् 1 or 4 p.  
 धृनी स्तम्भ, थूप m 1, स्थूणा f 2.  
 धौला प्रसेव m 1, स्पृत n 1.  
 धौली भस्त्रिका f 1, लघुप्रसेव m 1.  
 (2) धन भस्त्रिका f 1.  
 धोक अस्तोक, अस्त्राण्डत, धनरूप a 1  
 समुच्चय m 1, संग्रह m 2,  
 (—पूरोरा=अस्तोक विक्रियन् a 11  
 समुच्चयविक्रेतृ a 7.)  
 धोडा स्तोक. अल्प, न्यून a 1. (—वहुत  
 =किञ्चित्, किमपि ind.)  
 धोया निःसार, असार, निःसत्त्व a 1,  
 शय्य गर्भ a 2, फल्यु a 6. (2)  
 मन्द बुद्धि, दुर्भति m 4, f 4,  
 मन्द a 1.  
 धं(भ) स्तम्भ m 1, see धाम  
 above.  
 धंभना अवध् आलम्, स्तम्भ pass.  
 दई देव, प्रारब्ध n 1, पूर्वकर्मन् n 13.  
 दक्षिण दक्षिणदिशु f 14, अवाची  
 f 5.  
 दक्षिणी दक्षिणालय a 1.  
 दक्ष दक्ष, चतुर a 2. (2) दक्ष m 2,  
 दक्ष प्रजापति m 4.  
 दक्षिण दक्षिण, अयाम a 1. (2) see

दक्षिण above.  
 दक्षिणा दक्षिणा f 2, दान, उपायन,  
 धनदान n 1.  
 दक्षिणायन दक्षिणायन n 1, सूर्य  
 दक्षिण गति f 4. (—होना=  
 रविर्भूमध्य रेखाया दक्षिणं-प्राप् ० p.  
 or गम् 1 p.)  
 दखल माभ्यस्थ n 1, अन्तः पात m 1,  
 परकार्यचर्चा f 2, परकार्यानिरूपण  
 n 1. (2) अधिकार m 2, (3)  
 प्रवेश m 1, (— देना=अन्तः पत्  
 1 p. परकार्याणि निरूप 10 p.  
 अपृष्ट a भाप् 1 a.)  
 दे=अधिकार स्पृत a 1. (— करना  
 अधिकारात्-स्पु c.)  
 दगा कौतव, छल, कपट n 1, छद्मन् n  
 12, (—वाञ्छ=छात्रिक, कापाटिक  
 a 1, कूटकारिन् a 11. (—करना  
 or देना=वञ्च्, छल् 10 p.  
 प्रतु c. विप्रलभ् 1 a.)  
 दग्ध, दग्ध, भस्मभूत a 1, (—करना  
 दह् pass. भस्मीभ् 1 p. भस्मांकृ  
 pass.)  
 दग्ध दग्ध m 1, शासन n 1. (2)  
 दधि f 4. (—देना=दग्ध् 10  
 p.) (—वत्=दग्धवरप्रणाम, साष्टांग  
 प्रणाम m 1, (— करना= दग्ध-  
 वत् or साष्टांग-प्रणाम 1 p.)

दण्डो दण्डिन्, दण्डि सन्यासिन् a 11  
दण्ड धारिन् a 11.

दंतौ दन्त धावन, दन्त शोधन n 1  
(—करना = दन्त धावनेन-मुखं शुध्  
c.)

दत्त दत्ते, प्रदत्त, समर्पित a 1.

दत्तक कल्पित पुत्र, दत्तक पुत्र m 2.

दधि दधि n 5, संलीन दुग्ध n 1-

दंनादन शतंजी निनाद, निनाद m 1.

दन्त धावन see दंतौन above.

दन्तावली, दन्तावली f 5, दन्त पंक्ति f  
4, दन्त m 1. (inpl.)

दफ्ता वार m 2, (2) धारा f 1.

(कई— = अनेक शस्त्र बहु वारम्  
ind. adv.) (—करना = अपसृ  
1 p.)

दफ्तर कार्यालय m 1, कार्यगृह n 2.

दफ्तरी बन्धनीकार m 2, पत्र संयोजक  
a 1.

दफ्ता निखनन, भूमौ or श्मशाने-स्थापन  
n 1. (—करना = भूमौनिधा 3  
p. निखन् 1 p. निगृह् 1 u.)

दफ्तादार सैन्य नायक m 1.

दफ्ताना निधी 4 a. नमीभू 1 p.  
वायं नमू c. चाटूकत्या-अनुनी 1 p  
or प्रसद c.

दफ्ताना निर्भत्स, तर्जु 10 p.

दफ्ताना विभी 2 p तस् 4 p: (2)

उद्विज् 6 p. (3) आकुञ्च्  
pass.

दवाना आकुञ्च्, उद्विज् c. (2)  
निर्भत्स, तर्जु 10 p.

दवेत्त आधीन, वश्य, आयत्त, वशाग a  
1, उपजीविन्, वशवार्तिन् a 11.

दम m 1, दमन n 1, इन्द्रिय शान्ति  
f 4. (2) श्वास-प्रश्वास m 1.

(3) अल्प समय m 1, विपल n

1. (4) गर्व m 2, आटोप m 1

(—आना = निःश्वस् 2 p)

(—मारना = सगर्वं वद 1 p. साटो  
पं भाप् 1 a.)

दमक द्युति f, प्रकाश m 1, तेजस्  
n 15. (—ना = प्रकाश विद्युत् 1  
भास् 10 a.)

दमड़ी पण्यपाद पण्यतुर्याश m 1.

दमन दमन, शमन n 1, वशीकार m  
2, (—करना = वशीकृ 8 p. दम्  
10 p.)

दमयन्ती दमयन्ती, नल पत्नी f 5.

दमा श्वास, कास m 1, श्वास रोग  
m 2.

द(दि)माग मस्तिष्क n 2. (2) अभि-  
मान n 1, गर्व m 2. (—दार

= गर्वित a 1, अभिमानिन् a

11.) (—भेत्तल्ल होना = वीरिष

a भू 1 p.) (—खाशी करना =

निरर्थकं or वृथा वद् 1 p. वृथा  
जल्प 1 p.  
दम्भ दम्भ m 1, छल, कपट n 1,  
छद्म n 12.  
दम्भी कापटिक, छात्रिक a 1.  
दया दया, अनुकम्पा, करुणा f 2, कृपा  
f 1. (-करना = दय्, अनुकम्प 1  
a. करुणां कृ 8 u.  
दयालु दयालु, कृपालु a 6, अनुकामिन्  
a 11.  
दर मूल्य, बल n 1, अर्थ, निरूपितार्थ  
m 2. (-लगाना = अर्थ or  
मूर्ख्य-निर्णी 1 p. निरूप् 10 p.  
संस्था c.) (-कार = शक्ति  
अभोष्ट a 1, रुचिर a 2. (2)  
इच्छा, आवश्यक्ता f 2.) (-किनार  
= एकतः पृथक् ind विज्ञाय with  
acc.) (-दर = प्रतिद्वारम् ind.  
adv.) (- -किरना = वृथा अम्  
1-4 p.)  
दरखत वृत्त, द्रुम m 2. पादर m 1.  
दरखास्त प्रार्थना, अभ्यर्चना f 2,  
विज्ञप्ति f 4, (2) प्रार्थना पत्र  
विज्ञप्ति पत्र n 2. (-देना =  
विज्ञप्ति पत्र-समर्प 10 p.) (-करना  
= अभ्यर्त्य, प्रार्थ 10 a.)  
दरगाह मठ, मठायतन n 1. (2)  
द्वार n 2.

दरजे लेख m 1, सम्मेलन n 1.  
(-करना = लिख् 1 p. लेखेस्था  
c. प्रविश्, संमिल् c.)  
दरजे स्कोटन n 1, भक्त m 1, रत्न n  
2. (-डालना = लिख् कु 8 p.  
स्फुट् c) (-पडना = स्फुट् pass  
रत्न-जव (जा) 4 a.)  
दर्जन द्वादशक, द्वादश संख्याक a 1,  
द्वादशान् num, 10.  
दर्जा पद n 1, पदवी f 5, क्रम, गुण  
क्रम m 2, अधिकार m 2.  
(-वदर्जा ॥ क्रमेण, क्रमपूर्वकम्  
adv.)  
दर्जी सौचिक, तुम्हनाय, सूचिक a 1.  
दर्द दुःख n 1, पीडा व्यथा f 2.  
(-होना = पीड् pass.)  
दरदरा दलित, पिष्ट, अर्थ पिष्ट a 1.  
दरघान द्वारपाल m 1, प्रताहार m 2.  
दरघार राजसभा f 2, राजाधिवेशन n  
1, महाधिवेशन n 1. (-एलास =  
गुताधिवेशन, विशेषाधिवेशन n 1  
(-एशाम = साधारणाधिवेशन n 1.)  
दरमियान मध्य n 1, अभ्यन्तर n 2,  
अन्तर ind.  
दरमियानी माध्यमिक, अभ्यस्य a 1,  
आन्तरिक a 2.  
दरया नदी, स्रोतखिनी f 5, नद m 1  
(-देन = उदार a 2, उदार वित a

दहलीज देहली f 5, द्वार n 2, आ-  
लिनद n 1.

दहशत भय n 1, श्रास m 1, भीति  
f 4, (-देना=त्रस् c.)

दहाई दश संख्या f 2.

दहाड़ गर्जना f 2. (-ना=गर्ज् 1 p.  
नद् 1 p.)

दही दधि n 1.

दहेड़ी दधि पात्र n 2.

दहेज कन्या द्रव्य n 2, यौतुक n 1.

दांत दन्त m 1, दशन n 1. (-खटे  
करना=पराजि c. विजि (जय्)  
1 a.) (-निकलना=विहस् 1  
1 p. उच्चैर्हस् 1 p.) (-पीसना=  
अत्यन्तक्रुद्ध a भू 1 p. कोपेन  
दन्तैर्दन्तान् निष्पिप् 7 p.)

दाई धात्री f 6, प्रसवकारिका f 1, उप-  
मातृ f 12.

दाख द्राक्षा f 1, द्राक्षाकल n 1.

दाखिल प्रविष्ट, सम्मिलित (2) लिखित  
a 1, (-होना=प्रविश् 6 p.  
प्रविष्ट a भू 1 p. प्रविश् c. pass  
(-करना=प्रविश् c. सम्मिल् c.)  
(-खारिज=विलोखोखलेख m 1,  
अधिकारारोपण, स्वतन्त्र परिवर्तन n  
1.) (-करना=स्वतन्त्र-परिवृत् c.)

दाग कलङ्क m 1, दोष m 2, चिन्ह  
n 1, (-लगाना=दोषेण लिप्,

सयुज् pass. सकलङ्क a भू 1 p)  
(-लगाना=दोष मा-रह् c. (रोप  
यति) दोषेण-सयुज् c.)

दागी कलाङ्कित् a 11, सदोष a 2, दोष  
भाज् m 18, f 15. (-करना=  
दोष भाज-रथा c. दोष मा-रह् c.  
(रोप यति) (-होना=सदोष a भू  
1 p. दोषेण लिप् or सयुज्  
pass.)

दाता दातृ a 7, दानिन a 11, दान  
शील a 1. (2) उदार a 2.

दाद दद्र m 1, दद्र रोग m 2. (इम-  
=साहाय्य n 1.) (-देना=रांस्  
6 p. साहाय्यं कृ 8 p.)

दादा पिता मह m 1.

दादी पिता मही f 5.

दादुर ददुर m 2, मण्डूक m 1.

दान दान, प्रदान n 1, उत्सर्ग m 2,  
त्याग m 1, (-करना=सत्कर्मधि  
or सत्यधिधत्तं व्यय् 1 a, -धनं दा  
or यच्छ् ) 1 p.)

दाना अन्नकण m 1, सुबुद्ध, निपुण, देश  
कालाभिज्ञ a 1, बुद्धिमत् a 9,  
(-पानी=असोदक n 2.)

दानाई बुद्धिमत्ता, निपुणता, विज्ञता f 2  
चातुर्य n 2:

दानिश बुद्धि, मति f 4, विचार m 2,  
(-मन्द=सुबुद्ध, बुद्धि सम्पन्न a 1.

दानिस्त बुद्धि, मति, सम्मति f 4.  
दानिस्ता ज्ञानतः, बुद्धि पूर्वम् adv.  
दानी उदार a 2, दातृ a 7, दानशील  
a 1, दान कर्तृ a 7.  
दाम रज्जु f 9, गुण m 1, दामन n  
12. (2) मूल्य n 1, मूल्य द्रव्य  
n 2.  
दामन उपत्यका, अधित्यका f 2, पाद-  
स्थली f 5.  
दामाद् जामातृ m 10, कन्या भर्तृ  
m 11.  
दामिनी दामिनी f 5, विद्युत्, तद्वि f  
16, अशानि m 4.  
दामोदर दामोदर m 2, श्री कृष्ण m  
1, विष्णु m 8, मालाधारिन्  
a 11.  
दायग मण्डल, परिवेश m 1, प्राङ्गण  
n 1.  
दाया दक्षिण a 1, or pro. 3.  
दार(ल)चानी दाक गन्ध m 1, दाह-  
सिता f 2, सुगन्धित्व् f 14.  
दारा दार n 2, (inpl.) स्त्री f 8.  
दारिद्र दारिद्र्य n 1, दरिद्रता,  
निर्धनता, दीनता f 2.  
दारुण दारुण, भयानक, भयावह, भयज-  
नक a 1.  
दारु मद्य u 1, आसन m 1, सुरा f 1  
मदिरा f 1.

दारोगाह अधिष्ठातृ a 7, कार्याप्यह,  
अप्यह a 2, अधिकारिन् a 11.  
दाज्ञ वैदल n 1, शिम्बी f 5, शमीज  
m 1, (-में काला २ = गुप्तरहस्य  
n 1.) (-न गलना=कृत कृत्य a  
न भू, अकृतार्थ a भू 1 p)  
दाज्ञान प्राङ्गण, प्रघाण n 1, विशाल  
कोष्ठ m 1.  
दालिद्र मलिनता f, मालिन्य n 1,  
(2) see दरिद्र.  
दात्र साधन n 1, उपाय m 1, प्रयुक्ति  
f 4, प्रयोग m 2, (-वेज=मरुत्  
प्रयोग m 2. (2) प्रस्ताव, कार्य-  
भाल, प्रसंग m 1, अवसर m 2.  
दाघत निमन्त्रण n 1, श्रुति भोजन n  
1, सह भोज m 1, (-देना=सह-  
भोक्तुं नि-मन्त्र 10 p.)  
दाघा अभियोग m 1, स्वत्व प्रतिपादन  
u 1, (2) अधिकार m 2 (3)  
प्रार्थना f 2, (-करना=स्वत्व-प्रति  
पद् 10, विचार प्रार्थ c.) (-दार=  
प्रभि योक्तृ a 7.)  
दास दास m 1, (स्त्री) दासी f 5.  
अनुचर m 2, (स्त्री) अनुचरी f 6.  
भृत्य, सेवक a 1  
दासा स्थूणा f 2, मार्भित याष्टि f 4.  
दासी दासी f 5, परिचारिका f 1.  
दाह दाह, सन्ताप m 1, ज्वलन n ,



(—देना = शब्द दह् 1 p.)  
 दाहिना दक्षिण, सव्य a 1. (—हाथ =  
 दक्षिण or सव्य हस्त m 1.)  
 दाहिनि दक्षिणतः ind. adv.  
 दिक् दिग् f 14, ककुम् f 26.  
 दिक् अनुरोध m 1, (2 कः n 1,  
 (3) विपम a 2. (—करना =  
 अनुरोध् 1 a. with acc.)  
 दिग्गलाना दृश्, अवलोक् c. दिग् 6  
 p. वाचं शोभा प्रकट् c.  
 दिग्दर्श दृष्टि f 4, (—देना = दृष्टि पथं-  
 या 2 p. or गम् ( गच्छ् ) 1 p.  
 दृश्, विलोक् pass. (2) आधिर्भू  
 1 p.)  
 दिग्दानी see दिग्दानी above.  
 दिग्म्बर नमन, अवसन a 1, अवस्थ,  
 दिग्म्बर a 1, शिव m 1,  
 दिन दिन n 1, वासर m 2, अहन् n  
 14, (—दिन = प्रत्यहम् ind.)  
 दिग्ग मनस् n 15, चित्त, अन्तःकरण  
 n 1, (—र = सुहृद् m 20,  
 परमाप्रिय a 2, प्रियतम a 1.) (वे-  
 = विमनसु a 20, लिख चित्त a 1  
 विमनसु a 1.) (—होना =  
 लिद् pass. लिख चित्त a भू 1  
 p.) (—चस्प = रुचिर, मनोहर,  
 चित्ता कर्षक a 2.) (—लगाना =  
 मनोयोगं दा 3 p. सावधान a भू

1 p. अवहित a भू 1 p. अवधानं  
 दा 3 p.) (—दुखाना = मनस्तप् c  
 लिद् c.) (—ही में = स्वगतम्  
 adv.)  
 दिग्गावर मनस्विन् a 11, उदार a 2,  
 उदार चित्त a 1, (2) निर्भोक a 1,  
 वीर a 2,  
 दिग्गासा धैर्य n 2, मान्वन n 1,  
 सान्वना f 2, (—देना = सान्त्  
 10 p.)  
 दिग्गी हादिक, मानसिक a 1, (—दोस्त =  
 प्रिय सखि m 14, (स्त्री) प्रिय  
 सर्ला f 5.)  
 दिग्गतर मनस्विन्, श्रोजस्विन् a 11,  
 निर्भोक a 1, see दिग्गावर,  
 दिग्गी निर्भोकता, मनस्विता श्रोजस्विता  
 f 2.  
 दिग्गाग see दनाग above.  
 दिग्गान्त भाव शुद्धि f 4, साधु वृत्ता,  
 निर्व्याजता, सरलता f 2. (—दार  
 निर्व्याज, निर्व्यलीक, साधु वृत्त a 1  
 (—दारी = निर्व्याजता f 2.) (—से  
 = निष्कपटम्, निर्व्यलीकम् adv.)  
 दिग्गासलाई अग्निशलाका, दीप शला  
 का f 2.  
 दिग्गादा धना भाव m 1, हानि f 1,  
 परिशीलता f 2, ऋण शोधना,  
 चमता f 2, (—निकालना = परि-

लीण a भू 1 p. परिधि pass.  
 श्रवणशोधनाद्यमतां-प्रकट् c.)  
 दिवाज्ञिया परिशील्य a 1, श्रवणदानाद्यम  
 a 2, श्रवणशोधनाद्यम a 2.  
 दिवाज्जी दीपमाला f 2, दीपाली f 5.  
 दिशा दिशा f 2, दिश् f 14, ककुभ् f  
 25. (-शल = दिक् शल n 1,  
 यात्रा विघ्न m 1.) (-जाना = पुरी  
 पोतसर्गाय गम् ( गच्छ् ) 1 p. or  
 या 2 p.)  
 दिशाधर अन्य देश, विदेश m 1,  
 देशान्तर n 2 देशान्तर वस्तु जात  
 n 1.  
 दिशाधरी देशान्तराय a 2, विदेशीय,  
 अन्यदेशीय a 1.  
 दीन दीन, निर्धन, निष्किञ्चन a 1.  
 (2) मत n 1, सम्प्रदाय m 1,  
 धर्म m 2, (-दार = मतावलम्बिन्  
 a 11.) (-ता = नम्रता f 2,  
 विनय m 1, प्रार्थना, अन्यर्थना  
 f 2, (-करना = प्रांश् 10 a.)  
 दीप दीप m 1, दीपक n 1, (2)  
 दीप m 1, अन्तरीप m, n 2.  
 दीप्त दीप्त, प्रज्वलित, चण्ड a 1, दीप्ति  
 मत् a 9. (-हस्ता = प्रज्वल् c.  
 दीप् c.) (-होना = प्रज्वल् I  
 p. प्रज्वल् c. pass.)  
 दीवान्चद् भूमिका, प्रस्ताविका f 2,

उपोद्घात m 1.  
 दीर्घ दीर्घ a 2, लघ्व a 1. (-सूत्री =  
 कालयापक a 1, दीर्घ जीविन्  
 a 11,  
 दीर्घायु चिर जीविन्, दीर्घ जीविन्  
 a 11.  
 दीपट दीपारिपति f 4, दीप स्थान n 1,  
 दीवा see दीप above.  
 दीवान साचिव m 1, मानिन् a 11,  
 अमात्य a 1. (2) परिषद् f 17,  
 संसद् f 17, अधिवेशन n 1.  
 (-क्षाना = साधारण भवन, परिषद्  
 भवन n 1, सम्मेल मन्दिर, दर्शन  
 मन्दिर n 2.)  
 दीवाना विविध, वातुल a 1.  
 दीवानो सम्पद् विचार m 2. (2)  
 सम्पत्तिन्यायालय, समन्यायालय m 1  
 दीवार भित्ति f 4, कुञ्ज n 1. (-गीर  
 = चालय, भित्तालय m 1.)  
 दुआ प्रार्थना f 2. (2) इच्छा f 2.  
 (3) आशीर्वाद m 1. (-देना =  
 आशीर्भिः-युञ् c. or अभिनन्द्  
 c. (-सलाम = शिष्टाचार m 2.)  
 दुकान चापण n 1, विपणी f 5,  
 पण्यशाला f 2, (-दार = वैपणिक  
 a 1.)  
 दुःख कष्ट, दुःख n 1, आपद्, विपद्  
 f 17, (-देना = दुःखीकृ 8 p.

तुद् 6 p: कृत् दा. 3 p.)

दुःखी दुःखित, आपद् गत, सन्तप्त a 1.

(-होना = दुःखित a भू 1 p.

विपदि-पत 1 p. आपदा-प्रम्

पीड् pass.

दुःखना पीड्, व्यय् pass.

दुःखतर दुहित् f 12, पुत्री f 6,

आत्मजा, तनया f 2.

दुःगुना द्विगुण a 1.

दुगाड़ा दिनालिक n 1, दिनालिकास्त्र

n 2.

दुग्ध दुग्ध n 1, पयम् n 15.

दुचन्द्र द्विगुण a 1.

दूधार दुग्ध वती, बहु दुग्धवती f 5.

दुन्दभी दुन्दुभि m 1, पट्ट m 1.

दुनयावी सांसारिक a 2, लौकिक a 1.

दुनाली दिनालास्त्र n 2, दिनालिकास्त्र

n 2.

दुनिया संसार m 2, लोक m 1,

जगत् n 11.

दुपट्टा द्विपट्ट n 1, उपावरण n 1,

दुकूल n 1.

दुपाया द्विपद m 1, मनुष्य जाति f 4,

दुवला दुर्वल, निर्बल, क्षीण a 1, कृश

a 2.

दुवारा द्विगुण a 1. (2) द्वितीयवारम्

(3) द्विक्रत्वस् adv.

दुमधा धैर, मात्सर्य n 2, वैमनस्य.

द्वैविध्य n 1, द्वेष m 2, असूया  
f 2.

दुभाव द्वेषिन्, ईर्षिन् a 11, मत्सारी

a 11, असूयक a 1.

दुम पुच्छ, पुच्छक n 1. (-दार =

सपुच्छ a 1.) (-दवाना = निवृत्तं

वृत् 1 p.

दुम्बा वृषिण m 4, उर्णायु m 8, लोमरा

रटक m 1, भेष, उरत्र m 2,

हुह m 8, (स्त्री) एडका, लोमरा

f 2,

दुर मुक्ता f 2, मौक्तिक n 1.

दुरस्त शुद्ध, यथार्थ a 1, सत्य, तथ्य

n 1. (-करना = संशुभ् c. यथा

कम् or कमराः स्था c.)

दुरस्ती शुद्धि f 4, संशोधन n 1,

याथा तथ्य n 1, यथार्थता f 2.

दुर्ग दुर्ग n 2.

दुर्गा दुर्गा f 1, शिवा f 2, शुभमर्दिनी

f 5.

दुर्वाला दुर्वासत् a 20, दुर्वालो नाम

ऋषि m 5, आत्रेय a 2.

दुर्मित्त दुर्मित्त n 2, अकाल m 1.

दुर्योधन सुयोधन, दुर्योधन m 1.

दुरंगी दिवर्ष्य a 1, कपट, छल n 1,

छद्मन् n 12.

दुलडा(डी) द्विगुणमाला f 2.

दुलसी पश्चिम पद द्वय n 1, सुराघात

m 1: (-मारना = लतयाः षट्  
( ह् ) 1 p. सुरेण-आहन् 2 p.)  
दुलहन नवोद्वा, नवपरिणीता f 2, नव  
वधु f 10.  
दुलहा वर m 2, नवोद्वा, नवपरिणीत  
m 1.  
दुलाई त्वावरण n 1.  
दुलार भिय f 1, भियतम a 1, भियपुत्र  
m 2.  
दुलारी भिया f 1, भियपुत्री f 5.  
दुशमन शत्रु m 9, अरि m 5, कैरिन्  
a 11.  
दुशमनी शत्रुता i 2, वैर n 2, विद्वेष  
m 2.  
दुशाला दौमावरण, पद्मावरण n 1.  
दुशचार कठिन, दुःसाध्य (2) दुर्गम a 1  
दुस्तर a 2.  
दुशचारी कठिनता, दुर्जनता, दुःसाध्यता  
f 2.  
दुष्ट दुष्ट a 1, दुःसाध्यन् m 23, f 18  
नीच a 1.  
दुष्टता दुष्टता, दुर्जनता f 2, दौसाध्य  
n 1.  
दुस्तर दुस्तर a 2, कठिन, असहाय-  
नीच a 1.  
दुसूती द्विगुण, दितार a 2, स्थूलवस्त्र  
n 2.  
दुहना दुह 2 p. with two acc.

पयः निष्कासु c.  
दुहाई दयाक्रोश m 1, दयाक्रन्दन n 1,  
(2) न्याया क्रोश m 1, न्याया-  
क्रन्दन n 1, (-देना = न्यायार्थ-  
-आक्रन्द 1 u or) (-मचाना =  
आत्मरक्षार्थ-विकुश or आक्रन्द  
1 a.)  
दुहिता दुहितृ f 12, पुत्री f 6.  
दुकान पण्यशाला f 2, विपणि f 4.  
दूज द्वितीया f 2, द्वितीया तिथि f 1.  
दुभा द्वितीय a 1, अन्य pro. 2,  
अपर pro. 3.  
दूत दूत m 1, (स्त्री) दूती f 5, वार्ता  
वह or सन्देश प्रापक a 2.  
दुध दुग्ध n 1, दूध n 2, पयस् n  
15. (-धारी = दुग्धाहारिन् 2 11)  
दूधिया पायस, दूध, दूधनिर्मित a 1.  
दूना द्विगुण a 1.  
दूव दूर्वा f 1, घास m 1, लूण n 1.  
दूवट्ट सम्मुखम् (स्त्रि) आभिमुखम्, समक्षं  
adv. (-होना = साम्मुखीन a  
भू 1 p. आभि मुखे-भू 1 p.  
आभि मुखी भू 1 p. (2) अपराध्यान्  
-प्रयुज्ज 7 a. दुर्वचनानि-भाषू 1  
a. कलहं क 8 u. युयुत्सः भू 1 p.  
दूधर दुःसाध्य, कष्ट साध्य, कठिन, असहाय  
a 1.  
दूर दूरम्, दूरे ind. (-सन्देश = दू-

दर्शिन् a 11.) (—प्रदेशी =  
दूर दर्शिता f 2.) (—दराज = अति  
दूर-रेरम् ind.) (—होना = दूर  
या 2 p. दूर-गम् 1 p. दूर-भू 1  
p.) (—हटना = दूर-अप-सृ (सर)  
1 p.) (—करना = त्यज् 1 p.  
निर्गम् c. पृषक् कृ 8 u. दूर-अपसृ  
c.) (—की बात = गम्भीर विचार  
m 2.) (—सूचना = गम्भीर  
or गूढ-विचर् c.)

दूर दर्शी दूर दर्शिन् a 11, गम्भीर  
विचार वत् a 16.

दूरवीन दूर वीक्षण n 1. दूर वीक्षण  
यन्त्र n 2.

दूर्वा दूर्वा f 1, घास m 1, तृण n 1.  
दूरी दूरता f 2, अन्तर n 2.

दूषण दूषण, पाप n 1, दोष m 2,  
अपराध, कलङ्क m 1. (—लगाना  
= दोष-आकृ c. (रोपयति) दूष्  
10 p.) see तौहमत.

दूसरा द्वितीय a 1.

दुहना see दुहना above.

दुह दह, सुश्लेष a 1, दृग्भासिधि  
a 4.

दृश्य दृश्य, द्रष्टव्य, दर्शनीय a 1, सुन्दर  
मनोहर a 2, (2) दृश्य n 1,  
प्रदर्शनी f 5.

दृष्टि दृष्ट विलोकिता, दृष्टियता a 1.

दृष्टान्त दृष्टान्त m 1, उपमा f 2,  
उदाहरण n 1. (—देना = उदाह  
( हर् ) 1 p. दृष्टान्तेन-उपपद् c.  
प्रमाणेन दृष्टी कृ 8 p.

दृष्टि दृष्टि f 1, नेत्र n 2, दर्शन n 1.  
देखना दृष्ट ( पश्य ) 1 p. विलोक  
10 p. निरूप्, निर्बन्ध 10 p.  
निरीव् 1 a.

देग पिठर n 2, उखा f 2, कुए n  
1, स्थाली f 5.

देगवा पिठर n 2, उखा f 2, कुए  
n 1.

देगची लूला, कुण्डिका f 2, स्थाली  
f 5.

देनलेन व्यापार, व्यवहार, कुसीद  
व्यवहार, धन व्यापार m 2.  
(—करना = व्यवह ( हर् ) 1 p.  
कुसीद व्यवहारं कृ 8 p.)

देना दा ( यद् ) 1 p. दा 3. p.  
समर्प 10 p.

देर(री) अतिकाल, विलम्ब m 1,  
चिरम् चिरेण, चिरात् adv.  
(—करना = विलम्ब 10 p. चिर  
10 p.) (—होना = विलम्ब a  
जन् (जा) 4 a. अति कालो भू )  
1 p.)

देव देव m 1, अमर, निर्जर m 2,  
दिवोकम् m 27. (2) विद्वत् a

18, माननीय a 1. (3) राजन्  
m 23, (-लोक = स्वर्ग m 2.)  
(—वाणी = संस्कृत n 1, देव  
वाणी f 5.)  
देवकी देवकी, श्री कृष्ण जननी f 5.  
देवठान देवोत्थान n 1, हरिप्रबोधिनी  
एकादशी f 5.  
देवता देवता f 2, see देव.  
देवदारु देवदारु m 9, देवदारु वृक्ष  
m 2.  
देवनागरी देवनागरी f 6, नागरी लिपि  
f 4, आर्य-भाषा f 1.  
देवर देवर m 2, भर्तुः कनिष्ठ भ्रातृ  
m 10.  
देवा दातृ a 7, दान शील a 1, उदार  
a 2.  
देवालय देवालय m 1, देव मन्दिर n  
2, देव स्थान n 1.  
देवी देवी, भवानी f 5, महिषविमर्दिनी  
f 5, दुर्गा f 1.  
देश देश, जनपद m 1, विषय m 2,  
(—निकाला = प्रवास m 1, देश  
निष्कासन n 1.) (—देना =  
देशात्-निष्कास् c. or प्रवस् c.)  
देशी देशीय, जानपद a 1, देशवासिन्  
a 11.  
देह काय, देह m 1, शरीर n 2, तनु  
f 9.

देहरा देवालय m 1, जैन मन्दिर n 2  
देहली देहली f 5, द्वार n 2. (2)  
देहली नगर n 2, भारत राजधानी  
f 5.  
देहान्त देहान्त m 1, मृत्यु m 8.  
देही देहिन्, पाणिन्, शरीरिन् a 11  
जीव m 1. (2) देह, काय m 1.  
दैत्य दैत्य m 1, असुर m 2, शरत्  
m 1. (स्त्री) राक्षसी f 5.  
दैनिक दैनिक, एकाहिक, आन्धिक a 1  
देव देव, भाग्य, प्रारब्ध n 1, प्राक्तन  
कर्मन् n 13. विधातृ m 11.  
दैवज्ञ दैवज्ञ a 1, ज्योतिर्विद् m 20,  
f 17.  
दैवयोग दैवयोग, भाग्यवशा m 1.  
(—से = दैवात्, अकस्मात्, भाग्येन  
adv.)  
दो दि num. 2, उभ pro. 13.  
(—नों = उभय pro. 14.)  
(—वार = द्विवारम्, द्विकृत्वस् adv.)  
(—वारा = द्विगुण a 1.)  
दोगला वर्ष सकर a 2, जारज a 1.  
दोज़ख़ नरक n 2.  
दोना पुट, पुटक, पथं पुट n 1.  
दोनाल(ली) दिनालिकास्त्र, द्विगुणा-  
न्यस्त्र n 2, दिनाङ्किका f 2.  
दोनों उभ pro. 13, उभय pro.  
14. (—वक्तमिले = साथम्-प्रातृ

ind.)

- दोपट्टा द्विपट n 1, उपावरण n 1.  
 दोपहर मध्यान्ह m 1, मध्यन्दिन n 1  
 दोयम द्वितीय a 1.  
 दोशाला सौमावरण, पट्टावरण n 1.  
 दोष see दूषण above.  
 दोषी दोषिन्, अपराधिन् a 11, साप-  
 राध a 1.  
 दोस्त मित्र n 2, सहृद् m 20, सखि  
 m 14, (स्त्री) सखी f 5.  
 दोस्ती मित्रता f 2, सौहृद्य n 1,  
 सख्य n 1, वयुता f 2.  
 दोहृत्थङ् द्विहस्तता f 2, (—ताली  
 वजाना = उभयोरेव-दोषः वृत् I a,  
 नैकस्य कृतिः-अस् २ p उभयोः  
 सादृश्यम्, अस् २ p.)  
 दोहता दौहित, पुत्री पुत्र, कन्या पुत्र  
 m 2.  
 दूहती दौहित्री f 6.  
 दोहना दुह् २ p. क्षीर-दुह् २ p.  
 with acc.  
 दोहर्न दोहन पात्र n 2.  
 दोहर प्रच्छद पट m 1, द्विरास्तरण  
 n 1.  
 दोहा द्विपद-छन्दस् n 15.  
 दोहाई see दुहाई above.  
 दोहेजू द्वितीयविवाह कर्तृ a 7, द्विः  
 परिणेतु a 7.

- दौड् धावन, परिधावन n 1. — धूप =  
 परिधिम m २, यत्न, प्रयत्न m 1)  
 (धुङ्— = अश्व धावन n 1.)  
 (—ना = धाव्, परिधाव् 1 p.  
 त्वरितं-गम् (गङ्) 1 p.)  
 दौर परिवर्तन n 1, पर्याय m २,  
 आवृत्ति f 4, (२) चूर्णन n 1,  
 चक्र n 2. (३) निष्पेष पात्र n 2.  
 दौंग भ्रमण, पर्यटन, राज्य भ्रमण n  
 1, उपवेश नावास m 1, पट भवन  
 पात m 1, (—रुत्ना or पर जाना  
 = अर्धेन देशे भ्रम् 1, 4 p.  
 पर्यट् 1 p. राज्यकार्येष यात्रां कृ  
 ४ p. भट भवने or उपवेशने-  
 निवम् 1 p. उपवेशनं-सेव् 1 a.)  
 दौराना व्यावृत् c. पुः पट् 1 p.  
 दौन्त धन n 1, सम्पद् f 17, सम्पत्ति  
 f 4. (—मद् = धनाद्य a 1,  
 धनिन् a 11, सम्पन्न a 1.)  
 (—खाना = गृह n 2, आवास  
 m 1.)  
 दंग साश्चर्य a 2, चकित, साशङ्क a 1  
 (—होना = साश्चर्य a धृ 1 p.  
 साशङ्क a जन् (जा) 4 a.)  
 दंगई कलह कारिन् a 11, विवादक  
 a 1, कलह प्रिय a २, युक्त्वा  
 a 6.  
 दंगल जनौष, जन संघात m 1. (२)

मल्ल युद्ध स्थान n 1,  
 दंगा कलह, विवाद m 1, युद्ध n १,  
 (—करना = युध् 4 a. विवद् 1  
 p.) (—नात्त = कलह कारिन् a  
 11, युयुत्सु a 6.  
 दंड दण्ड m 1, याष्टि f 4. (—देना =  
 दण्ड 10 p. शास्त्र 2 p.)  
 दंडीत दण्डवत्प्रणाम, साष्टांग प्रणाम m  
 1. (—करना = साष्टांग-प्रणम्,  
 दण्डवत्-प्रणम् 1 p.)  
 द्यत द्यत n 1, द्यत क्रीडा, द्यत क्रीडा  
 f 2.  
 द्रव्य द्रव्य n 2, धन n 1, वस्तु n 6  
 सम्पत्ति f 4, अर्थजात n 1.  
 द्रोह द्रोह, द्वेष m 1, ईर्ष्या f 1, अमूया  
 f 2, वैर n 2. (—करना = द्रुह्  
 4 p. अमूय् 1 p. with date)  
 द्रोपदी द्रौपदी, पाण्डव पत्नी f 5.  
 द्रुपद पुत्रो f 6.  
 द्वादशी द्वादशी f 5, द्वादशी तिथि  
 f 4.  
 द्वापर द्वापर m 2, तृतीय युग n 1.  
 द्वार द्वार n 2, देहली f 5, द्वार मार्ग  
 m 2, (—पाल = प्रताहार द्वार  
 रक्षक, दौवारिक a 2.  
 द्वारका द्वारका f 1, द्वारकापुरी f 6.  
 द्वारा कारण, साधन n 1, हेतु m 8,  
 (2) द्वारेण, हेतुना, वशात् (in-

comn.) adv. (3) द्वार n 2,  
 स्थान n 1, (—ठाकुर = देवालय  
 m 1, विष्णु मन्दिर n 2.  
 द्विज द्विज m 1, द्विजन्मन् m 23,  
 द्विजाति m 4.  
 द्वितीय द्वितीय a 1, अन्य pro. 2,  
 अपर pro. 3.  
 द्वितीया द्वितीया f 2, द्वितीया तिथि  
 f 4,  
 द्वीप द्वीप m 1, अन्तरीप m, n 2.  
 द्वेष द्वेष m 2, see द्रोह above.  
 धक २ वेपथु m 8, उच्छ्वास, कम्प m  
 1, स्पन्दन n 1, (—होना = उत्  
 श्वस् 2 p. उरः स्पन्द 1 a.)  
 धक्ता प्रसारण, अपचालन, विचालन,  
 अपसारण n 1. (—देना or  
 धकेलना = विचल्, अपमृ c. संचल  
 c. वहिष्कृ 8 p.)  
 धज आकार m 2, देह सज्जा f 2,  
 काय शोभा f 2.  
 धजा ध्वज m 1, पताका f 2.  
 धडंग नग्न a 1, दिग्भ्रम, अवरत a 2.  
 धड़ अशिरस्क देह, अशीर्ष काय m 1.  
 धड़क(का) उच्छ्वास, कम्प m 1, वेपथु  
 m 8, स्पन्दन n 1, (2) भय,  
 साधन n 1, भीति f 4, भाउडा  
 f 2, दर m 2, (—वे = निःशङ्क  
 a 1, निर्भय a 2, निर्भीक a 2,



(निरातङ्क a 1.) (विना—= निः  
शङ्कम् adv.)

धङ्कना वेप्, उट्विज् 1. a. ससाध्वसं  
a भू 1 p.

धङ्गा भार m 2, तोल m 1, परिमाण  
n 1, (2) समूह m 1. (3)  
पल m 2. (—कदी = पलपात  
m 1, विरोध m 1.) (—करना =  
उत्तुल् c. समीकृ 8 p.)

धङ्गाका धन्यस्त्रनाद, नालिकास्त्रनाद  
m 1, ध्वान n 1.

धङ्गी पञ्च प्रथमान n 1.

धतूरा धतूर n, m 2.

धन धन n 1, द्रव्य n 2, सम्पद् f 17,  
सम्पत्ति f 4, लक्ष्मी f 5. (2)  
धन्य a 1, भाग्यवत् a 16: भाग्य  
शालिन् a 11, सुकर्मन् a 17.

धनकं धनस् n 17, चाप m 1,  
कार्मुक m 2.

धनक्षय धनञ्जय, अर्जुन m 1.

धनवान् धनवत् a 16, धनिन् a 11,  
सम्पन्न, धनाढ्य a 1.

धनाढ्य see धनवत् above.

धनान्ध धनान्ध, धन गर्वित, धनमत्त  
a 1.

धनाश्री धनेश्वरी राग m 2.

धनिया धानी बीज, धानेय, वितन्नुक,  
धान्यक n 1, क्षया f 1.

धनिष्ठा धनिष्ठा f 2, धनिष्ठान स्त्र  
n 2.

धनी see धनवान् above.

धनुप see धनक above. (—विद्या =  
धनुर्विद्या f 2.)

धन्य धन्य a 1, भाग्यवत् a 16.

(—वाद = धन्यवाद, साधुवाद m  
) (—करना = साधु-वद् 1 p.

धन्यं वद् 1 p. धन्य वाद-कृ 8 u.

धप्प (प्पा) चपेट, हस्त तलाधात m  
1, see चपेट.

धव्वा चिन्ह n 1, अङ्क m 1. (2)

कलङ्क m 1, दूषण n 1. (—लगाना  
= दोषेण युज् pass. कलङ्कित a  
भू 1 p.) (—लगाना = दोष-आरोह  
c. (रोपयति) दूष् 10 p. दोष भाजं  
स्था c.)

धमक कम्प m 1, वेपथु m 8, अभि-  
धात m 1.

धमकना अभ्याहन्, कम्प pass.

धमकी तर्जन, निर्भर्त्सन n 1, (—देना  
= निर्भर्त्से, तर्ज् 10 p.)

धमाधम त्वरितम्, सवेगम् adv. (2)  
आधात m 1,

धमाला धूमालय m 1, धूमनिःसरण  
n 1.

धरणी धरणी, पृथिवी, मही f 5, भूमि  
i 4, धरा f 1, भू f 11.

घरती see धरणी above.

घरना स्या c. विन्यस् 4 p. निधा 3

p. मृ c. (अर्पयति) निविश् c.

घरातल धरातल, भूतल n 1, संसार  
m 2, जगत n 11.

धर्म धर्म m 2, सत्कर्मन् n 13, कर्त-  
व्यकर्मन् n 13. (2) न्याय m 1

(3) मत n 1, सम्प्रदाय m 2.

धसना अन्तः पत् 1 p. अन्तः प्रविश्  
6 p. निविश् 6 p.

धांघल कूटोपाय m 1, (2) दूतोपद्रव  
m 2.

धागा शुभ m 1, सूत्र तन्तु m 8.

धाड़ समूह, समुदाय m 1.

धातु आकरज a 1, धातु m 8. क्रिया  
कारण n 1, धैर्य n 2.

धात्री धात्री f 6, पूसवकर्त्री f 6,  
उपमातृ f 12.

धान धान्य n 1, श्रीहि m 5.

धाम धामन् n 12, स्थान n 1.

धाय see धात्री above.

धार धारा f 1, प्रवाह m 2, सीतस्  
n 15.

धारण धारण, वहन, सहन, परिधान,  
स्थान n 1. (-करना = धृ (धार)

10 p. वह् 1 d. परिधा 3 p.

स्या c-

धारा see धार above.

धारी पंक्ति f 4, रेखा f 2, (-दार =  
पंक्ति मत् a 9, सरेख a 1.)

धार्मिक धार्मिक a 2, सुधर्मन्, पुण्य-  
कर्मन्, धर्मात्मन्, a 17.

धावा आक्रमण n 1, अवस्कन्द m 1,

सहसा क्रम m 2. (-कला =

सहसा-आक्रम् I a. अवकन्द् 1

p. सङ्घ शक्त्या-आक्रम् 1 a.)

धिकार लज्जा, श्रीदा f 2, नपा f 1,

धिकार, न्यकार m 2, (धिक् ind

with acc. (-करना = धिक्

or न्यक् कृ 8 p.)

धींगाधीगी वलात्, वलात्कारेण adv,

धीवर मत्स्य जाविन् a 11, धीवर

m 2,

धी धी f 7, बुद्धि f 4, विचार शक्ति

f 4,

धीमा धैर्यवत् a 16, सम्य a 1, धीर,

गम्भीर a 2, (2) विलम्बेन-कार्यकृत्

f 16, m 20.

धीमे २ शनैस् 2, मन्दम् 2, adv,

धीर धैर्यवत् a 16, शान्तिमत् a 9,

शान्त a 1, धीर a 2,

धीरज धैर्य n 2, शान्ति f 4, सहन

शीलता f 2,

धीरे २ see धीमे २ above.

धुंभा धूम m 1. धूम m 2,

धुंध मालिन्य n 1, इराणोक्ता, अस्पष्टता

(निरातङ्क a 1.) (विना—= निः  
शङ्कम् adv.)

धङ्कना वेप्, उद्विञ् 1 a. ससाध्वस  
a भू 1 p.

धङ्गा भार m 2, तोल m 1, परिमाण  
n 1, (2) समूह m 1. (3)  
पक्ष m 2. (—बन्दी = पक्षपात  
m 1, विरोध m 1.) (—करना =  
उल्लुल् c. समीकृ 8 p.)

धङ्गाका धग्न्यस्त्रनाद, नाडिकारश्रनाद  
m 1, ध्वान n 1.

धङ्गी पञ्च प्रथमान n 1.

धत्रा धतूर n, m 2.

धन धन n 1, द्रव्य n 2, सम्पद् f 17,  
सम्पत्ति f 4, लक्ष्मी f 5. (2)  
धन्य a 1, भाग्यवत् a 16: भाग्य  
शालिन् a 11, सुकर्मन् a 17.

धनकं धनन् n 17, चाप m 1,  
कार्मुक m 2.

धनञ्जय धनञ्जय, अर्जुन m 1.

धनवान् धनवत् a 16, धनिन् a 11,  
सम्पन्न, धनाढ्य a 1.

धनाढ्य see धनवत् above.

धनान्ध धनान्ध, धन गर्वित, धनमत्त  
a 1.

धनाश्री धनेश्वरी राग m 2.

धनिया धानी बीज, धानेय, वित्तनुक,  
धान्यक n 1, द्यत्रा f 1.

धानिष्ठा धनिष्ठा f 2, धनिष्ठान् चत्र  
n 2.

धनी see धनवान् above.

धनुप see धनक above. (—विद्या =  
धनुर्विद्या f 2.)

धन्य धन्य a 1, भाग्यवत् a 16.  
(—वाद = धन्यवाद, साधुवाद m  
) (—करना = साधु-वद् 1 p.  
धन्यं वद् 1 p. धन्य वादं-कृ 8 u.

धप्प (प्पा) चपेट, हस्त तलाभात m  
1, see चपेट.

धव्वा चिन्ह n 1, अङ्क m 1. (2)  
कलङ्क m 1, दूषण n 1. (—लगाना  
= दोषेण युञ् pass. कलङ्कित a  
भू 1 p.) (—लगाना = दोष-आरोह  
c. (रोपयति) दूष् 10 p. दोष भाजं  
स्या c.)

धमक कम्प m 1, वेपथु m 8, अभि-  
घात m 1.

धमकना अग्याहन्, कम्प pass.

धमकी तर्जन, निर्भर्त्सन n 1, (—देना  
= निर्भर्त्से, तर्जे 10 p.)

धमाधम त्वरितम्, सवेगम् adv. (2)  
आघात m 1,

धमाला धूमालय m 1, धूमनिःसरण  
n 1.

धरणी धरणी, पृथिवी, मही f 5, मृमि  
i 4, धरा f 1, भू f 11.

धरती see धरणी above.

धरना स्था c. विन्यस् 4 p. निधा 3

p. ऋ c. (अर्पयति) निविश् c.

धरातल धरातल, मृतल n 1, संसार  
m 2, जगत n 11.

धर्म धर्म m 2, सत्कर्मन् n 13, कर्त-

व्यकर्मन् n 13. (2) न्याय m 1

(3) मत n 1, सम्प्रदाय m 2.

धसना अन्तः पत् 1 p. अन्तः प्रविश्  
6 p. निविश् 6 p.

धांधल कूटोपाय m 1, (2) दूतोपद्रव  
m 2.

धागा गुण m 1, सूत्र तन्तु m 8.

धाड़ समूह, समुदाय m 1.

धातु धाकरज a 1, धातु m 8. क्रिया  
धारण n 1, वीर्य n 2.

धात्री धात्री f 6, पूसवकर्त्री f 6,  
उपमातृ f 12.

धान धान्य n 1, ग्रीहि m 5.

धाम धामन् n 12, स्थान n 1.

धाय see धात्री above.

धार धारा f 1, प्रवाह m 2, स्रोतस्  
n 15.

धारण धारण, वहन, सहन, परिधान,  
स्थान n 1. (-करना = धृ (धार)

10 p. वह् 1 d. परिधा 3 p.

स्था c-

धारा see धार above.

धारी पंक्ति f 4, रेखा f 2, (-दार =  
पंक्ति मत् a 9, सरिख a 1.)

धार्मिक धार्मिक a 2, सुधर्मन्, पुण्य-  
कर्मन्, धर्मात्मन्, a 17.

धावा आक्रमण n 1, अवस्कन्द m 1,

सहसा क्रम m 2. (-करना =

सहसा-आक्रम् I a.: अवस्कन्द् 1

p. सङ्घ शक्त्या-आक्रम् 1 a.)

धिक्कार लज्जा, ग्रीहा f 2, मया f 1,

धिक्कार, न्यक्कार m 2, (धिक् ind

with acc. (-करना = धिक्

or न्यक् कृ 8 p.)

धींगाधीर्गी वलात्, वलात्कारेण adv.

धीवर मत्स्य जीविन् a 11, धीवर  
m 2,

धी धी f 7, बुद्धि f 4, विचार शक्ति  
f 4,

धीमा धैर्यवत् a 16, सम्य a 1, धीर,

गम्भीर a 2, (2) विलम्बेन-कार्यकृत्

f 16, m 20.

धीमे २ शनैस् 2, मन्दम् 2, adv,

धीर धैर्यवत् a 16, शान्तिमत् a 9,

शान्त a 1, धीर a 2,

धीरज धैर्य n 2, शान्ति f 4, सहन

शीलता f 2,

धीरे २ see धीमे २ above,

धुंआ धूम m 1, धूम m 2,

धुंघ मालिन्य n 1, दुराशोक्ता, अस्पष्टता

f 2, नीहार पात m 1,  
धुंधला दुरालोक, मलिन, धूमवर्ण, पांसुल  
a 1,

धुन ध्वनि m 4, नाद, शब्द m 1,  
(2) चित्ता सक्ति, आसाक्ति f 4,  
(-लगाना = एक चित्ती भू 1 p,  
मतः स्पर्शनी ( नय् ) 1 p, एकाग्र-  
मनसा-ध्वै ( ध्याय् ) 1 p.)

धुन ध्यान n 1, इच्छा f 2, मनस्तरङ्ग  
m 2,

धुनकना तूलसंस्करण्या कार्पासं-शुध् c,  
धु 5 p,

धुनकीं तूल शोधनी, तूल संस्करणी f 5,  
धुर अन्त m 1, अवसान n 1, अवधि

m 4, (2) धुर f 20, रथधुर f  
20, भार m 2, (-तक = अवसान  
पर्यन्तम्, अन्तेयावत् adv.

धुरन्धर धुरन्धर a 2, वाद्यक, नायक a  
1, प्रधान, मुख्य a 1.

धुरपद् भ्रुवपद् गीत n 1.

धुरा धुर f 20, अक्ष m 2, अक्षम n  
2, अक्षरेखा f 1.

धुलना पूल्ल्, वारिणा-संशुध् pass.

धुलाई पूंछालनपण m 1, वस्त्र शोधन  
वेतन n 1, झालन भृति f 4.

धुलाना प्रच्छल्, वस्त्राणि संशुध् c.

धुस्सा औषोवावरण. ऊर्णावावरण n 1.

(2) नीरन्धावरण n 1.

धूआं धूम m 1, धूम m 2.

धूनी अग्नि रयान n 1, अग्नि कुण्ड n  
1. (-देना=धूमं-आ-घ्रा c.)

धूप धूप m 1, गुग्गुलु m 1. (2)  
घ्रातप, रविताप, सूर्यप्रकाश m 1,  
(-सेकना=घ्रातपं-सेव् I a, रवि-  
प्रकाशे अज्ञानि-तप् c.)

धूम धूम m 1, धूम m 2. (2) वायु  
n 2, (3) प्रसिद्धि, ख्याति, कीर्ति f  
4, (4) कोलाहल m 1, महारव  
m 2, (-धाम=आडम्बर n 2,  
वाद्य शोभां f 2) (-करना=  
आडम्बरं-रच् or वाद्य शोभां रच् 10p  
or कृ 8 p.) (-मचना=  
प्रसिद्धिर्भू 1 p.) (-मचाना=  
विख्या c. कीर्ति तन् 8 p.)  
(-होना = आडम्बरः रच् or  
कृ pass.)

धूल धूलि f 4, पांसु m 8, रेखु m 8  
रजस् n 15.

धूर्त्त धूर्त्त, शठ, वञ्चक, धाक्षिक a 1.

धूलि see धूल above.

धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र m 2, दुर्योधन जनक  
m 1.

धेनु धेनु f 9, गो m 12.

धेला अर्धपण m 1, पणार्ध भाग  
m 1.

धैर्य धैर्य n 2, धीरता, स्थिरता f 2,  
शान्ति f 4.

धोखा कपट, छल, कैतव n 1, छद्म

n 12, माया f 2. (—नाज=  
कापटिक, छात्रिक a 1, मायाविन्  
a 11.) (—देना or करना=वञ्च्  
त् ( तार ) 10 p.)  
धोती शायी f 5, शाटिका f 2, अधो-  
वस्त्र n 2.  
धोना प्रवल् 10 p. संशुध् c.  
धोवी वस्त्र शोधक, प्रवालक a 1, रजक  
m 1.  
धौंकना भस्त्रवा-बीजू 10 p. भस्त्री-  
मायतेन-पूर 10 p.  
धौंकी भस्त्रा, मारुत भस्त्रा f 1.  
धौंका सार्धचतुष्टय n 1.  
धौन विंशति प्रथमान n 1.  
धौल उद्वेग m 1, भीति f 4, तर्जना  
f 2. (—देना=भीति-दृश् c. तर्जू  
10 p.)  
धौला इन्दुम m 1, वृहस्पद m 1.  
धौल मुष्टि m 4, मुष्ट्याघात m 1.  
(—मारना=मुष्टिना-प्रहृ 1 p.)  
धौला श्वेत, स्वच्छ, धवल a 1,  
(—गिरि =हिमालय m 1.)  
धंधा कार्य n 2, कार्यभार m 2,  
व्यप्रता f 2.  
धंसना निविश, अन्तःविश 6 p. अन्तः  
पत् 1 p.  
ध्यान प्यान n 1, आसक्ति f 4, विचार  
m 2, (—करना=धै ( प्याय )

1 p. विचर c. चिन्त् 10 p.  
ध्यानं कृ 8 p.) (—लगाना=  
समाधित्य a भू 1 p. समाधौ-स्था  
( तिच् ) 1 p.)  
ध्रुव ध्रुव a 2, निरचल, अचल,  
निश्चित a 1, रिपर a 2.  
ध्वंस ध्वंस, नाश, विनाश m 1, लय  
m 2. (—होना=नश् 4 p. हि  
pass or 1 p.) (—करना=  
विनश् c.)  
नफ्कट्टा निकासिक, द्विघनास a 1,  
विप्र a 2. (2) निर्लेचन, राठ  
a 1,  
नफद-दक m 1, मुद्रा f 2, नाणक n  
1, मुद्रा धन n 1. (—देना=नाण-  
केन-की 9 p.) (कर्मत-लेना=  
नाणकेन-विक्री 9 p.)  
नफल्ल प्रतिलिपि f 4, प्रतिलेख m 1  
(2) अनुकरण n 1, अनुकार m  
2. (—करना=प्रतिलिपि कृ 8 p.  
प्रतिलिख् 1 p. (2) अनु कृ 8 p.)  
नफली अनुकारिन् a 11, अनुकरणा-  
जीविन् a 11, नट m 1. (स्त्री)  
नटी f 5, (2) असत्य, अतालिके  
a 1.  
नकशा चित्र n 2, आलेख्य n 1,  
अभिलेख m 1, आलेख्य पत्र n 2  
(—लेचना=( देरादीन् ) अभि-

f 2, नीहार पात m 1,  
 धुंधला दुरालोक, मलिन, धूमवर्ण, पांसुल  
 a 1,  
 धुन ध्वनि m 4, नाद, शब्द m 1,  
 (2) चित्ता सक्ति, आसाक्ति f 4,  
 (-लगाना = एक चित्ती भू 1 p,  
 मनः स्थैर्येनी ( नय् ) 1 p, एकाग्र-  
 मनसा-थ्यै ( ध्याय् ) 1 p,)  
 धुन ध्वान n 1, इच्छा f 2, मनस्तरु  
 m 2,  
 धुनकना तूलसंस्करण्या कार्पासं-शुध् c,  
 बु 5 p,  
 धुनकी तूल शोधनी, तूल संस्करणी f 5,  
 धुर अन्त m 1, अवसान n 1, अवधि  
 m 4, (2) धुर f 20, रघुर् f  
 20, भार m 2, (-तक = अवसान  
 पर्यन्तम्, अन्तर्भावत् adv.  
 धुरन्धर धुरन्धर a 2, वाहक, नायक a  
 1, प्रधान, मुख्य a 1.  
 धुरपद् ध्रुवपद गीत n 1.  
 धुरा धुर् f 20, अक्ष m 2, अक्षाम् n  
 2, अक्षरेखा f 1.  
 धुलना पूल्ल्, वारिणा-संशुध् pass.  
 धुलाई पंचालनपथ m 1, वस्त्र शोधन  
 वेतन n 1, चालने भृति f 4.  
 धुलाना प्रचल्ल्, वस्त्राणि संशुध् c.  
 धुस्सा औषोषवरण. ऊर्षाप्रवरण n 1.  
 (2) नीरुभावरण n 1.

धूझां धूम m 1, धूम्र m 2.  
 धूनी अग्नि स्थान n 1, अग्नि कुण्ड n  
 1. (-देना=धूमं-आ-घ्रा c.)  
 धूम धूप m 1, गुग्गुलु m 1. (2)  
 आतप, रविताप, सूर्यप्रकाश m 1,  
 (-सेकना=आतपं-सेव् I a, रवि-  
 प्रकाशे अज्ञानि-तप् c.)  
 धूम धूम m 1, धूम्र m 2. (2) वायु  
 n 2, (3) प्रसिद्धि, ख्याति, कीर्ति f  
 4, (4) कोलाहल m 1, महारव  
 m 2, (-धाम=आडम्बर n 2,  
 वाद्य शोभां f 2) (-करना=  
 आडम्बरं-रच् or वाद्य शोभां-रच् 10p  
 or कृ 8 p.) (-मचना=  
 प्रसिद्धिर्भू 1 p.) (-मचाना=  
 विख्या c. कीर्ति तन् 8 p.)  
 (-होना = आडम्बरः रच् or  
 कृ pass.)  
 धूल धूलि f 4, पांसु m 8, रेणु m 8  
 रजस् n 15.  
 धूर्त्त धूर्त्त, शठ, वञ्चक, छात्रिक a 1-  
 धूलि see धूल above.  
 धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र m 2, दुर्योधन जनक  
 m 1.  
 धेनु धेनु f 9, गो m 12.  
 धेला अर्धपथ m 1, पथार्ध भाग  
 m 1.  
 धैर्य धैर्य n 2, धीरता, स्थिरता f 2,  
 शान्ति f 4.  
 धोस्ता कपट, छल, कैतव n 1, धूमन

n 12, माया f 2. (—माया= कापटिक, छात्रिक a 1, मायाविन् a 11.) (—देना or करना=बन्धु ल ( तार ) 10 p.)

घोती शायी f 5, शाटिका f 2, अधो- वस्त्र n 2.

घोना प्रखल् 10 p. संशुध् c.

घोषी वस्त्र शोधक, प्रवालक a 1, रजक m 1.

घोंकना भस्त्रया-वीज् 10 p. भस्त्री- मास्त्रेन-पूर 10 p.

घोंकनी भस्त्रा, मास्त्र भस्त्रा f 1.

घोंचा सार्धचतुष्टय n 1.

घोंन विशति प्रस्थान n 1.

घोंस उद्वेग m 1, भीति f 4, तर्जना f 2. (—देना=भीति-दृश् c. तर्ज् 10 p.)

घोंसा दुन्दुभ m 1, वृहत्पट्ट m 1.

घोंल मुष्टि m 4, मुष्ट्यावात m 1. (—मारना=मुष्टिना-प्रहृ 1 p.)

घोंला श्वेत, स्वच्छ, धवल a 1, (—गिरि =हिमालय m 1.)

धंघा कार्य n 2, कार्यभार m 2, व्यग्रता f 2.

धंसना निविश्, अन्तःविश् 6 p. अन्तः पत् 1 p.

ध्यान प्यान n 1, आसक्ति f 4, विचार m 2, (—करना=प्यै ( ध्याय् )

1 p. विचर c. चिन्त् 10 p. प्यानं कृ 8 p.) (—लगाना= समाधिरथ a धू 1 p. समाधौ-स्था ( तिन्द् ) 1 p.)

ध्रुय ध्रुव a 2, निश्चल, अचल, निश्चित a 1, स्थिर a 2.

ध्वंस ध्वंस, नश, विनाश m I, क्षय m 2. (—होना=नश् 4 p. हि pass or 1 p.) (—करना= विनश् c.)

नक्कटा निकासिक, द्विचनास a 1, विप्र a 2. (2) निर्लेज्ज, राट a 1,

नकद् टक m 1, मुद्रा f 2, नाणक n 1, मुद्रा धन n 1. (—देना=नाण- केन-क्री 9 p.) (कीमत-लेना= नाणकेन-विश्री 9 p.)

नकल्ल प्रतिलिपि f 4, प्रतिलेख m 1 (2) अनुकरण e 1, अनुकार m 2. (—करना=प्रतिलिपि कृ 8 p. प्रतिलिख् 1 p. (2) अनु कृ 8 p.)

नकली अनुकारिन् a 11, अनुकरणा- जोविन् a 11, नट m 1. (स्त्री) नयी f 5, (2) असत्य, अतात्विक a 1.

नकशा चित्र n 2, आलेख्य n 1, अभिसेख m 1, आलेख्य पत्र n 2 (—लेखना=( देशादीन् ) अभि-



लिख् 1 p. चिद् 10 p. (2)  
स्थूलवर्णे 10 p.)

नकसीर नासानाही f 5. (2) नासा  
रुधिर n 2. (-फूटना = नासा  
रुधिरं सु ( सव् ) 1 p.)

नकुल नकुल m 1, सहदेवसोदर m 2  
(2) नकुल m 1.

नकेल नासारञ्च f 9.

नकारा दुन्दुभि m 4, पट्ट m 1.  
(-वजना = सुप्रसिद्ध a भू 1 p.)

नकारा अतुकारिन्, अतुकरणातीविन्  
a 11.

नक्कु निन्दित, जातापवाद a 1.

नक्षत्र नक्षत्र, तारक n 2, ग्रह m 2,  
तारा f 1.

नख नख, करज m 1.

नखरा द्वाव, विलास, खलिताभिनय m  
1, खलित्य n 1, विभ्रम m 2  
(-करना = विलस् 1 p. खलितं-  
अभिनी ( नय् ) 1 p, हाव or  
खलित्यं दृश् c.)

नख माणि f 4, खल n 1, (2) संख्यात  
संख्यात n 1.

नख नगन a. 1, दिगम्बर, अक्षर a 2.

नख नगर, पुर n 2.

नखी नगरी, पुरी f 6.

नखीना मणि m 4, खल n 1.

नख see नगन above.

नखाना नृत् or वाराविलासिनीः नृत् c.  
नखदीक समीप-वे, अन्तिक-के, निकट-टे-  
आरात्, ind. adv.

नखर दृष्टि, दृष्टि शक्ति f 4, (-आना =  
दृश् or विलोक् Pass.  
दृष्टि गोचर a भू 1 p. दृष्टिपथ-या  
2 p. or गम् ( गच्छ् ) 1 p.)  
(-वन्द = दृष्टिगत, वशीकृत, कारा-  
वासित a 1,) (- -होना = कारायां  
वत् c. pass. वशीकृ pass. राज  
दृष्ट्यैवृत् ( वर्त् ) 1 a.)

नखर उपायन n 1, उपहार m 2,  
वलि m 4, (-करना = उपायनी कृ  
8 p. उपहारं दा ( यच्छ् ) 1 p.  
समर्प 10 p.)

नखीर उदाहरण n 1, दृष्टान्त m 1,  
उपमा f 2, (-देना = उदाह  
( इर् ) 1 p. दृष्टान्तेन-उपपद् c.  
or दृश् c.)

नखूम ज्योतिष् n 16, ज्योतिर्विद्या f 2  
आकाश विज्ञान n 1.

नखुमी ज्योतिर्विद् m 20, f 17.

नख नट m 1, (स्त्री) नटी f 5, ऐन्द्र  
जालिक a 1, नर्तक m 1. (स्त्री)  
नर्तकी f 5, (-खट = कुशल,  
निपुण (2) धूर्त, शठ a 1.)  
(-वर = नटवर a 2, सूत्रधार m  
2.) (-विद्या = नट विद्या f 2,  
इन्द्रजाल n 1, प्रपञ्च m 1, माया  
f 2.)

नदी नदी, नदीकी f 5.

नतीजा अन्त, परिणाम m 1, उदकं m 2, उत्तरफल, फल n 1.

नय(ली) नासाभरण, नासा भूषण, नासा कुण्डल n 1, (2) नासा रज्जु f 9, नासा तन्तु m 8, नासका तन्त्री f 6.

नयना s. नासा रत्न, नासा बिंदु n 2, (v. t.) नासा रत्ने कृ 8 p. नासा बिंदु रज्जु बन्धु 9 p. नासां-व्यध् 4 p.)

नदी नदी, स्रोतस्विनी f 5.

ननद (ननान) ननान्द f 12, भर्तृभगिनी f 5. (—वैया = ननान्द भर्तृ m 11.)

ननिहोतल(ननसाज) माता महालय m 1, मातृकुल n 1.

नन्द नन्द m 1, धीकृष्य जनक m 1.

नन्दिनी नन्दिनी f 5, गङ्गा f 2, वसिष्ठ धेनु f 9.

नन्दोई (ननदोई, ननानवैया) ननान्द भर्तृ m 11.

नन्हा लघु a 6, अल्पवयस्क a 1, शिशु m 8.

नपुंसक नपुंसक, पुंस्त्वविहिन a 1, (2) बुद्ध, कातर a 2.

नफरत घृणा, उग्रप्ता, पराङ्मुखता f 2 निरक्ति, ग्लानि, विमाति f 4.

(—करना=घृणां कृ 8 p. उग्रप् 1 a. पराङ्मुख a घृ 1 p.) (—होना=ग्लं, ग्लौ 1 p.)

नफा लाभ m 1, आधिक्य n 1, विशेषता f 2, प्राप्ति f 4.

नभ नभम् n 15, गगन, स्र, आकाश n 1.

नमक लवण n 1, सैन्धव a 1.

नमस्कार नाति f 4, नमस्कार m 2, प्रणाम m 1. (—करना=नम् 1 p. नमस्कृ 8 p. प्रणम् 1 p.)

नमाजु प्रार्थना, वन्दना, f 2. (—पदना ईश्वरं-उपास् 2 a.)

नमूद चिन्ह n 1.

नमूना आदर्श m 1, प्रतिरूप a 2, प्रतिमा f 2.

नम्र नम्र a 2, नत विनीत a 1.

नम्रता विनय m 1, नम्रता f 2.

नयन नयन, लोचन n 1, नेत्र n 2, पक्षि n 4.

नया नव, अभिनव, नवीन, नूतन a 1.

नर नर, मनुष्य m 2, मानव m 1,

वृ m 10. (2) सुतोत्साह—सपन्न,

सोत्साह a 1, निर्भक्ति a 2.)

(—नारायण = नर नारायणधिं m 5)

नरक नरक n 2, नीच स्थान, पाप

स्थान n 1, पापालय m 1.

(—कुरड = नरक कुरड n 1, पापि

पाचन n 1.

नरसौ चतुर्थ दिन n 1, आगामि or  
गत चतुर्थ दिन n 1.

नरम कोमल, सुस्पृश्य a 1, (2) शिथिल  
अरुढ़ a 1. (3) शान्ति मत् a 9,  
अनुकूल a 1.

नरमी शान्ति f 4. (2) दया, अनुकम्पा  
f 2. (3) अनुकूलता f 2,  
(—करना=आनुकूल्यं-आच् 1p.)

नल नाल n 1, असार वंश m 1.  
(2) नल m 1, दमयन्ती भर्तृ  
m 11.

नली नलिका, प्रणालिका f 2, नालि,  
साराधि f 4.

नव see नया above (2) नवन्  
num. 9.

नवग्रह नवग्रह m 2. (pl.)

नव द्वार नवद्वार a 2, शरीर n 2,  
काय, देह m 1.

नवरत्न पद्मरागादि नवरत्न n 1.

नवरात्र दुर्गा पूजा दिनाष्टक n 1, नव-  
रात्र n 2.

नवाङ्गिण कृपा f 1, दया, अनुकम्पा f  
2. (—नामा=कृपापत्र n 2.)

नधाव शासनाधिकारिन् a 1, अधिकृत  
a 1, नरेश m 1, नृप m 2.

नधीन see नया above.

नशतर अणुभेदनी f 5, शलाका f 2,

अणु भेदन n 1. (—मारना=रक्तं  
or रुधिरं-मुच् c. सु c. मोत् 10  
p. अणं-बिद् 7 p.)

नशास्ता मण्ड m, n 1, उदपेध, जल-  
पेध n 1.

नष्ट नष्ट, विध्वंस्तं a 1. (—करना=  
नश् c.)

नसल गोत्र n 2, कुल n 1, वंश  
m 1.

नसीच भाग्य, दैव, प्रारब्ध n 1, प्राक्तन  
कर्मन् n 13. (सुरा=भाग्यवत् a  
16, महाभाग a 1.)

नसीहत शिष्या f 1, उपदेश m 1.  
(—करना=उपादिश् 6 p. शिष्य c.)

नहर कुल्या f 2, प्रणाली f 5, लघुनदी  
f 5.

नहलाना स्ना c. (स्नापयति)

नहाना स्ना 2 p. वारिणा देहं-संशुध् c.  
नहेरन नल भेदन n 1, नल भेदनास्त्र  
n 2.

नाई इव, वत् (incom.) ind. सदृश  
a 1. (incom or with  
inst.)

नांह निषेध m 1, अस्वीकार m 2.  
(—करना=निषिध् प्रतिषिध् c. अस्वी  
कृ 8 p.)

नाई नापित m 1, मुण्डन कर्तृ a 7.

नाहन नाहित स्त्री f 8.

ना उमैशी निराशा f 2। नैराश्य n 1.  
 नाक नासा, नासिका f 2, प्राण n 1.  
 (2) पूर्ण, परिपूर्ण a 1. (लौक-  
 भयावह, भयानक. भयपूर्ण a 1.)  
 (-में दम आना=स्त्रिज a भू 1 p.  
 सिद् pass. व्याकुली कृ pass.  
 आकुलित a भू 1 p.) (-दम कर  
 देना=भत्यन्तं व्याकुलीकृ 8 p.  
 सिद्, उद्विन् c.)  
 नाकिस अर्पूर्ण, विकल. असम्पन्न a 1,  
 निकृष्ट, तुच्छ a 1.  
 नाखुन नख, करज m 1. (-तराश=  
 नख छेदन n 1.)  
 नाग नाग, भुजङ्ग m 1, सर्प m 2.  
 (2) गज, नाग m 1, हस्तिन्  
 m 31.  
 नागर नागरिक, पौर a 2, (2) चतुर  
 a 2, प्रवीण, कुराल a 1.  
 नागरी नागरी f 6, आर्य भाषा f 1,  
 (2) नागरिका f 1, प्रवीणा f 2.  
 नागा विश्राम m 2, निवृत्ति f 4. (2)  
 रिक्त, शून्य a 1. (3) विश्राम दिन  
 n 1. (-करना=कार्यभारं-त्यज् 1  
 p. or उत्सृज् 6 p.)  
 नाच नृत्य, नर्तन n 1. (-ना=नृत्  
 4 p.)  
 नाचीज़ निकृष्ट, तुच्छ, अधम, कुत्सित  
 a 1. सुद, आकीञ्चित्कर, तृणप्राय a 2

नाज अन्न, धान्य n 1.  
 नाज़ विलास, हाव, ललिता भिनय m  
 1, विभ्रम m 2, लीला f 2.  
 नाज़नीन विलासिनी, लीलावती, कामिनी  
 f 5.  
 नाज़िर निरीक्षक, निरूपक a 2.  
 नाज़ुक कोमल, कोमलाह, निर्बल a 1,  
 सूक्ष्म a 2, सुकुमारान्न a 1.  
 नाटक नाटक n 1, अभिनय m 1.  
 करना=अभिनी 1 p.)  
 नाड़ी रक्त वाहिनी, रक्त प्रणाली, नाडी  
 f 5.  
 नातर नोचेत्, अन्यथा adv.  
 नाता सम्बन्ध, संयोग m 1, वन्धुता  
 f 2.  
 नातो वन्धु m 8, सम्बन्धिन् a 11.  
 नाथ नाथ, अधीश m 1, पति m 15,  
 स्वामिन् a 11.  
 नाथना नासां व्यध् 4 p. नसाब्धिदं कृ  
 8 u.  
 नाद नाद, निनाद, शब्द m 1, ध्वान  
 n 1, स्व m 2.  
 नादान अनभिद्य, अज्ञ a 1, मूर्ख a 2  
 विमति, अल्प बुद्धि a 4.  
 नादानी मूर्खता, अल्प बुद्धिता f 2.  
 वैमल्य, अज्ञान n 1.  
 नानक प्रथम गुरु m 9, गुरु नानक  
 m 1.

नाना विविध, अनल्प, अनेक a 1, बहु  
a 6. (2) मातामह m 1.

नानी माता मही f 5.

नाप मान, परिमाय n 1. (-ना=परिमा  
3 a. or 2 p.)

नापाक अशुद्ध, मलिन, दूषित a 1,  
अपवित्र, सद्दोष a 2.

नापित see नाई above.

नावाजिग्र बाल, अल्प वयस्क a 1,  
कार्या शक्त a 1.

नाभी नाभि f 4, तुन्दी, नाभी f 5,  
तुन्दिका f 2, उदरावर्त m 1.

नाम नामन् n 12, नामधेय, अभिधेय,  
अभिधान n 1.

नामर्द पुंस्त्वहीन, नपुंसक, क्लीब a 1,  
m 1.

नामी प्रसिद्ध, विख्यात a 1, सुकीर्ति a  
4, यशस्विन् a 11.

नायक नायक, मुख्य, प्रधान a 1, नतु  
a 7.

नायन नापितस्त्री f 8, नापित पत्नी  
f 5. नापिता f 2.

नायव सहायक a 1, सहकारिन् a 11  
उप in com.)

नार नारी f 6, स्त्री f 8, मानवी f 5.

नारंगी नारंग, नारङ्ग m 2, नादेयो  
f 5, भूजम्बुका f 2, नारंग फल,  
ऐरावत n 1.

नारद नारद m 1, नारदाई m 5.

नारायण नारायण m 1, जल शायिन्  
m 31, विष्णु m 8.

नारियल नारिकेल m 1. नारिकेल फल  
n 1.

नारी see नार above.

नाल मृषाल n 1, नालि f 4, नाली  
f 5. (2) कमलिनी f 5. (3)

उपान द्रक्ष्य, खुर रक्षण n 1.

नाला कुल्या f 2, लघु नदी, उप नदी  
f 5. (2) अधोबन्ध m 1, अधो-  
बन्धन n 1.

नालायक अशुद्धि मत् a 9, अशुद्ध a  
1, दुर्मति विमति f 4.

नालिग्र अभियोग m 1, विचार प्रार्थना  
विज्ञापना f 2, दुःखनिवेदन n [f  
(-करना=नाजकुले-निविद् c. विज्ञा  
c.)

नाली नाली, प्रणाली f 5, जगमार्ग  
m 2.

नाव नौ m 13, नौका f 2, तरणी  
5, तरी f 6.

नाश. नाश, विनाश, विध्वंस m 1, क्षय  
m 2, (-करना=विनाश, ध्वंस  
c.) (-होना=नाश 4 p. क्षि  
pass.)

नास्तिक नास्तिक, वेदान्दिक a 1,  
अनीश्वर वादिन् a 11.

नांह निषेध, प्रतिषेध m 1, अस्वीकृति  
f 4, (—करना=निषिद्, प्रति-  
षेध् c. अस्वीकृ 8 u.)

नाहर व्याम m 2, सिंह m 1.

निःशङ्क निःशङ्क, अशङ्कित a 1, निर्भीक  
निर्भय a 2. (2) निःशङ्कम्,  
विश्रन्धतया adv

निःशब्द निःशब्द, स्तब्ध a 1, नीरव a  
2. (2) निःशब्दम्, तूष्णीम् विमृतम्  
मौनम् adv.

निःशंसय निःशंसय, गत सन्देह, निर्धनान्त  
a 1. (2) अशंसयम् adv.

निःशेष निःशेष, अशेष. समग्र a 2,  
सम्पूर्ण, समस्त, पूर्ण a 1. (2)  
निःशेषम्, साकल्येन adv.

निःश्वास निःश्वास, प्रवास, श्वास m  
1. (—लेना=निःश्वस् 2 p.)

निकट निकट-टे, समीप-पे अतिक-के,  
निकण्टक निकण्टक, भ्रकण्टक, निः  
सपल a 1, निरुपद्रव a 2.

निक्रममा अतुपयोगिन् a 11, निरुपयोग  
निर्गुण, निरर्थक, निष्कल, निष्प्रयोजन  
व्यर्थ a 1.

निकलना निष्कम् 4 p. 1 u. निःम्  
( गच्छ् ) 1 p. निःसृ ( सृ ) 1  
p. उदि 2 p. प्रकाश् pass.  
पृवत् 1 a. निष्कास् pass.

निकाल निष्कम m 2, निःसरण,

निर्याण n 1, निर्गम m 1. (2)

प्रकाशन, पूर्वर्तन n 1. (—ना=  
निःसृ c. प्रकाश्, पृवत् c.)

निकाह परिणयन, पाणिग्रहण n 1,  
विवाह m 1. (—करना=परि-  
णी ( ण्य् ) 1 p. विवह् c.  
पाणिं ग्रह् 9 p.)

निकृष्ट निकृष्ट, अधम, नीच, तुच्छ a 1  
छुद्र a 2.

निस्रट्टु निर्गुण a 1, निरुद्योगिन्,  
अव्यवसायिन् a 11, धनोपार्जना  
क्षम a 2.

निस्तरना s. परिच्छेद, विभाग m 1.  
(2) विवेक m 1. (v.t.) परि-  
च्छिद् c. विविच् c. विभञ्ज् c.

निगम वेद, निगम, पवित्रोक्त m 1.  
ईश्वरीय ज्ञान n 1.

निगलना s. ग्रास m 1, निगरण n 1  
(v.t.) ग्रस् 1 a. निगृ ( गिर् )  
6 p.

निगाह दृष्टि f 4. (—कान्ना=दृश्  
( पश्य् ) 1 p. अवलोक् 10 p.  
(—हालना=निरूप् 10 p.  
निर्वर्ण् 10 p.)

निघण्टु निघण्टु m 8, कोप m 2.

निश्चित निश्चित. निःगद्. निरातद् a 1.

निचाई मोचता, निकृष्टता f 2, नीचवृत्ति  
f 4. (2) निम्नता f 2.

निचोड़ तत्व n 1, सार m 2, सिद्धान्त  
m 1.

निष्ठावर बलि m 4, उत्सर्ग m 2,  
अर्पण, बलिदान n 1. (-होना =  
वली भू 1 p. आत्मानं-उत्सृज् 6  
p. or ऋ c. (अर्पयति) (-करना  
=बलिदा ( यच्छ् ) 1 p. उपहारी  
कृ 8 p. उत्सृज् 6 p.)

निज निज, आत्मीय, स्वीय a 1.

निष्ठुर निष्ठुर, कठोर a 2, निर्दय a 1.

निडर निर्भय a 2, निश्चिन्त, निःशंक  
निरातङ्क a 1.

नित सदा, सर्वदा, नित्यम् ind.

निरय नित्य a 1, भ्रुष a 2, अविनाशिनू  
a 11, अनश्वर a 2. (2) see  
नित above.

निधग स्वच्छ, निर्मल a 1.

निधारना सं-शुभ् c. निर्मली कृ 8 u.

निदान अन्ततः अय ind. (2) अज्ञ  
a 1, मूर्ख a 2.

निद्रा निद्रा f 1, स्वाप m 1. (-ग्राना  
=स्वप् 2 p. सुपुत्र a भू 1 or  
वृत् 1 a. निद्र्या-अभि भू pass.)

निधङ्क निर्भय a 2, निरातङ्क a 1,  
see निडर above.

निधान निधान, स्थान n 1, निधि m  
4, कोष m 2.

निधि sec निधान.

निन्दक निन्दक a 1, अपवादक a 1,  
पृष्ठ मांसाद a 1, निन्दाकर्तृ a 7.

निन्दा निन्दा f. 2, अपवाद m 1.  
(-करना=निन्द् 1 p. अपवद्  
1 p.)

निन्यानघं नवनवाति f 4: (-वां=  
नवनवतितम a 1.)

निपटना s. समाप्ति f 4, अन्त m 1,  
अवसान n 1: (v.t.) समाप्  
pass. अवसो 4 p.

निपटाना समाप् c. निःशिप् c.

निपुण निपुण, निष्णात, सुशिक्षित a 1  
चतुर a 2.

निपूता अपुत्र a 2, पुत्र हीन a 1.

निवङ्गना s. समाप्ति f 4, अन्त m 1  
अवसान n 1, (v.t.) समाप्  
निर्वृत् . निःशिप् , निःशेषीकृ pass

निवृत्त निर्वल, दुर्बल, अवल, अशक्त a  
1, कृश a 2.

निवाह निवाह m 2, (-ना=अतिवद्  
c. या c. (आपयति.)

निवङ्गना समाप् , निःशिप् c. पू. 10  
p. अन्तं गम् 1 p. निःशेषीकृ 8 u)

निमना अति or व्यति-इ, 2 p. अतिकम्-  
या c. pass. अति वह् pass.

निभाना अतिवद् , अतिकम् , अतिगम्,  
c. अतिइ 2 p.

निमग्न निमग्न, लीन, विलीन a 1.

निमन्त्रण निमन्त्रण, आमन्त्रण, आह्वान  
 n 1, आह्वान पत्र n 2. (-देना  
 or भोजना=निमन्त्र ०. (2) सह  
 भोजनाय आन्धे (वृहत् 1 p.)  
 निमित्त निमित्त, कारण, साधन n 1,  
 हेतु m 8.  
 निम्न निम्न, अतुन्नत, प्रवहण a 1.  
 (2) नीचैस्, अधस्, अधस्तात्  
 ind.  
 नियत नियत, नियुक्त, निर्णीत, स्थापित  
 स्वीकृत, स्थिरीकृत a 1, निरूपित  
 a 1. (-करना=स्थिरी.कृ., नियती-  
 कृ 8 u. नियुञ्, स्या c.)  
 नियामत उत्तम, श्रेष्ठ a 1, उत्तमपदार्थ  
 m 1.  
 नियुक्त see नियत above.  
 नियोग नियोग m 1, आज्ञा f 2,  
 अनुमति f 4.  
 निरंकार निरंकार a 2, अकाय a 1,  
 ईश्वर m 2, परमात्मन् m 23.  
 निरख मूल्य, निरूपित मूल्यं n 1,  
 निरूपितार्थ m 2. (-निकालना=  
 मूल्यं-निरूप् 10 p. or स्या c.)  
 (-नामा=मूल्यपत्र n. 2.  
 निरञ्जन निरञ्जन, शुद्ध a 1, चेतन a  
 1, परमात्मन् m 23.  
 निरन्तर निरन्तरम्, सततम्, सन्ततम्  
 adv. सदा, सर्वदा ind.)

निरपराध निरपराध a 1, निष्पाप,  
 निर्दोष a 2.  
 निरर्थक निरर्थकम्, वृथा, सुधा ind.  
 adv. (2) निरर्थक a 1, निष्फल  
 a 1.  
 निरस विरस, नीरस a 1, अस्वादु a 6.  
 निरा अभिन्न a 2, अभिधित a 1,  
 (2) केवलम् ind. माघ a 2.  
 (in.com.)  
 निराकार निराकार a 2, अकाय, शरीर-  
 रहित a 1, परमात्मन् m 2.  
 निरादर निरादर, अनादर m 1, अपमान  
 n 1. (-करना=अपमान् 4 a.)  
 निराला अद्वितीय, विभिन्न, पद्भुत a  
 1, अभिन्न a 2.  
 निराश निराश, आशाहीन, भग्नरा a  
 1. (-होना=आशां त्यज् 1 p.  
 निराशयं.अवलम्ब् 1 a.)  
 निराश्रय निराश्रय, निराधार a 2,  
 अनाथ. निःसहाय a 1.  
 निराहार निराहार, अहृताहार a 2,  
 उपवासिन् a 11, (2) निराहार  
 उपोषण u 1, उपवास n 1.  
 निरस्राह निरस्राह, उत्साह रहित,  
 आलस्योपेत a 1, अतुःसाहिन्  
 a 11.  
 निर्गुण निर्गुण, अशिक्षित, अगुण, अप-  
 क्षित a 1, मूर्ख a 2. (2) गुणतीति



निविद् c. or ऋ c. (घर्षपति)  
 (-करना=वलित्वेन-दा 3 p. ऋ c.  
 उत्सृज् 6 p.)  
 नौरोज् संवत्साराभ्यादिन n 1, नववर्षा-  
 रम्भदिन n 1.  
 नौता निमन्त्रण n 1, प्रीति भोजन n  
 1. (-देना or भोजना=निमन्त्र् 10  
 p. सह भोजे आन्धे ( ह्य् ) 1 p.)  
 नौवत दशा, अवस्था f 2, अवधि m,  
 f 4, (2) दुन्दुभि m 4,  
 (-पहुंचना=इत्यन्तं-प्राप् 5 p.  
 एतामवस्थां-प्राप्ताद् 10 p.)  
 नौमी नवमी f 5, नवमी तिथि f 4.  
 नौल नकुल m 1.  
 नौसादर नवसादर m 2.  
 नंग(गा) नग्न, अवसन a 1, अवस्त्र,  
 दिगम्बर a 2. (2) निष्किञ्चन,  
 अकिञ्चन, निर्धन a 1. (-होना=  
 दरिद्रि a भू 1 p.)  
 नेघर अंक, अंश m 1, संख्या, गणना  
 f 2, (-दार=कर आहिन्, भूमि-  
 कर आहिन् a 11.)  
 नन्दन पुत्र m 2, आत्मज, तनय m 1,  
 सन्त m 8, नन्दन. m. 1, (स्त्री)  
 आत्मजा, तनया f 2, पुत्री f. 6,  
 (2) नन्दन, इन्द्रोद्यान, स्वर्गोद्यान  
 n 1.  
 न्याय न्याय m 1, धर्म m 1, नीति f

4, धर्मविचार m 2. (2) न्याय  
 शास्त्र n 2, तर्क विद्या f 2.  
 न्याय भिन्न a 1, पृथक् adv. (2)  
 एका-न्तं-न्ते-निभृतम् adv.  
 न्यागिया सुवर्ण or रजत निष्कासक a 1.  
 न्यून न्यून, ऊन a 1. (2) अल्प a 1,  
 अल्पीयस् a 15.  
 पकना पच् pass. पक a भू 1 p.  
 पकड़ना अह्, धृ, (धार्) 10 p. वशी  
 कृ 8 p.  
 पकड़वाना अह्, धृ, वशी कृ c.  
 पकधान पकाध, घृतादि भकाध n 1.  
 पकधाना पच् c.  
 पका पक, परिपक, दद (2) प्रवीण a  
 1, चतुर a 2.  
 पकाना पच् 1 p.  
 पकांडी पक्कोपलिका f 2, चणचूर्णशुलिका  
 f 2, दप्पु-पलिका f 2.  
 पक्व पक, परिपक a 1, see पका.  
 पक्ष पक्ष m 2, अर्धचान्द्र मास m 1,  
 (2) उड्डयन साधन n 1. पक्ष m  
 2. (2) पक्ष m 2; पक्षपात m 1  
 पक्षी पक्षिन् n 31, सम m 1.  
 पक्ष ध्वज m 1. पताका f 2: see  
 पक्ष above.  
 पक्षाने पाषाण n 1, प्रस्तर m 2.  
 पक्षाल पयःसल्ल n 1, पयोमस्त्रा f 1  
 पयोमस्त्रिका f 1.

पञ्चायज मृदङ्ग m 1.  
 पञ्चरूप परिवन् m 31, खग, विहङ्ग  
 m 2.  
 पग पाद m 1, चरण n 1, (2)  
 उन्मीष n 2, शिरोवेष्टन n 1.  
 पग डंडी पद्धति f 4, सद्यु मार्ग m 2.  
 पगड़ी उन्मीष n 2, शिरोवेष्टन n 1.  
 पगला विधिप्त, वातुल a 1, मूर्ख a 2  
 पङ्क पङ्क, कर्दम m 1.  
 पङ्कज पंजन, जलज, कमल n 1.  
 पङ्क पङ्क m 8, f 9, विकल, पाद  
 विकल, श्रेण a 1.  
 पचता पच् pass. जठरेजु ( जर् ) 4  
 p. परिणम् 1 p. परिपाकं गम्  
 ( गच्छ् ) 1 p.  
 पचपन पच पश्चात् f 16.  
 पचानये पचनवति f 4-  
 पचाना (जठरे) जु. c. परिपाकं नी ( नय् )  
 1 p. परिणम् c. पच् 1 p.  
 पचाय पाक, परिपाक m 1. पचन n  
 1, परिणाम m 1.  
 पचास पश्चात् f 16. ( -वां = पश्चा  
 शतम a 1.)  
 पचासी पश्चासीति f 4. ( -वां = पश्चा  
 शीतितम a 1.)  
 पचास पञ्चविंशति f 4. ( -वां = पञ्च  
 विंशतितम a 1.)  
 पच्चर कील, कौलक n 1, शङ्कु m  
 8. (—मारना=पाङ्क 10 p. संवा  
 1 a. समृद् 9 p. (2) विष्कं  
 8 p.

पचावी आमाराय, जठरानल m 1,  
 पाचन स्थान n 1.  
 पच्छिम पूर्तीचा f 5, पच्छिम द्विर् f,  
 14. (2) पच्छिम, अन्तिम a 1.  
 पछ पच m 2, पचपात m 1, (2)  
 ईषदस निर्गलन n 1, (—ना=  
 ईषत्-रसं निर्गल् c.)  
 पछतागा अनुशुच् ( शोच् ) 1 p.  
 अनुतप् 4 p. पश्चात्तापं कु 8 p.  
 पछतावा पश्चात्ताप, अनुताप, शोक m  
 1, चिन्ता f 2.  
 पछाङ्ग निपात m 1, निपतन n 1.  
 (—ना=निपत् c.) (—ताना=  
 पृष्टतः पत् c. pass. or 1 p.)  
 पंजाब पञ्चनद देश, पञ्चाग्नु देश m 1.  
 पंजाबी पञ्चाग्नु देशीय a 1, (2)  
 पञ्चनद भाषा f 1.  
 पञ्जामा शाटक, पाद शाटक, जङ्घ  
 वरण n 1.  
 पञ्च मध्यस्थ, प्रधान a 1, विचारकर्तृ  
 a 7, (2) पञ्चन् num. 5.  
 (—वाण=काम, मनोभव m 1.)  
 पञ्जर अस्थिदेह m 1, अस्थि शरीर  
 n 2.  
 पट पट m, वसन n 1, वस्त्र n 2.  
 (2) ज्वनिका f 2, (3) द्वारपट,  
 द्वार.फलक n 1. (4) ऊरु m 9.  
 पटकना पृष्पू 6 p. पृष्पूवां पत् c.

निविद् c. or ऋ c. धर्पयति)  
(-करना=वलित्वेन-दा 3 p. ऋ c.  
उत्सृज् 6 p.)

नौरोज संवत्साराग्भादिन n 1, नववर्षो-  
रम्भादिन n 1.

नौता निमन्त्रण n 1, प्रीति भोजन n  
1.(-देना or भोजना=निमन्त्र् 10  
p. सह भोजे आह्वे ( ह्य् ) 1 p.)

नौवत दशा, अवस्था f 2, अवधि m,  
f 4, (2) दुन्दुभि m 4,  
(-पहुंचना=इत्यन्तं-प्राप् 5 p.  
पुतामवस्थां-प्रासाद् 10 p.)

नौमी नवमी f 5, नवमी तिथि f 4.

नौल नकुल m 1.

नौसादर नवसादर m 2.

नंग(गा) नग्न, अवसन a 1, अवस्त्र,  
दिगम्बर a 2. (2) निष्किञ्चन,  
अकिञ्चन, निर्धन a 1. (-होना=  
दारिद्र् a भू 1 p.)

नेवर अंक, अंश m 1, संख्या, गणना  
f 2, (-दार=कर माहिन्, भूमि-  
कर माहिन् a 11.)

नन्दन पुत्र m 2, आत्मज, तनय m 1,  
सुत्र m 8, नन्दनः m. 1, (स्त्री)  
आत्मजा, तनया f 2, पुत्री f. 6,  
(2) नन्दन; इन्द्रोद्यान, स्वर्गोद्यान  
n 1.

न्याय न्याय m 1, धर्म m 1, नीति f

1, धर्मविचार m 2. (2) न्याय  
शास्त्र n 2, तर्क विद्या f 2.

न्याय भिन्न a 1, पृथक् adv. (2)

एका-न्तं-न्ते-निभृतम् adv.

न्यायिया सुवर्ण or रजत निष्कासक a 1.

न्यून न्यून, ऊन a 1. (2) यल्प a 1,  
अर्थायस् a 15.

पकना पच् pass. पक a भू 1 p.

पकड़ना ग्रह्, धृ, (धार्) 10 p. वशी  
कृ 8 p.

पकड़वाना ग्रह्, धृ, वशी कृ c.

पकवान पकाव, घृतादि भक्ताव n 1.

पकवाना पच् c.

पका पक, परिपक, दृढ (2) प्रवीण a  
1, चतुर a 2.

पकाना पच् 1 p.

पकौड़ी पकौपलिका f 2, चणचूर्णगुलिक,  
f 2, दम्प-पलिका f 2.

पक्व पक, परिपक्व a 1, see पका.

पक्ष पक्ष m 2, अर्धचान्द्र मास m 1,  
(2) उद्द्वयन साधन n. 1. पक्ष m  
2: (2) पक्ष m 2; पक्षपात m 1

पक्षी पक्षिन् n 31, खग m 1.

पख ध्वज m 1, पताका f 2: see  
पक्ष above.

पखान पाषाण n 1, प्रस्तर m 2.

पखाल पयःसल्ल n 1, पयोभस्त्रा f 1

पयोभस्त्रिका f 1.

पञ्चावज मृदङ्ग m 1.  
 पञ्चेरु पविन् m 31, सग, विहग  
 m 2.  
 पग पाद m 1, चरण n 1, (2)  
 उन्वाषि n 2, शिरोवेष्टन n 1.  
 पग डंडी पद्धति f 4, लघु मार्ग m 2.  
 पगड़ी उन्वाषि n 2, शिरोवेष्टन n 1.  
 पगला विचित्र, वातुल a 1, मूर्ख a 2.  
 पङ्क पङ्क, कर्दम m 1.  
 पङ्कज पंकज, जलज, कमल n 1.  
 पङ्गु पङ्गु m 8, f 9, विकल, पाद  
 विकल, श्रोण a 1.  
 पचना पच् pass. जठरेजु ( जर् ) 4  
 p. परिणम् 1 p. परिपाकं गम्  
 ( गच्छ् ) 1 p.  
 पचपन पक्ष पघारात् f 16.  
 पचानये पचनवति f 4-  
 पचाना ( जठरे ) जु. c. परिपाकं नी ( नय् )  
 1 p. परिणम् c. पच् 1 p.  
 पचाय प्राक, परिपाक m 1. पचन n  
 1, परिणाम m 1.  
 पचास पघारात् f 16. ( -वां = पचा  
 शतम n 1.)  
 पचासी मधारीति f 4. ( -वां = पचा  
 शीतितम a 1.)  
 पचास पचविंशति f 4. ( -वां = पच  
 विंशतितम a 1.)  
 पच्चर कील, कीलक n 1, शङ्कु m  
 8. (—मारना=पीड 10 p. संवा  
 1 a. समूह 9 p. (2) विनिकृ  
 8 p.

पचावी ब्रामाशय, जठरानल m 1,  
 पाचन स्थान n 1.  
 पच्छिम प्रतीचा f 5, पच्छिम दिग् f,  
 14. (2) पच्छिम, अन्तिम a 1.  
 पछ पक्ष m 2, पक्षपात m 1, (2)  
 ईषद्रस निर्गलन n 1, (-ना=  
 ईषत्-रसं निर्गल् c.)  
 पछताना अनुशुच् ( शोच् ) 1 p.  
 अनुतप् 4 p. पश्चात्तापं कृ 8 p.  
 पछतात्रा पश्चात्ताप, अनुताप, शोक m  
 1, चिन्ता f 2.  
 पछाड़ निपात m 1, निपतन n 1.  
 (—ना=निपत् c.) (—ताना=  
 पृथतः पत् c. pass. or 1 p.)  
 पंजाब पश्चनद देश, पञ्चाब्दु देश m 1.  
 पंजाबी पञ्चाब्दु देशीय a 1, (2)  
 पञ्चनद भाषा f 1.  
 पञ्जामा शाटक, पाद शाटक, जङ्घ  
 वरण n 1.  
 पञ्च मध्यस्य, प्रधान a 1, विचारकर्तु  
 a 7, (2) पञ्चन् num. 5.  
 (—वाण=काम, मनोभव m 1.)  
 पञ्जर अरिषदेह m 1, अरिष शरीर  
 n 2.  
 पट पट m, वसन n 1, वस्त्र n 2.  
 (2) ज्वनिका f 2, (3) द्वारपद,  
 द्वार फलक n 1. (4) ऊरु m 9.  
 पटकना पृषिप् 6 p. शृषिष्यां-पत् c.

- रमसा-पृष्ठिप् 6 or पत् c. पूत्याहन्  
2 p.
- पटका कटिवन्धन, आवेष्टन, परिवेष्टन,  
परिकर वसन n 1.
- पटङ्गा फलक, दारु फलक, काष्ठफलक  
n 1.
- पटना पाटलिपुत्र नगर n 1, कुसुमपुर  
n 1.
- पटरानी महिषी, राज महिषी f 5,  
प्रधान राज पत्नी f 5.
- पटवारी भूमि कर गणक, भूकर लेखक  
m or a 1.
- पटाखा अग्नि क्रीडनक n 1.
- पट्टी ऊर्णा पट, m 1. (2) पट्टिका,  
दारु पट्टिका f 2, लघु फलक n 1.
- पट्टु सान्द्रोर्णा पट m 1, नीरन्धोर्णा पट  
m 1.
- पट्टा मल्ल युवक m 1. (2) स्नायु f  
9, स्नसा f 2.
- पठन पठन n 1, पाठ m 1, शिक्षा f  
1, अभ्ययन n 1. (—करना=पठ्  
1 p. अधि-इ 2 a.)
- पठान गान्धार देशीय a 1.
- पठाना पद् c.
- पडदादा प्रपितामह m 1.
- पडदादी प्रपितामही f 5.
- पडना पत् 1 p. (2) विधम् 4 p.  
शी 2 a.
- पडनाना प्रमाता मह m 1.
- पडनानी प्रमाता मही f 5.
- पडघा प्रति पद् f 17, प्रति पदा f 2,  
पद्यति f 4.
- पड्गाव स्थान, विश्राम स्थान n 1,  
विश्रान्ति धामन् n 12.
- पडोता प्रपौत्र m 2.
- पडोती प्रपौत्री f 6.
- पडौस सहवास m 1, प्रातिवेश्य n 1  
प्रातिवेशिता f 2.
- पडौसिन सहवासिनी, प्रतिवेशिनी f 5.
- पडौसी सहवासिन्, प्रतिवेशिन् a 1.
- पडना पद् 1 p. शिच् 1 a. अधि-इ  
2 a.
- पडाना पद्, शिच् c. अधि-इ c.  
(अभ्यापयति)
- पदा हुभा पठित, शिक्षित a 1, वि-  
धावत् a 16, विद्स् a 18.
- पण पूण m 1, प्रतिष्ठा f 2. (—करना=  
प्रतिष्ठा 9 p. पूण्ड 8 p. (2)  
पण m 1, पण मुद्रा f 1.
- पण्डा तीर्थ दुरोहित m 1. (2) बुद्धि  
f 4, विवेक m 1, पण्डा f 2.
- परिडत्त परिडत्त, निपुण, कुशल a 1,  
सदसद् विवेकिन् a 11.
- पत प्रतिष्ठा f 2, मान n 1, यशस् n  
15, कीर्ति f 4. (—रत्नना=  
प्रतिष्ठा-रथा c. कीर्ति- or यशः-

स्था c.)

पतङ्ग सूर्य m 2, रवि m 5. (२)

पूमाकीट, पतङ्ग, ज्योतिरिक्षण m 1

(3) पत्र चिल्ल m 1, पत्र चिल्ल  
f 2.

पतङ्गा ज्योतिरिक्षण, पूमाकीट, तद्योत  
m 1, (2) स्फुलिक m 1.

पतङ्ग शिशिर m 2, शिशिरुं m 8

पतङ्गलि पतञ्जलि m 4, योगशास्त्र  
कृत m 11, महाभाष्यकार m 2.

पतला सूक्ष्म, कृश, राम a 2, अस्थूल,  
सूक्ष्म a 1. (2) पूषण, द्रवीभूत  
a 1.

पता वायनामन् n 1, स्थान चिन्ह n  
1, (2) सूत्र n 1, मार्ग पदार्थ  
n 1, (-देना=स्थान चिन्ह निर्दिष्ट  
6 p., कृ 10 p. or निविद् c.)  
(—लिखना=वाद्य न.म लिख् 1 p.)  
(—लगाना=अन्विप् 4 p. 3 p.)

पत्ता पत्र n 1, पर्थ n 1, पल्लव,  
किसलय m 1.

पताका ध्वज m 1, पताका f 2.

पताङ्ग पाताल, रसातल m 1.

पति पति m 15, भर्तृ m 11, स्वामिन्  
a 11, अधिपति m 4.

पतित पतित, अष्ट, अद्विकृत a 1,  
पापिन् a 11, (-होना=सत्यथात्

अंश pass. अष्ट-पतित a 1

p, वहिष्कृ pass.-निष्कास् pass.  
(—करना=आचारत्-अंश c, वहि-  
ष्कृ 8 p.)

पनि याना विश्वासेन भावं-ज्ञा 9 p.

विश्वास पूर्व-अभिप्राय-प्रवृत्तुप् I

p (2) परीत् I a. परीत्वां कृ 8 u.

पतीना उरारथं पात्र n 2, उत्कृज. पात्र  
n 2, उपकृषड n 1.

पत्तन पत्र स्थालिका f 2. पत्र भोजन  
पात्र n 2, पत्रावली f 5.

पत्ता पर्थ n 1, पल्लव, किसलय m 1.

पत्रघर पाषाण, m 1, पुस्तर m 2,  
आमन् m 23, उपल n 1.

(—की लकीर=दृढ वचन n 1.)

पथरीजा भाषिमल, पस्तरा कीर्ण a 1,

पाषाण देश m 1, पुस्तरनिर्मित a 1

पथरी पत्नी f 5, भार्या f 1:

पत्र पत्र n 1, लेख्य पत्र n 1, पृष्ठ  
n 1

पत्रा पञ्चाङ्ग पत्र, तिथि पत्र n 1,  
पञ्चाङ्ग पुस्तक n 1.

पत्रिका लेख m 1, सन्देह पत्र n 2,

लेख्य n 1, पत्र n 1.

पथ पथिन् m 26, मार्ग m 2.

पथी अश्वरी f 6, मूत्र कृष्ण n 1.

पथिक पान्य, पथिक a 1, मार्गान्त  
a 7.

पथय पथ, पचनीय a 1, पचनीय मद्य

दा ३ p. शरण दानेन निर्भयौक ४  
p. रत्न १ p. (—लेना=शरण-  
गम् १ p.) (—देने वाला=शरण-  
a १.) (—लेने वाला शरणगत a  
१, शरणार्थिन् a ११.

पदार्थ पदार्थ m १; द्रव्य n २, वस्तु  
n ६, वस्तु जात n १.

पेक्षति पेक्षति f ४, संस्कार विधि m ४,  
(२) मार्ग m २, पाणिन् m २६,  
पद्धति f ४.

पद्म पद्म; कमल, जलज n १.

पद्मिनी पद्मिनी f ५, पद्मिनी स्त्री f ८.

पद्य पद्य n १, छन्दस् n १५, श्लोक  
m १.

पधारना s. शुभा गमन n १. (v.t.)  
शुभ-भागम् १ p. सुख-भागम्  
१ p.

पनचक्री जल पेपणी f ५.

पनसारी संकीर्णविक्रेतु a ७, संकीर्ण-  
विक्रेयिन् a ११. (२) अगद विक्रेतु  
a ७; अश्विध विक्रेयिन् a ११.

पनसेरा(री) आदक, पञ्च प्रस्य मान  
n १.

पनहाहा जल बाहक m १.

पनहाही जल बाहिका f २.

पनाला प्रवर्ण, सारिनिः शरण, प्रणाल  
n १, प्रणालि f ४, पनालिका f २.

पनाह शरण n १, रत्ना f १, छाया f  
२, चापय m २; (—देना=शरणं

पनीर असार दधि, निःसार दधि n १५.

पन्ना पृष्ठ n १, पत्र n २. (हीरा=  
स्तन जात n १.)

पर्षाहा चातक m १; चातक पक्षिन्  
m ३१.

पपोटा नेत्र छद, नयन छद m १.

पय पयस् n १६; दुग्ध n १. (२) जल,  
उदक n १.

पंद् पक्षिन् m ३१, खग m १.

पर पत्र m २, (२) परन्तु; किन्तु adv.  
उपरि ind. (—काज=पर कार्य  
n २, परोपकार m २.)

परफारं चित्र निर्माण, चित्र साधन,  
चित्राकर्षण n १, प्रकार यन्त्र, परि-  
धिनिर्माण यन्त्र n २.

परखना परीच् १ a; निर्वर्ण, निरूप  
१० p.

परगना आजन, प्राक्षण n १. (२)

मण्डलांश, मण्डल भाग m १.

परचा पत्र; आलेख्य पत्र, प्रश्न पत्र n २.

परचूनिया रोक विक्रेयिन् a ११,  
स्तीकवाणियकार m २.

परछावा छाया, प्रतिच्छाया f २. (२)

प्रतिशब्द m 1.

परतन्त्र परार्थीन, परवश a 1, परार्थीन  
वृत्ति a 4, परतन्त्र a 2.

परदा जनानिका f 2, तिरस्करणी f 5;

(2) आवरण, व्यवधान n 1. (3)

ध्वज्युष्टन, संवरण n 1. (-करना=

ध्वज्युष्ट 10 p. मुलं श्रवण्युष्ट

10-संघ 5 p.) (-खोलना=प्रकाश

c.) (-नशीन=व्यवधान वर्तिन्

a 11, संवरणवती f 5, अन्तः-

पुरनारी f 6.)

परदेशं परदेशं. विदेश, अन्यदेश m 1.

परनाना प्रमातां मह m 1.

परनानी प्रमाता मही f 5.

परनाना प्रवहण n 1, जल मार्ग m

2, see पनाला above.

परन्तु परन्तु, किन्तु, परम्ब, परम् ind.

adv.

परधस see परसन्त्र above.

परग्रह परग्रहन् n 13, परमात्मन् m

23, परमेश्वर m 2.

परम उत्तम, मुख्य, प्रधान, उत्कृष्ट a 1

परम a 2. (-पद=मोक्ष m 2;

मुक्ति f 4, परमपद n 1.)

परमाणु परमाणु m 8, (2) अति

सूक्ष्म a 2; अणुतम a 1.

परमात्मन् परमात्मन् m 23, परमेश्वर

m 2.

परमानन्द परमानन्द, महानन्द, महत्प्रमोद

m 1. (2) परमेश्वर, आनन्द स्व-

रूप m 2.

परमार्थ परमार्थ m 1, मोक्ष m 2,

मुक्ति f 4. (2) परोपकार, उपकार

m 2. (-करना=उपकृ 8 p.

परकार्यणि-साध 5 p.)

परमार्थी परमार्थीन् a 11, सुमुञ्च m

9, f 9. (2) उपकारिन् a 11.

परमेश्वर परमेश्वर, ईश्वर m 2, जग-

दीश m 1, परमात्मन् 23 m.

परम्परा परम्परा f 1, सन्तति f 5,

वंश m 1. (2) कम m 2. (3)

श्रेणी f 4, श्रावली f 5, माला f

2, पंक्ति f 4

परलोक परलोक m 1, जन्मान्तर n 2

अन्वजन्मन् n 12.

परधरनिगांर विश्वम्भर m 2, विश्व

m 8, दीनबन्धु m 8.

परधरिश भरण, पालन, पोषण, संवर्द्धन

साहाय्य n 1. (-करना=धृ 1

3, u. मासाच्छादनं दा 3 p. पु

4 or 9 p. पाल् 10 संवर्ध् c.)

(-पाना=परिपाल् ; पु, मासा-

च्छादनंदा pass.) (-करने वाला

=पालक a 1, पोषक a 2.)

(-पाने वाला=पोष्य a 2, परि-

0; पाल्य a 1.)



परवाह पान, अथधान n 1. (2)  
 अथेषा f 2, (-करना = अथेषु 1a,  
 (-न करना = अथेषु 1 a. अथधान a  
 म् 1 p.)

परशुराम परशुराम m, 2, जामदग्न्य a  
 1, भार्गव m 2.

परश्वानगी आज्ञा, अनुज्ञा f 2, अनुमति  
 f 4. (-लेना = अनुज्ञां लभ् 1 a.)

परश्वाना आशा पत्र, शासन पत्र n. 2,  
 आशा खेल, शासन खेल m 2.

परसना स्पर्श 6 p. (2) भोजन or  
 भोज्य परस् नि.संख्या c. (3)  
 तीर्थानि अट् 1 p. तीर्थयात्रां कृ  
 8 p.

परसी परदात् ind. पशुदिवस m 1.  
 परस्तान अप्तो देश m 1, पुन्दी देश  
 m 1, रमणीयदेश m 1.

परस्तिश पूजा, उपासना. अर्चना f 2,  
 भक्ति f 4 (-करना = पूज् 10  
 p. उपात् 2 a.)

परस्पर परस्परम्, अन्योन्यम् adv.

परशुञ्ज परतोभाव, दूरभाव m 1, परि  
 वर्जन, रिपुर्जन n 1, निवृत्ति f 4.

p. (with acc.) विस्म 1 p.  
 (abl.) (2) (मनः संगम् 1 p.)  
 (-गा = संगमिन्, परिस्म n 11.)

परदाकङ्की रूपकुलि f 4.

परानाम परानाम m 2, पक्ष, सामर्थ्य  
 n 1, शक्ति f 4.

पराजय पराजय, परिभव, पथभंग m  
 1. (-पाना = परानि 1 a. परात्  
 1 p.)

पराठा स्निग्ध, विरक्त, सपृतापूप n,  
 m 1.

परात महा रपालिका f 2, वृद्धत्व n 2.  
 परार्धीन पतार्धीन, परवरा a 1, परत्व  
 n 2.

परामर्श परामर्श, विमर्श. विचार m 2,  
 आलोचना f 2. (-करना = विमर्श  
 6 p, आलोच् 10 p. विचर् c.)

परायण परायण a 1, (in com.)  
 आराज्य n 1, आधित्य a 1, तत्त्व  
 n 2.

पराया अय्य pro. 2, पर, अपर  
 pro. 3. (2) परकीय a 2.

पराशर पराशर, m) 2.

acc.)

परान्द्व अपराह् m 1.

परिक्रमा परितोत्रमण, परिक्रमण n 1.

परिक्रमा f 1. (—करना=परिक्रम्

1 or 4 p. परितोत्रम् 1 p.)

परिचित परिचित, अभिज्ञात, बोधक a

1, (2) ज्ञानवत् a 16, (gen.)

परिचिति परिचिति f 4, ज्ञान n 1,

बोध m 1, परिचय m 1.

परिणाम परिणाम, अन्त m 1, उदर्क

m 2, फल n 1, उत्तर फल n 1,

(—निकलना=परिणामः or फलं—

प्रकटीकृत pass. आविर्भू 1 p.)

परित्याग परित्याग, त्याग m 1, वर्जन

मोचन n 1. (—करना=परित्यज्

1 p. विद्युच् 6 p.)

परिधि परिधि m 4, प्रकार m 2,

परिवेश m 1, मण्डल n 1.

परिपाटी परिपाटी f 5, रीति f 4,

अनुक्रम, प्रचार, व्यवहार m 2,

परिपूर्ण परिपूर्ण, संपूर्ण a 1. (—करना=

सं-परि-पूर् 10 p. (2) समाप् c.)

(—होना=परिपूर् pass. (2)

समाप् pass.)

परिभाषा परिभाषा f 1, व्याख्या,

संज्ञा f 2, लक्षण n 1.

परिभाषा भाषा, परिभाषा n 1, तोल m

—1, (2) ऊहा f 2, (3) भाषा

m 2.

परिवर्तन परिवर्तन n 1, परिवृत्ति f 4

(—करना=परिवृत् c. स्थानान्तरं नै

( नयं ) 1 p.) (—होना=परि-

वृत् 1 a.)

परिचार परिवार m 2, कुटुम्ब m 1,

कुल n 1.

परिव्राज सन्यासिन्, न्यागिन् a 11,

परिव्राज् m 19, यति m 4.

परिश्रम परिश्रम, थम m 2, यत्न,

प्रयत्न, उद्योग, उद्यम m 1.

(—करना=यत् 1 a उद्योग कृ 8 p.)

परिश्रमो उद्योगिन्, परिश्रमिन् a 11,

यत्नशील a 1, सोद्यम a 1.

परिस्तान अप्तरः स्थान n 1, see

परस्तान above.

परिहार परिहार m 2, सखटन n 1.

(2) वर्जन n 1, निषेध m 1.

(3) अनादरे m 2. (—करना—

परिहृ ( हृ ) 1 p. निषिध् 1 p.

सखट् 10 p.)

परिहास परिहास m 1, विनोदोक्ति f

4, विनोदवाक्य, विनोद भाषण

n 1.

परी खविलासिनी f 5, अप्तरस् f 24

नाकरत्री f 8, सुन्दरी f 6.

परीक्षा परीक्षा f 1, परीक्षण, परीक्षीचन

n 1. (—करना=परीक्ष् 1 a.

पर्यालोच 10, परितः दृग् (परम्) 1 p.)

परीक्षित प्रीक्षित m 1, अङ्गन पौत्र m 2. (2) परीक्षित, अङ्गुत a 1 परे परतः, दूरम्-रे अन्यत्र adv. (—होना=दूरम्-अपसृ ( सर् ) 1 p. दूरी भू ( भव् ) 1 p. अन्यत्र गम् ( गच्छ् ) 1 p)

परेष्ट श्रेष्ठि भ्यायाम स्थान, शरत्रा भ्यात् स्थान, रण शिवालय n 1, अस्त्र शिवायु f 11, विशालाङ्गन n 1. परेत प्रेत, भूत a 1, पिशाच m 1, (स्त्री) पिशाची f 5.

परेशान व्याकुल, सम्भ्रान्त, व्यस्ताचित्त मोहित, उद्विग्न a 1, अधीर a 2. हेरान-—आध्वर्यान्वित a 1, साध्वर्य a 2,) (—होना=पुद् 4 p. उद्-घ्नज 1 a. आकुली भू 1 p.)

परोपकार परोपकार m 2, परकार्य साधन, परकार्य सम्पादन n 1. (—करना = परकार्याधि-साध् 5 p. सम्पद् 10 p. परसाहाय्यं कृ 8 p.)

परोसना भोजनं or भोज्य यश्चनि-

आसक्ती कृ 8 p.)

परहाई प्रतिविम्ब n 1, छाया, प्रति-  
छाया f 2.

पर्यटन परिभ्रमण, भ्रमण, पर्यटन n 1, (—करना = भ्रम् 1 or 4 p. परि-अट् 1 p.)

पर्यन्त पर्यन्तम् (in com.) यावद् (with acc.) ind.

पर्व महोत्सव, पुण्याह m 1, पर्वन् n 13. पर्वदिन n 1.

पर्वत पर्वत, नग m 1, गिरि m 5.

पल पल, घण n 1.

पल्लक नयनच्छद, नेत्रच्छद m 1.

पल्लंग पर्यङ्क m 1, खट्वा f 2.

पलाटन सैन्यदल n 1, सहस्र सैन्य m 1, सेना f 2.

पलटना परिपृत् c. निपृत्. ( यर्त् ) 1 a.

पल्लटा प्रतीकार m 2, प्रतिकृति f 4,

(2) प्रत्यावर्तन n 1, f प्रत्यावृति f

1, (—देना=प्रतिकृ 8 p. प्रतिकृ

तिकृ 8 p. c.)

पल्लडा तुला

अपवित्र a 2. (—करना=अप-  
वित्री कृ 8 p.) (—होना=अपवित्र  
a भू 1.)

पलीता स्थूल वर्ती f 5, स्थूलवर्ति f 4.  
पलेद्यन शुक् चूर्ण n 1, (—मारना=  
कपट वाक्यं-वद् 1 p. प्रतृ c.)

पल्लव पल्लव, किसलय m 1, पर्ण  
n 1, पत्र n 2.

पल्ला(ल्लु) अन्वलय n 1, वस्त्र श्रान्त  
m 1, दशा f 2, (2) तुषागार  
m 2.

पवित्र पवित्र a 2, शुद्ध, पूत, पावन,  
निर्मल a 1. (—करना=पवित्री कृ  
8 n. पृ 9 p.) (—होना=पू pas  
पूत a भू 1 p. पवित्री कृ pass.)

पवित्री कुरा मुद्रा, पूज मुद्रा f 1.

पद्य पद्य m 8, चतुष्पद m 1, गो  
m 12.

पशेमान लज्जित, पीडित a 1, (—होना  
=लज्ज् 1 a. लज्जित a भू 1 p.)

पशेमानी व्रीडा, लज्जा f 2.

पश्चात् पश्चाद् (with gen) अन्तु  
(acc.) अनन्तरम्, तदन्त- अथ  
ind.

पश्चात्ताप पश्चात्ताप, अनुताप, शोक  
m 1. (—करना=अनुशुच 1 p.

अनुतप 4 p. पश्चात्तापं कृ 8 u.)

पश्चिम प्रतीची f 5. पश्चिमदिश f 14.

पशतो अफगान भाषा f I, गान्धार  
भाषा f 1.

पश्म सूत्रमोर्षा. सुस्पृश्योर्षा f. कोमलो-  
र्षा f 2, सूर्षा f 2.

पश्मीना औषिन् a 11, कोमलोर्षा-  
मय a 1, स्त्रीर्षिक a 1.

पस अन्ततः, ततः, अतः तदा, पश्चात्  
ind.

पसरना वितन् pass. विस्तृ pass.  
प्रसृ (सर) 1 p प्रविश 6 p.  
अन्तः पत् 1 p.

पसली पर्युका f 1, पार्श्वक n 1,  
पार्श्वीय n 5.

पसारना विस्तृ c. वितन् 8 p. प्रसृ c

पसारा प्रसारण n 1, विस्तार m 2,  
(2) कार्य मार m 2, कार्य बाहुभ्य  
n 1.

पसारी अगद विक्रेतृ a 7, औषध विक्र-  
यितृ a 11.

पसीजना दू (द्रव्) 1 p. दवी भू I  
p. प्रेमाद्रं a भू 1 p. (2) प्रवद्  
4 p. कल्पयाद् (द्रव्) 1 p.

पसीना खेद m 1, पर्मे m 2, खेद  
जल n I.

पसंद अभिमत. संमत a I. रुचि कर  
a 2. ( करना=संमन् 4 A.

अभिलष 1 or 4 p स्वीकृ 8 u.

मनोवन्ध 9 a p. वृ a p.)

पहचान अभिज्ञान, ज्ञान n I. बोध  
 m I. (ज्ञान- =स्वरूप ज्ञान n I.  
 परिचिति f 4 परिचय m I.)  
 (-ना=अवबुध् ( बोध् ) I p.  
 अभिज्ञा 9 p. परिचि 5 p. निरूप्,  
 निवर्ण् 10 p. त्रिविच् c.)  
 पहनना परि धा 3 p. धृ ( धार् )  
 10 p. शरीरं आवृ 5 p.  
 पहर प्रहर m 2. याम m I.  
 पहरा रघाटन, रघा भ्रमण n I  
 (-देना=रघार्थं or रघार्थे-भ्रम् I  
 or 4 p — पर्यट् I p.)  
 पहराना परि धा c. (धापयति) धृ c  
 पहरे घाला प्रहरिन्, रघाधिकारिन् a  
 11, रघापुरुष m 2 रघिन्  
 a 11.  
 पहलवान मरुल m I. मरुल विद्या  
 विशारद m a I. वलिन् a 11.  
 वलवत् a 16.  
 पहलू पध m 2. पार्श्वे n I. (२)  
 तुला फलक n I.  
 पह्लाड़ पर्वत, शैल m I. गिर, अद्रि  
 m 5.  
 पह्लाड़ा गुणन क्रम् m 2.  
 पह्लाड़िया पर्वतीय a I. पर्वत वासिन्  
 a I.  
 पह्लाड़ी लघु गिरि m 5. शैलपाद m  
 I. प्रत्यन्त पर्वत m I. नाकु m

8. (२) पर्वतीय a I. पर्वतीय  
 देशवासिन् a 11.  
 पाहिया चक्र, रथचक्र n 2.  
 पाहिला प्रथम, आदिम a 1.  
 पहुंच प्राप्ति f 4, (२) रमर्थ्य n I,  
 शक्ति f 4, (३) गम्यता f 2.  
 (-ना=प्राप् 5 p. आ-सभा-सद् c.  
 उपागम् I p गोचरी कृ 8 p.  
 बुद्धिगम्य a विधा 3 p.)  
 पहुंची इस्तारभण n I.  
 पहेली प्रहेलिका f प्रवहिका f 2. प्रथ  
 दूतो f 5. कूट n I.  
 पांच पञ्च num 5. (-वां=पञ्चम a )  
 (-वां=पञ्चमी f 5.)  
 पांडे पण्डित a I. उपाध्याय (२) तीर्थ  
 दुरोहित m a I.  
 पांति पंक्ति f 4, श्रेणी, आवली f 5  
 माला f 2.  
 पांच पाद m I, पद, चरण n I. अंघ्रि  
 m 5.  
 पा प्रथ पाद, प्रथ तुर्यांश m I. प्रथ  
 तुर्यांशमान n I. (-वन्द=अधीन,  
 वश्य a I.)  
 पाई अंश मुद्रा f I. पण तृतीयांश m I.  
 पाक पक्वान्न, पक भोज्य n I (२)  
 पचन n I. (३) पवित्र a 2. शुद्ध,  
 निर्मल पूत a I. -करना=पृ 9  
 p. पवित्री कृ 8 p.) (-होना=पृ

Pass. पवित्रो कृ Pass.)

पाकीजा See पाक above.

पाखंड कपट, कैतव, कूट n I. छद्म n 12.

पाखंडी कापटिक, छात्रिक a I. कूट कारिव् a 11.

पागल विचित्र, नातुल a I.

पाचक पाचक m I. ( स्त्री ) पाचिका f 2. भोज्यकर्तु, अन्न सत्कर्तु a 7.

पाजामा पादशाटक, नद्दावरण n I

पाजी छुद्र, कातर a 2 निकृष्ट a I.  
(-पन=छुद्रता, निकृष्टता f 2.)

पाजेव पादालङ्कार m 2. पादमूषण n I.  
नूपुर n 2.

पाट काष्ठ फलक, फलक n I. (2)  
आयाम, पारथाह m I. पृथुता,  
विशालता f 2. (राज=रज्य,  
राजासन n I)

पाटम्बर पटाम्बर n 2. पटवसन n 1.

पाटी पट्टिका, लेख पट्टिका f 2. लेख्य फलक n I.

पाठ पठन, निर्वाचन, अध्ययन, आवण n I पाठ m I (-करना=पठ्  
I p. अधी 2 A. निवेच् c.)

पाठक शिक्षक, अध्यापक, पाठक t I

पाणि पाणि m 4. हस्त n I. कर m 2.

पाणिनि पाणिनि मुनि m 4.

अष्टाध्यायीनिमातृ a 7.

पाण्डव पाण्डव a I पाण्डु पुत्र m 2.

पाण्डित्य पाण्डित्य n I. चातुर्य n 2.  
प्रवीणता, बुद्धिमत्ता f 2.

पात पलव m I. पर्यं n I. (2) पक शर्करा f I. शोधित सिग f 2.

पातक पातक, पाप n I. दोष m 2.  
अपराध m I. (2) आणौच n I.

पातञ्जल पतञ्जलि निर्मित a I. योग शास्त्र n 2. पातञ्जल a I.

पाताल पाताल, रसातल n I.

पाती लेखपत्र, सन्देश पत्र n 2. सन्देश लेख्य n I.

पात्र पात्र n 2. भाजन, भाण्ड n I.  
(2) योग्य a I. (-ता=योग्यता' पात्रता f 2.)

पाथना गोमय पिष्टकानि-रच् 10 p.  
निर्मा 3 u. (2) इष्टकः रच् 10.  
निर्मा 3 u.

पाथी गोमय पिष्टक n I.

पाद् पाद m I. चरण n I. ग्रंथि m 5. (2) चतुर्पक्ष, तुर्यास m I

पादश्री काष्ठ धर्मोपदेशक, क्रिश्चियन मत पुरोहित a I

पादशङ्ख श्य m 2. मूपति, नरपति n m 4.

पांधा उपाध्याय, अध्यापक; पाठक m a I.

पान ताम्बूल, ताम्बूलपर्ण n 1 (-करना=  
पा ( विच् ) I p .

पानदान ताम्बूल पात्र n 2.

पाना अधिगम् ( गम्ह ) I p विन्दु I  
a. प्राप् 5 p, लम् I a

पानी जल, उदक n 1 नीर n 2.  
वारि n 3

पाप पाप, पातक n 1. दोष m 2.  
अपराध m 1.

पापदृ शिष्योपदेशक, वेदकाव्य n 1

पापा जनक m 1 विनु m 10, (2)  
पालक a 1.

पापात्मा पापिन a 11, पापमन् a  
17. पापाचार a 2

पापिष्ठ पापसत, पापासक a 1.

पापी दुराचार a 2. पाताकिन a 11,  
पाप a 1 See पापात्मा above.

पापाश उवानच् I 24. पादत्राय n 1.  
पाप्मर नीच विकृष्ट a 1. क्षुद्र n 2.

पार उत्तर तीर, द्वितीय तीर, रत्तर तीर  
n 2. द्वितीय तट n 1. (-करना=  
नदी कृ, वृ ( तर् ) I p. उत्तृ I

p. पार गम् ( गम्ह ) I p. पारं-  
प्राप् 5 p.) (-उत्तरना=उत्तृ I p.)

पारमार्थिक उपकार परायण a 1. उप-  
कारिन् a 11.

पारस्व स्पर्शपाणि m 1, स्पर्शपाणि  
m 4.

पारसा ईश्वर भक्त a 1. (2) पतिभ्रता  
स्थी f 8.

पारस्ताल गतवर्ण, अतीतवत्सर n 2.  
(2) आमाविसर्प n 2.

पारस्त्री पारसीक, पारस देशीय a 1

पारा पारद. घृत, पारत m n 1.

पारापार कृष्णद्वय, उभयतट n 1. (2)  
अन्त m 1.

पाराशर वेदव्यास m 1. पाराशर पुत्र  
m 2.

पालयित् a. 7.

पालकी शिषिका f 2. यापयान n 1.

पालन पालन, पोषण, रक्षण, भरण  
n I. (-करना=प्रृ 4 p. पा c  
(पालयति) )

पालना पुष् c. पाल् 10 प्रासाच्छादनं  
दा 3 p.

पाला शीत n I.

पालागन प्रणाम, पादप्रणाम m I.  
(-करना=पादगोः नम्, प्रणम्

पाली मगध भाषा f I. मागधीय भाषा  
f I.

पाव पाद तुर्यांश m 1. प्रस्यतुर्यांश m  
I. (-भर=प्रस्यतुर्यांशमित a I.

पावन पावन, पूत, शुद्ध, निर्मल a I.  
पवित्र a 2.

पावली चतुराणक मुद्रा f I. (2)  
तन्तुवाय m I.

पाशापाश द्विज भिज a I. बहु शकल  
a I. (-होना=भिद् Pass.)  
(-करना=विद्, भिद् 7 p. शकली  
कृ 8 p.)

पाशा अक्ष, कीड़ा, m 2.

पापंड कैतव, लल, कपट n I. लषन्  
n 12.

पापंडी छात्रिक, कापटिक a I.

पापाण पापाण m I. प्रत्तर m 2.  
अशमन्, आवन् m 23.

पासंग समीकरण, तुलासाम्य n I.

पास पार्थे-धम्-निकटे-टम्, मन्तिके-कम्,  
समाप्ते-पम् adv.

पास (श) पारा m I. जाल, बन्धन  
n I.

पाहुना अतिथि m 4. प्राघुणिक a I.

पिंडील पाण्ड मृत्तिका f 2.

पिघलना विली 9 p. विद् (द्व्) I  
p. गल्, कर् I p. (2) दयादींश्च  
( भव् ) I p. करुणया द्रु ( द्व् )  
I p.

पिघलाना विली, विद्, गल् c. दयादीं  
कृ 8 p.

पिङ्गल छन्दः शास्त्रकर्तृ a 7. पिङ्गल-  
चार्य m 2. छन्दः शास्त्र n 2.

पिचकारी धारायन्त्र n 2. शृङ्गक n I.  
वस्ति m 4. (-मारना=शृङ्गकात्  
धारां उदस् 4 p.)

पिचपिचा स्निग्ध, सत्नेह a I.

पिङ्गला गत, अतीत, यात a I. (2)  
अन्त्य, मन्तिम a I.

पिङ्गवाड़ा पृष्ट भाग m I. पृष्ट देरा  
m I

पिङ्गड़ी अश्वपाद बन्धनी f 5. पृष्टपाद  
बन्धनी f 5. पाद बन्धनी 5 f.  
पाद रज्जु f 9.

पिङ्गजर अरियकाय, निर्मांस देह m I.  
(2) दुर्बल a I.



I p. आक्रुश् I a. प्रार्थ 10 a.)  
 पुकारना छे ( व्हय् ) I p. आक्रुश्  
 I p. प्रार्थ 10 u.  
 2 पुखता दद a I. ददाभि सन्धि a 4,  
 (2) परिषक, निपुण, निप्यात a I.  
 चतुर a 2. (-करना=ददतामापद्  
 10, ददा कृ 8 u.) (-होना=परि-  
 पक a भू I p. नैपुण्यं प्राप् 5p.)  
 1 पुखतगो ददता f 2. (2) निपुणता,  
 परिषकता f 2.  
 पुर्गीफल पूर्गीफल, पूग, ताम्बूल m I.  
 पुजारी पूजक, देवल a I. पूजा जीवित्  
 a 11.  
 पुञ्ज राशि m 4. चय ; समूह, पुञ्ज  
 m 1  
 पुडिया पत्रमन्थि, पर्यमन्थि f 4, (2)  
 अगदमात्रा, थौपधमात्रा f I.  
 पुण्य पुण्य. सकृत् n I. शुभकर्मन्  
 n 13.

पवित्र a 2. see पुण्य above.  
 पुर पुर, नगर n 2. (2) पूर्ण, परिपूर्ण,  
 पूरित a I. (-करना=पूर, 10 p.)  
 (-होना=पूर, Pass. पूर्ण a कृ  
 Pass. पूर्ण a भू I p.  
 पुरजा खण्ड, शकल, विदल n I. अरा;  
 लव m I. (कागज का=पत्रांश  
 m I.  
 पुरा नगर n 2. (2)  
 वीथी f 5 रथा f 2.  
 पुराण पुरातन, प्राचीन, पुराण a I.  
 (2) आर्चनितिरास m I. कथा  
 ग्रन्थ m I प्राचीन पुस्तक n I.  
 पुराना जीर्ण, शीर्ष्य a I. (2) पुरातन,  
 प्राचीन, पुराण n I.  
 पुरी पुरी, नगर f 6.  
 पुरीय-पुरीय n 2. मल n I. विद्या  
 f 2. उच्चार m 2.  
 पुरुष पुरुष, नर, 2. मानव  
 m I. (2)

पुल. सेतु m S. धरण n I. संतर  
m 2.

पुलक पुलक n I. शरीर रोमन् n 13.  
रोमात्र m I.

पुलकित पलकित, रोमाञ्चित, हर्षित,  
सञ्जात पुलक a I.

पुलिस नगर प्रबन्ध m I. नगर रक्षा  
f I. रक्षा f 2. (2) रक्षक m I.  
रक्षिण m I. रक्षाधिकृत a I.

पुल्लिग पुण्यवाचक a I. पुष्पिण n I.

पुशत पृष्ट देश, कटि प्रदेश m I. (2)  
वंशावली f 5. वंश परम्परा f I.  
(-व-—वंशक्रमेण adv.) (-प-  
नाह=रक्षा f I. शरण n I.)

पुष्कर पुष्करान्न m I. पुष्कर तीर्थ  
n I.

पुष्ट पुष्ट, परिपालित, स्थूल २ I.  
(-होना=पुष् 4 p. पुष्ट a ५ I p.)  
(-करना=पुष् 4 p. c.)

पुष्प पुष्प n 2. प्रसून, कुसुम n I (2)  
नेत्ररोग m 2.

पुष्य पुष्य m 2. पुष्य नक्षत्र, अष्टम  
नक्षत्र n 2.

पुस्तक पुस्तक n I. ग्रन्थ m I.

पूआ अपूर m I. स्निग्ध-मधुर-पिष्टक  
n I.

पूछ पुच्छ पुच्छक, गुदावरण n I.

पूछना s. प्रश्न m I. (v, t) प्रच्छ्

( पृच्छ् ) I p.

पूञ्जी मूलधन, धन n I. मूलसंपत्ति,  
सम्पत्ति f 4.

पूग पूग n I (Fruit) पुत्रागवर्ही f 5.  
नागलता f 2. (tree) see पूंछ  
above.

पूछना See पूंछना.

पूजन पूजन, अर्चन n I. पूजा, सेवा  
अर्चा f 2. सत्कार, आदर m 2.  
(-करना=पूज् 10 p. अर्च् I a  
or 10 भञ्. सेव् 1 a.)

पूजा See पूजन above.

पूत See पुत्र above, (2) पूत,  
पावन, शुद्ध a I. पवित्र a 2.

पूतना पूतना राक्षसी f 5.

पूनी तूलशालाक, तूलवर्तिका f 2.

पूनों पूर्णिमा f 2.

पूरन सिद्ध, सम्पन्न, पूर्ण, परिपूर्ण a I.  
(-होना=सिध् 4 p. संपद् 4 a.)  
(-करना=साध् c. संपद् c.)

पूरय प्राची f 5. पूर्वदिग् f 14.

पूरा पूर्ण, सिद्ध, ससम्पन्न a I. (2)  
समस्त a I. समग्र a 2. (-होना=  
मृ ( मिष् ) I a. (2) संपद् c.  
pass. पूर्णा कृ pass, ममाप्  
pass., (-करना=साध् 5 p.  
संपद् c. समाप् c.)

पूरी अपूपिका f 2, स्नेहापूप m I.

पूर्ण see पूरा above. (-मासी= पूर्णिमा f 2.  
 पूर्णमा पूर्णिमा f 2. पूर्णचन्द्ररात्रि f 4.  
 पूर्णाहुती पूर्णाहुति f 4. अन्तिमहोम m I. वलिहोम m I.  
 पूर्व पूर्व pro 3. प्रथम, आदिम a I.  
 (2) प्राणी f 5. पूर्वदिग् f 14.  
 पूला पूलक, तृणपूलक n I.  
 पूस पौष m 2. पौषमास m I.  
 पृथक् पृथक् adve. भिन्न a I.  
 पृथिवी पृथिवी, धरणी f 5. धरा f I.  
 भू f 11, भूमि f 4.  
 पृथु पृथु a 6. स्थूल a I  
 पृथ्वी पृथ्वी f 5. see पृथिवी above.  
 पृष्ट पृष्ट n I. पृष्ट देश, पृष्ट भाग m I.  
 पेच कर्पणा f 5. ध्यावर्तन कील n I.  
 (2) छल, कैतव n I. (2) संकट n I. विपत्ति f 4.  
 पेलिश अन्न पीड़ा f 2.  
 पेष्ट उदर जठर n 2.  
 पेटी कटि पट्टिका f 2. कटिवन्धनी f 5.  
 पेठा कुम्हार m I.  
 पेड़ वृक्ष m I. तरु m 9. पादप  
 पेड़ा पिएड m I. (2) पयस्यक n I.  
 पियव पियव m I. मिष्टकियव n I.

पेशन जराजीविका f 2. वाडेक वृत्ति f 4. जरावेतन, विधामवेतन n I.  
 पेश भाभिमुखम्, सम्मुखम्, प्रत्यक्षम् adve. (2) साम्मुखीन a I. (-करना= पुरुतः स्था c. पुरुतः or सम्मुखे-क 8 p. भाभिमुख्यं नी ( नय् ) I p.) (-होना=साम्मुखीन a भू I p, उपस्था ( तिच्छं ) I a. प्रत्यक्षी भू I p.)  
 पेशगी उपन्यास m I. उपन्यस्तथन n I. (2) उपन्यासतया adve.  
 पेशचा नायक, पथप्रदर्शक, आज्ञापक a I. अधिष्ठातु a 7. अध्रणी m 7.  
 पेशवाई सम्भावना f 2. प्रत्युद्गम m I. सभाजन n I. उपचार m 2.  
 पेशा कार्य n 2. कृत्य n I. वृत्ति f 4. जीवनोपाय m I. (-करना= व्यभिचर् I p. भगभङ्ग कृ c.)  
 पेशाच मूत्र n 2. प्रस्राव m 2 मेह m I. (-करना=मेहं-कृ 8 u. मूत्र उत्सृज् I p. प्रमेहं प्रमु c.)  
 पेशाचर परशुपर n 2.  
 पैताना लट्वा परिचम भाग m I.  
 पैताळीस पञ्चचत्वारिंशत् f 16. (-वां= पञ्चचत्वारिंशत्तम a I.)  
 पैतीस पञ्चत्रिंशत् f 16. (-वां=पञ्चत्रिंशत्तम a I.

पैसठ पञ्चषष्टि f 4. (-वां=पञ्चषष्टितम  
a 1.)

पैगम्बर ईश्वर दूत m I. ईश्वर सन्देशहर  
a 2. ईश्वर वार्तावह m I. अक्व-  
तार m 2,

पैगाम सन्देश m I. वचन n I.  
वार्ता f 2.

पैदल पदाति m a 4, पादचारिन् a  
11, (2) पदम्यामेव, विनायानम्  
adv.

पैदा आय m I. प्राप्ति, उत्पत्ति f 4.  
प्रसव m I. (-करना=उत्पद् जन्  
c. प्रसू J a.) (-होना=जन्, प्रसू-  
उत्पद् pass.)

पैदायश जन्मन् n 12, उत्पत्ति f 4.

पैदाचार आय m I. कृषिलाभ m I.  
कृषिधन n I. कृष्याय m I.

पैमाना मान, मनसाधन n I. मान  
यन्त्र n 2.

पैमाशय मान, भूमिमान n 1. क्षेत्रमा-  
पन n I. (-करना=प्र-परि-मा  
3 a. or c.)

पैया चक्र, रथ चक्र n 2.

पैर चरण, पद n I. पाद m I. अंगि  
m 5.

पैरवी अनुगमन, अनुसरण n I.  
(-करना=अनुगम् ( गच्छ् ) 1 p.  
अनुसृ ( सर् ) 1 p. (with

acc.)

पैरो अनुगामिन्, अनुसरिन् a 11,  
(-कार=अभियोगानुसारिन् a 11.)

पैसा पण m I. पणमुद्रा f I. (2)  
धन n I. (-वाला=धनाढ्य a I.  
धमिन् a 11, धनवद् a 16.)

पोखर पुष्करक्षेत्र n 2. पुष्करराज m I.  
पुष्करतीर्थ n I.

पोच दुर्वल a I (2) लुद a 2. नीच,  
निकृष्ट a 1.

पोटला कूर्च m n. 1 भाण्ड n I.

पोटली फोटलिका f 2

पोटा नेत्रद्वार, नयनद्वार m. n. 1.

पोतड़ा वालास्तरण n 1. शिशु मल  
शोधन n 1.

पोतना लिम्प 1 p. on c.

पोता पौत्र m 2.

पोती पौत्री f 6.

पोथी पुस्तक n I ग्रन्थ m I.

पोदिना मरीच, कालक, वेरलज, कृष्ण,  
ऊषण n I.

पोना सूत्र 10 p. (2) इन्दुदण्ड m 1,  
इन्दु फल n I.

पोप रोमन कैथलिकमता चार्च m 2.  
रोमन कैथलिक सम्प्रदाया चार्च m  
2. धनेन मोक्ष दातृ a I. पोपाभि-  
वेय m I.

पोला निःभार, अस्तर गर्भ a 2. गः

शून्य a I.

पोलेटिकल नैतिक, राजनैतिक a I,

पोषण पालन, पोषण, भरण n I.

(-करना=पुष् c. ( पालयति )  
प्रासाच्छादवं दा 3 p.)

पोशिश वसन आच्छादन n I. (2)

वेश m I. वेप m 2. मण्डन

निधि m 4. परिष्कार m 2.

पोशीश युप्त, निम्नत, प्रद्वन्न, अन्तर्दित

a I. रहस्य n I. or a I.

(-होना=तिरोभू I p. अन्तर्धा

pass. प्रच्छद् c. pass. ( २ )

अगोचरी भू I p) (-रखना=पुष्

I p. ( गोपयति ) अन्तर्धा 3 p.)

पोशीदगी गोपन n I. गुप्ति f 4.

तिरोधान n I.

पोस्त खस-तिल-पुट n I. खस तिल

कोष m 2.

पोस्ती खस तिल पायक a I. पालस्य-

वत् a 16. अलस a I.

पोस्तीन च. वरण n I. चर्म प्रावस्थ

n I.

पौड प्रस्थार्ध मान n I. (२) निष्क

m 2. स्वर्ण मुद्रा f I.

पौडर चूर्ण, पिष्ट n I. सौद m I.

पौत्र पौत्र m 2. आत्मन पुत्र m 2.

पौदा बाल वृक्ष m 2. लता f 2,

पौन धितुय a 2. पादोन a I-

पौना पादोन a I. see पौन.

पौर पौर, नागर, नागरिक a 2. ( 2 )

द्वार n 2. द्वाराङ्गण n I. \*

पौरुप पौरुप n 2. बल n I. पराक्रम

m 2. शक्ति f 4.

पौ ( पो ) शाक see पोशिश above

परिधेयवसन n I.

पौर्णमाशी पूर्णिमा f 2. पूर्णिमा तिथि.

f 4

पौव पौव m 2. पौवमास m I.

२ पंगु पंगु a 6. स्वञ्ज, व्यंग, खोडल

a I.

1 पंत पत्त m 2.

पंखड़ी पुष्प पत्र n 2.

पंखा व्यजन n I. (-करना=वीजू 10

p. व्यजनेन मारुतं-सं स्पृश c.)

पंगत पंक्ति, श्रेणि f 4 ( 2 ) स्वजनता

f 2. जाति f 4. (-से-बाहर a=

बहिष्कृत, जाति निष्कासित a I.)

(-करना=जाते: बहिष्कृ 8 p.

स्वजनताया: निष्कास c.

पंगला पंगु a 6. स्वञ्ज, व्यंग, खोडल

a I.

पंच अग्रणी m 7. मुख्य, नायक a I.

प्रधान a I.

पंचायत जति समा. स्वजनता f 2

पंछी पछिन् a II. खग m I. खेचर

m 2.

पंज पञ्चन् num, 5, (-वां=पञ्चम a I  
(स्त्री) पञ्चमी b 5.

पंजा पञ्चाल n I हस्त मुद्रा f I.

पंजाव पञ्चनद m I. पञ्चाम्बु देश  
m I.

पंडा पण्डित a I. तीर्थ पुरोहित m I.

पांडित, निपुण a I. शुद्धमति a 4.  
विवेकिन् a II,

पंथ मार्ग m 2. पथिन् m 26. (2)  
मत n I. सम्प्रदाय m 2.

पंद्रह पञ्चदशन् num 10, (-वां=  
पञ्चदश a I. (स्त्री) पञ्चदशी f 5.

पंस्तारी औषधविक्रयिन् a I, अगद  
विक्रेतु a 7.

प्याङ्ग लशुन n I.

प्यादा पदाति a 4. पाद चारिन् a II,  
पदचर a 2.

प्यार स्नेह m I. अनुराग m 2. प्रीति  
f 4. वास्तव्य n I. प्रेमन् n 13.

(-करना=स्निह् 4 p. (with  
acc.) कम् 10.p प्री, अनुरज्

आसंज् pass, अनुरागं दृश c.)

प्यारा प्रिय a 2. दयित, कान्त, मनीषित  
हृद्य a I. (-लक्षणा=दयित a अस्

2 p. हृद्य a मू 1 p.  
प्यारी प्रिया f I. कान्ता, दयिनी f 2.

प्याला शगव m 2. चपक n 2.  
प्यास तृषा f I. तृषणा, पिपासा f 2.

(-दुष्काना=जलं-पा (पिव्) I p.  
तृषां शम् c.) (-लक्षणा=पिपासां-  
अनुभू I p.)

प्रकट प्रकट्म् प्रत्यक्षम् प्रकारम् adv.  
(2) प्रकटित प्रकाशित a I.

प्रत्यक्ष गोचर a 2. (-करना=  
प्रकटीकृ 8 u. आविष्कृ 8 u.  
आविर्भू c. प्रकाश c.) (-होन=  
आविर्भू I p. प्रकट a भू I p  
प्रत्यक्षं भू I p.)

प्रकरण प्रसंग m I. विषयक्रम m 2.  
प्रकरण n I.

प्रकार m 2. रीति f 4. विधि m 4  
2 प्रकृत प्रकृत, प्रस्तुत, आरब्ध, प्रसंगगत  
प्रचलित a I.

3 प्रकृति मूल, आदिकारण n I प्रकृति  
f 4. गुणसाम्यावस्था f 2. (2)  
स्वभाव m I

1 प्रकाश प्रकाश, तमोऽभाय m I  
दीप्ति f 4. उज्वलता f 2.

प्रकाशित प्रकाशित; आविर्भूत, प्रकट  
(2) प्रसिद्ध, विख्यात a I. गोचर

a 2. (-करना=प्रकाश c. निष्कास  
10 p प्रकटी कृ 8 p मुद् c)

(-होना=मुद्र प्रकशू pass. प्रकटी  
कृ pass. आविर्भू I p.)

प्रक्षेप प्रक्षेपण, निरस्तं n I. त्याग  
m I. प्रक्षेप m 2 (-करना=

प्रक्षिप् 6 p. निरस् ५ p.)  
 प्रख्यात प्रख्यात, विख्यात, प्रसिद्ध a I.  
 (-होना=प्रसिद्ध a भू I p.)  
 (-करना=आख्या or विख्या c.  
 प्रसिद्धि-नी ( नय् ) I p.)  
 प्रगट see प्रकट above.  
 प्रचंड प्रचण्ड, चण्ड, तीक्ष्ण a I. प्रञ्च-  
 लित a I. (-करना=प्रञ्चल् c.)  
 (-होना=प्रञ्चल् I p चण्ड a  
 भू I p. प्रञ्चल् c. pass.)  
 प्रचलित, प्रचलित, व्यवहृत, व्यवहार-  
 गत a I.  
 प्रचार प्रचार, व्यवहार m 2. (-करना=  
 प्रचर् c. व्यवहृ ( हर् ) c.)  
 (-होना=प्रचलित a भू I p.  
 व्यवहृ pass.)  
 प्रजा प्रजा f 2. अधीनजन n I.  
 प्रकृति f 4  
 प्रण प्रण, समय नियम m I प्रतिज्ञा  
 f 2. (-करना=प्रतिज्ञा १ p. प्रणं  
 कृ 8 u.)  
 प्रणच प्रणव m I. श्रौंकार m 2.  
 श्रौम् ind.  
 प्रणाम प्रणाम m I. प्रणति f 4. नम-  
 स्कार m 2. (-करना=प्रणम् I p.  
 नमस्कृ 8 u.)  
 प्रताप प्रताप m I. तेजस् n 15.  
 ऐश्वर्य n 2. प्रतिपत्ति f 4.

प्रतिकूल अतिकूल, विरुद्ध a I. विरुद्धा-  
 चारिन् a 11, (-होना=विरुद्ध a  
 भू I p. प्रतिकूल-आचर्, p.)  
 प्रतिग्रह प्रतिग्रह m 2. दान n I.  
 (-उठाना=संकल्पितवस्तुनि प्रतिग्रह  
 १ p. आदा 3 p.)  
 प्रतिज्ञा see प्रण above.  
 प्रतिदिन प्रतिदिनम्, प्रत्यहम्, नित्यम्  
 adv.  
 प्रतिनिधि प्रतिनिधि m 4. प्रतिहरक  
 a I.  
 प्रतिपादक, बोधक, वाचक a . वर्ष-  
 धितृ a 7.  
 प्रतिपालक पालक, पोषक a . मासा  
 द्वादन दातृ a 7.  
 प्रतिपालना पालन, पोषण, भरण n I.  
 (-करना=पा c. (पालयति) पुपु  
 4 p or c. भू I p मासाद्वा-  
 दनं दा 3 p.)  
 प्रतिबन्ध प्रतिबन्ध, विघ्न m I. अन्त-  
 राय m 2  
 प्रतिमा प्रतिमा f 2. मूर्ति f 4 प्रति-  
 विम्ब n I, 2) सादृश्य n I.  
 प्रतिवादी प्रतिवादिन् a 11, प्रतिवक्तृ  
 a 7. वादिन् a 11, (2) अभि-  
 योज्य a I  
 प्रतिविम्ब प्रतिविम्ब n I. प्रतिमूर्ति

f 4. प्रतिच्छाया f 2.  
 प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा f 2. मान n I.  
 आदर सत्कार m 2.  
 प्रत्यक्ष see प्रकट above. (2)  
 आविर्भाव m I.  
 प्रत्युत्तर प्रत्युत्तर n 2. प्रतिभाषण n I.  
 (--देना=प्रतिभाष I A.)  
 प्रत्येक प्रत्येक a I. 'समस्त a I.  
 शेष a 2. मयं pro I.  
 प्रथम प्रथम, आदिम a I.  
 प्रदक्षिणा परिक्रमण, सर्वतोभ्रमण n I.  
 परिभ्रमण n I. (--करना=परिक्रम्  
 I or 4 p. परितः भ्रम् I p.)  
 प्रदर्शनी f 5. बहुवस्वालीक m I.  
 वस्तुसंग्रह प्रकाश m I.  
 प्रदान प्रदान, दान n I उत्सर्ग m 2.  
 त्याग m I. (--करना=दा (यद्) I)  
 प्रदीप प्रदीप, दीप m I.  
 प्रदेश प्रदेश, विभाग, देश m I. स्थान  
 n I. (2) मान्य देश m I.  
 समृद्धि देश m I.  
 प्रदोष प्रदोष m 2. समयकाल m I.  
 रजनीधुल्ल n I.  
 प्रद्युम्न प्रद्युम्न m I. कामावतार m 2.  
 प्रधान मुख्य, प्रधान, अग्रगण्य, नायक  
 a I, अग्र्यत् a 2. अधिपति m  
 4. अग्रणी m 7.  
 प्रपञ्च धल, कपट, कैतव n I.

प्रपितामह प्रपितामह, पितामह जनक  
 m I.  
 प्रपितामही प्रपितामही, पितामह जननी  
 f 5.  
 प्रपौत्र प्रपौत्र m 2. पौत्र पुत्र m 2.  
 प्रपौत्री प्रपौत्री, पौत्र पुत्री f 6.  
 प्रफुल्ल प्रफुल्ल, आनन्दित, हर्षित, प्रसन्न  
 विवसित a I.  
 प्रफुल्लित see प्रफुल्ल, (--होना=प्रमुद्  
 l a. विवसित, प्रफुल्ल a भू I p)  
 प्रबन्ध प्रबन्ध m I. (--करना=सुप्रबन्ध  
 कृ 8 p.)  
 प्रबल प्रबल, उत्कृष्ट a I. बलवत्तर a 2.  
 बलवत् a 16.  
 प्रवाह प्रवाह, परिवाह m I. स्रोतम्  
 n 15. (2) व्यवहार प्रचार m 2.  
 प्रभा प्रभा f I कान्ति, दीप्ति f 4,  
 शोभा f 2. प्रकाश m I.  
 प्रभात प्रभात, निरावसान n I. अरु  
 गोदय m I. प्रातःकाल m I.  
 प्रभाष प्रभाष m 2 प्रभुता f 2 प्रताप  
 m I. तेजस् n 15.  
 प्रभु m 9. ईश्वर m 2. स्वामिन्  
 a 11  
 प्रभुता प्रभुता f 2. स्वाम्य n I. प्रभुत्व  
 n I. ऐश्वर्य n 2.  
 प्रमदा प्रमदा f 2. युवती i 5. बाला  
 f 2. कामिनी f 5.



प्रमा प्रमा f I. प्रमिति f 4 ज्ञान n I.

प्रमाण प्रमाण, साधन n I.

प्रमातोमह, मातामहजनक m I.

प्रमाद प्रमाद, व्यामोह m I. स्वलन  
n I. (-करना=प्रमद् (माद् 4 p.  
व्यामोह 4 p.) (2) अहंकार, गर्व  
m 2. अभिमान n 2

प्रमेह m 2. सूत्रकृच्छ्र n 2.

प्रयत्न प्रयत्न, उद्योग, उद्यम m I.  
परिश्रम m 2. (-करना=प्रयत् I  
A. उद्योगं कृ 8 u. व्यवस्  
4 p.)

प्रयाग तीर्थराज, प्रयाग m I विवेकी  
f 5.

प्रयोजन प्रयोजन, निमित्त, कारण n I.  
अभिप्राय m 2. आशय m I.

प्रलय प्रलय, सृष्ट्यन्त m I. लोक  
संहार m 2.

प्रलाप प्रलाप m I. जल्पन, वृथा  
भाषण, निरर्थक वचन n. I (-कर.  
ना=प्रलप्, प्रजल्प l. p. निरर्थकं  
वद् I p इथा भाप् l A.)

प्रवर प्रवर a 2. श्रेयस् a 15. (2)  
गोत्र-प्रवर m 2.

प्रवीण प्रवीण, विशारद a I. पद् a 6.  
दत्त, चतुर a 2.

प्रवेश प्रवेश, अन्तःपात m I. (-करना  
=प्रवेश 6 p अन्तः पत् I p.)

प्रशंसा प्रशंसा f 2. स्तुति f 4. (-कर  
ना=प्रशंसुं 0 p. स्तु 2 p.)

प्रश्न प्रश्न m I. पृच्छा, जिज्ञासा f 2.  
(-करना=प्रच्छ (पृच्छ I p.)

प्रसंग प्रसंग m I. विषय m 2. प्रकरण  
n I.

प्रसन्न प्रसन्ने, प्रसुदित, ध्यानदित, प्रसुल्ल  
a I. (-होना= प्रसुद् (मोद्.)  
I A. प्रसन्न a भू I p. (-करना)  
=प्रसद् c.)

प्रसाद प्रसाद m I. प्रसन्नता f 2.  
(2) पारितोषिक n 2.

प्रसिद्ध, प्रसिद्ध विख्यात० विश्रुत a I.  
(-होना=प्रसिद्ध a भू I p.) (-कर  
ना=प्रचर c. प्रख्याति नी (नय्)  
I p)

प्रसूति प्रसूति f 4. जनन n I. प्रसव  
m I. उत्पत्ति f 4.

प्रस्तार विस्तार m f 4.

प्रसंग संगति सम्बन्ध c.)

प्रस्थान प्रस्थान, गमन n I. यात्रा f I.

(-करना=प्रस्था ( तिष् ) I A.)

प्रहर प्रहर m 2. याम m I.

प्रहसन प्रहसन, विनोदवचन. हास्य  
n I. विनोदोक्ति f 4. परिहास  
m I.

प्रहार प्रहार m 2. अभिघात m I.

ताडन n I. (-करना=प्रह ( हर )

I p. अभिहन 2 p. तड 10 p.)

प्रह्लाद प्रह्लाद m I. हिस्सप-  
काशपुतनय m I. (2) आल्हाद  
m I.

प्रह्वित्त युत, प्रह्वत्, ह्व a I. रहस्य  
a I. (2) स्वीय, आत्मीय, निज  
a I.

प्राक् पूर्वम्, प्राक्, पुरा adv. (2) पुरतः  
पुरम्, सम्मुखे adv.

प्राकृत प्राकृत n I. प्राकृत भाषा f I.

अपभ्रंश भाषा f I. (2) प्राकृत

a I. साधारण a I. अल्पविभूति-  
मत् a 9.

प्राचीन प्राचीन, पुराण, पुरातन, प्राक्-  
तन a I.

प्राज्ञ प्राज्ञ, निष्णात, सुबुद्ध a I. बतुर  
a 2. बुद्धिमत् a 9.

प्राण प्राण m I. (in-pl.) जीव  
m I.

प्राणान्त प्राणान्त, देहान्त m I. मृत्यु

m 8. (-होना=पश्यत्वं गम् ( गच्छ )

I p. मृ ( म्रिय् ) I 1.)

प्राणायाम प्राणायाम, श्वासान्नीय m I.

(-करना=प्राणान् आ-यम् ( यच्छ )

I p. श्वासान् निरुध् 7 p)

प्राणी प्राणिव, देहिन् m 31, जन्तु

m 8. जीव m I.

प्रातःकाल प्रातःकाल, अरुणोदय m I.

निशावसान n I. प्रभात n I.

प्रान्त, प्रान्त, विभाग, देशविभाग m I.

देशस्वरूप n I.

प्राप्त प्राप्त, उपलब्ध, अधिगत a I.

(-होना=प्राप् उपलभ्, अधिगम्  
pass.)

प्रामाणिक प्रामाणिक, प्रमाणसिद्ध, प्रमा-  
णित a I.

प्रायश्चित्त प्रायश्चित्त n I. पापनिवार-  
णोपाय m I.

प्रारब्ध प्रारब्ध, दैव, भाग्य n I.

प्रारम्भ प्रारम्भ, प्रारम्भ m 2.

(-करना=आरम्भ I A)

प्रायेणा प्रायेणा, अल्पयता f 2. विनय

m I. -करना=प्राय्, अल्पय्

10 A. विनयं कृ 8 u.)

प्राचिस्त प्रान्त, 2 भाग, विभाग m I.

खण्ड n I.

प्रिय प्रिय'a 2. दयित, वल्लभ, वत्सल

n I. ( गालियों की- = दुर्वचन  
वाह्य n I.)

वौद्ध बौद्ध a I. दुद्ध मतानुयायिन्,  
दुद्ध धर्मावताम्बिन् a 11.

धैका तिर्यच् m 17. (स्त्री) तिरश्चां  
f 5. वेशाभिमानिन् a 11, ह  
गर्विते, वेष गर्वित a 1.

धंगला वातायन भवन, विशाल भवन,  
सुभवन n I. ( 2 ) वङ्ग भाषा  
f I.

धंगाल वंग देश, वङ्ग m I.

धंगाली वनीय, वङ्ग देशीय a I.

धंजर अनुवंरा f I, अशस्यदाभू f 11.

धंजारा धान्यवाणिज् m 18, धान्य  
व्यवसायिन् a 11.

धंटना विभञ्ज् pass, विभ.गः कृ pass  
( with gen. )

धंटवाना विभञ्ज् c. विभ.गं कृ c.  
( with gen. )

धन् सन्धि m 4. वन्धन n I. (2)

ध्वरोध, उपरोध, विध्न m I. धन्त.

राय m 2. उपजाय m I.

(-करना = ध्वरुध् 7 p. (2)

विध् c. वार् 10 p. उपरुध् 1 p.

उपजापं कृ 8 u.

(धरवाजा- -धरं-

(काम- -कृत्यं

निवृत् I a.)

धंदगी नमस्कार m 2; प्रणाम m I.

धन्दना I 2. (-करना=नम्, प्रणम्

I p, नमस्कृ 8 u. वन्द I a.)

धंदनचार पुष्पपत्र माला, महोत्सव  
माला f 2.)

धंदर वानर m 2. कपि m 4.

धंदरी वानरी f 6.

धंदा मानव m I. मनुष्य m 2. (2)

मस्मद् pro 12. (3) भवदीय

a I.

धंदिश उपजाय m I. कूटो पाय m I.

( 2 ) कुमन्त्रणा f 2. (2) see

धंद. above.

धंदी उपरोध, ध्वरोध m I. वाधा

f 2. (2) धंदि a 4. कारगत,

वद्ध a I. (-खाना=कारा f I.

कारागार m 2.)

धन्दुआ धंदि a 4. कारागुप्त, कारागार

रुद्ध a I.

धंदुक नालारत्र, गुलिकास्य n 2. लोखुधी

f I.

धंध

धंधा

धंध

धंध

धंध

धंध

धंध

भैशु वंश m I. कुल n I. गोत्र n 2.

व्यवस्था व्यवस्था f 2. विवरण, स्फुट

वर्णन n I. (-देना=विष्ट 5 p.

स्फुटं नष्टं 10 p. व्यवस्थया

निर्दिष्ट 6 p.)

व्याज कुसीद n I. वाधुव्य n 2.

वृद्धि f 4.

व्याधि व्याधि m 4. रोग m 2.

व्याना उपन्यास m I. निक्षेप m 2.

(v, t) प्रस् 4 a. छ 5 p.

व्यापना व्याप् 5 p. व्याप्त a भू 1 p.

प्रस् pass.

व्यापार व्यापार m 2. व्यवसाय m I.

वाणिज्य n I. व्यवहार m 2.

दानादान n I. (-करना=व्यमह

(हर्) 1 p. वाणिज्यं कृ 8 u.)

व्याहृ विवाह m I, परिषयन, पाणि

ग्रहण n I. (-ना=परिणी 1 p.

विवाह c. पाणिं प्रहृ 9 p. (with

gen.)

व्यौरा see व्यवस्था above.

व्यौपार see व्यापार above.

ग्रज ग्रज, गोष्ठ n I. (2) श्री कृष्ण

कीर्ति भू f 11.

ग्रह्य ग्रह्य n 13. परमात्मन् m 23.

(-चये=ग्रह्यन्त्ये n 2. प्रथमाधम

m 2. विद्यामल m I.)

ग्रह्यज्ञ ग्रह्यज्ञ, तत्वज्ञ a I तत्वदर्शिनू

a 11, ब्रह्मवेत् a 7.

ग्रह्यण्य ग्रह्यण्य a I ब्राह्मणपूजक a I.

ग्रह्यिं ब्रह्मिं m 5. परमतन्त्र a I.

वेदवेत् a 7.

ग्रह्यज्ञारी नम्रचरित् n a 11, प्रथमाध-

मिन्, विद्याधिन् a 11.

ग्रह्यसूत्र ब्रह्मसूत्र n 2. यज्ञोपवीत n I

(२) व्याप्तसूत्र n 2. (pl.) वेदान्त

दर्शन n 1.

ग्रह्या विधानू, सृष्टिकर्तृ m 11, विधि

m 4. ब्रह्मन् m 23. स्वयम्भू

m 32.

ग्रह्यायुज्य ब्रह्मायुज्य n I. जगत् n 11,

विश्व n I. संसार m 2.

ग्रह्याधर्तृ ब्रह्माधर्तृ m I. सरस्वती रूपद.

वर्तमानदेश m I.

ग्रह्यण्य ब्रह्मण्य m I. वेदवेत् a 1.

ब्रह्मज्ञ a 1.

ग्रह्याणी ब्रह्माणी. स्वयम्भू पत्नी f 5.

ब्रिटिश भारत देशीय a भारतीय a 1.

(-गवर्भित्त=भारत ल म म्भाज्य,

भारतीय-शासन n I.)

भई भोस् ? २ ? भधि ? ind. (2)

भ्रातृ ? (voc.)

भकर भग्नि उवाका f 2. उवाकोद् भव

m 1. (-होना=जन्म; ज्वन् I d.)

भकोसना भच् 10 p. भद् 2 p.

निष् (गिर) 6p. भुत् 1 a: (2)

साकल्येन अद् २ p. अति नृण्यय-  
भुञ् 1 a.  
भक्त भक्त, अनुक्त, भक्ति निष्ठ a I.  
भक्तिमत्, प्रीतिमत् a 9 साधुराग  
a 2. सेवेच्छु, भद्राशु n 6.  
भक्ति भक्ति, प्रीति f 4. सेवा, अद्वा f 2.  
धनुराग m 2.  
भक्ष भक्ष n 2. भोजन, अन्न n I,  
आहार m 2.  
भक्षण भक्षण, भोजन n I, (-करना=  
मञ् 10, आह I p. अद् २ p.)  
भग भग n f. ऐश्वर्य n 2. शोभा  
f 2. (२) भग n I. स्त्री चिन्ह  
n I.  
भगत see भक्त above.  
भगताई see भक्ति above (२) पूजा  
निष्ठा f 2,  
भगना धाव् I p. आर्तिवेगेन चल् I p.  
पलाय I n. (२) भलचित्तं-अपक्रम  
-4 p.)  
भगन्दर. भगन्दर, भगन्दर रोग m 2.  
भगवत् भगवत् a 16. ऐश्वर्यं युक्त  
a 2 (२) ईश्वर m 2.  
भगवां कापाय a 2. (-रूपडा=कापायाम्बर  
n 2. ) (-वेश कापायाम्बर धारण  
n I.) (-पद्मिनना=कापायाम्बरस्य  
=परिधा 3 p.)  
भगवान् see भगवत् above.

भगाना अपमृप्, धाव् (२) भलचित्तं-  
निष्ठं-अपक्रम् c. निष्ठ, अपन्,  
निर्गम्, निष्क्रम् c.  
भगिनी भगिनी f 5. स्वग्र f 13.  
सौदरा f I.  
भजन भजन, कीर्तन, गान n I. सेवा  
f 2. सेवन n I. स्मरण चिन्तन n I.  
प्यान n I. (-करना=सेव्, मञ्  
I a.)  
भजना भञ्, सेव् I a. जै I p.  
( ईश्वरम् )  
भजमानन्दी प्यानमग्न, भजनरतं, सेवः  
निरत, प्यानलीन a I.  
भजनीक गायक a I. (स्त्री) गायिका  
f 2. see भजनानन्दी.  
भञ्जन भञ्जन, खण्डन (२) ताडनं  
प्रहरण n I. (-करना=खण्ड् 10  
p. (२) तड् ( ताड् ) 10. प्रह  
( हर ) I p.)  
भट भट, योध m I. शरवीर m 2.  
भटकना उत्पत्तं-अम 4 p. पथः अमृ  
pass. उन्नागं-गम् (गच्छ्) I p.  
उद्भिन्न-संप्रस्त a भू I p. उद्-विज्ञ  
a I.  
भटका पथअमृ  
गामिन्, .  
, डा

उन्मागि-गम्-प्राप् c. (2) उद्विज्,  
 संशम् c.  
 भट्टियारा पावक, भृञ्जक a l. (2)  
 पा-यावागक a l. पाग्यशास्त्रा  
 प्रदग्धकम् a 7.  
 भट्ट भट, उपाग्याय m l. आचार्य  
 m 2.  
 भट्टा भाशक m l.  
 भट्टी चुल्लि f 4. (2) पाहपुत्री f 5.  
 भट्टक कांति, द्युति f 4. शोभा f 2.  
 प्रभा f l. (-दार=सुरसोनिन a l.  
 द्युतिमन् a 9. प्रकाशित a l.)  
 (-दियाना=द्युत् (द्योत्) l n.  
 शोभां-रश् c.)  
 भट्टकना प्रज्वन् l p. (2) सहसा  
 अचक्षु 4 a. चकित-संशय a  
 मू l a.)  
 भट्टकाना अनिशयेन-ज्वन् c. प्रति-  
 श्रान्ता (धम्) l p. आप्तनेन  
 विस्फुल्लितान्-उत्सद c.  
 भट्टकीला कांतिमत, द्युतिमन् a 9.  
 भासुर, एवम a 2. भास्वत्  
 a-16.  
 भट्टभुजा धान्यावभृञ्जक, भृञ्जक a l.  
 भट्टवा विट m l. संवारक a 2. (2)  
 भगाजीविन् a 11.  
 भण्डार भाण्डार भाण्डागार m 2.  
 सम्भारालय m l. (2) महानम

n l. पाकशाला f 2.  
 भतीजा भ्रातृज m l. भ्रातृपुत्र m 2.  
 भतीजी भ्रातृजा f 2. भ्रातृपुत्री f 6.  
 भत्ता मार्गध्वय m l. यात्रावेतन n l.  
 भद्दा भद्रदर्शन्य, कुर्त्सित, निन्द a l.  
 (2) निःमल्ल a l. निर्वायि a 2.  
 निम्नेजम् m 27. f 24. (3)  
 मद्, मूढ मवित्त a l.  
 भद्र भद्र, जेव n 2. कन्वाण n l.  
 भद्रा भद्रा f l. भद्रुभकाल m l.  
 भनक शब्द, शनैः-मद्-शब्द m l.  
 कथयन्, ध्वनन् n l. (-पदना=  
 धु pass. शनैः आकर्ण pass.)  
 (2) अपूर्यतथां मववुष् pass.  
 भपारा वाण n 2. धूम m l.  
 भमक अग्निशिखा, अग्नि ज्वाला f 2.  
 (-भारना=गर्भे l p.)  
 भमकना प्रज्वन् l p. (2) कुध, कुप्  
 4 p. कीये-आविष् 6 p.  
 भमका विस्फुल्लिग m l. ज्वाला, वाहि  
 शिला f 2.  
 भमकाना प्रज्वन् c. (2) उत्सद्,  
 उत्तिन् c.  
 भमकी तर्जना, मर्त्तना f 2 निर्भर्त्तन  
 n l. (-र्त्तना=निर्भर्त्तम्, तर्त्त  
 10 p.) (-गीर्द्द—=सुदृतेमना  
 f 2)  
 भभुत भरवन् n 12. विभुवि f 4.

(--खगना चदाता=भस्मना देहं लिम्पु I p. or आच्छद् c.)	भर्त्ता भर्तृ m 11. स्वादिन् a 11, परि m 15.
भयं भय n I शंका f 2. यास m 1. भीति f 4. (--खाना=त्रम् 4 p शंक् I a. विमी 2 p.)	भर्तुं भर्तुं हरि m 5.
भयंकर भयंकर a 2. दीभत्त, भयावह, भयानक a 1.	भर देना पू 10 p. पूर्णा कृ 8 u.
भयचक चकित, भीत, व्रस्त a I. भयचकित a 1.	भरपाना निशेषं प्राप् 5 p. भरीयेण-सम्पूर्णतया-प्रधिगम् I p.
भय(ए)जाई भानुजाया f 2. भानु भार्या f I.	भरपूर पूर्ण परिपूर्ण a I.
भयातुर भयाकान्त, भयव्रस्त, भय-विन्दल a I. भयातुर a 2.	भरम भ्रम m 2. भ्रांति f 4. (2) शंका f 2. (3) रहस्य n I. (4) प्राप्तिदि f 4. मान n I. प्रतिष्ठा f 1. (--करना=शंक् I a. संशय कृ 8 u.) (खुन्न जाना=रहस्य भेदा जन् (जा) 4 a.) (--गगना=प्रतिष्ठा मानं-हा c-नश् c.)
भयानक see भयंकर above.	भरमाना प्रवृ. वच्च्, भ्रांति जन् c. संशय-आश्च c. (मारोहयति)
भरपूर पूर्ण, पूरित a I. (--करना=पूर 10, पूर्णा कृ 8 u.)	भरमार कार्यभार m 2. कार्यधुर f 25. बहुकाल n I.
भरण पालन, गोपण, भरण n I.	भरा परिपूर्ण, पूर्ण a I.
भरणी भरणी f 5. द्वितीयनक्षत्र n 2.	भरोसा विश्वास m I. आशा f 2. (2) आशय m 2. आलम्ब m I. (--रलना=विश्वम् 2 p. आशा वंश 9 p. साश a भू. I p.)
भरत भरत m I. कैकेयी ज्येष्ठ पुत्र m 2. (2) दुष्यन्त पुत्र m 2. (3) ताम्रसीमक मिथधानु m 8. (--खगड भारतवर्ष m 2. भारत देश m I. आर्यावर्त m I.)	भलमनसार्ई मनुष्यता, सम्भता, शिष्यता f 2.
भरती पूर्णता f 2. (--होना=सम्प्रित्त-प्रविष्ट a भू I p. (--करना=भर्तौ-नियुक् c. प्रभिश् c.) (--जालना=पूर 10 p. समतां-प्रापद् c. भुवः विषमतां निवार 10.)	भला भद्र, आर्थ a 2. साधु a 6. (--चंगा=नीरोग a I.) (--त्रुता=

n 1.) (-कहना=दुर्वचनानि-  
कृ 8 u or भाष् I a)

(-मानस =साधु a 6. सदाचारिन्  
a 11; सचचरित्र a 2,)

भवदीय भवदीय, युष्पदीय a 1. भव-  
दनुवर a 2. भवरनुस्तरिन् a 11.

भवन् भवन, स्थान n 1. मन्दिर, गृह  
n 2. भावास m 2.

भवसागर भवसागर, संसारसमुद्र m 2.  
संसार m 2.

भविष्य भवितव्यता f 2. देव n 1.  
भविष्य n 2 (2) भविष्यन् a 10.

आगामी काल m 1. भाविन् a 11.

भस्म भस्मन् n 12. see विभूति  
above.

भांग मज्ञा, विनया f 2. मादनी f 5.

भांजना वच् 10, सुद् ( २ ) 10 p.

भांजी विघ्न m 1. वावा f 2.

(-मारना=वाष् I a. विघ्न कृ  
8 u.

भांड नट, चारण m 1. उगहात्या  
जाविन् a 11.

भांडा पात्र n 2. भाजन, भाण्ड n 1.

भांत (ति) रीति f 4. प्रकार m 2.

विधि m 4. (-भांतका-विविध,  
अदभुत a-I.)

भांवर (री) परिक्रमण, अग्नि परिक्रमण

n 1. श्रावसपथ परिक्रमण n 1.

(-लेना=भावसम्पत्-विवाहांगिन-परि-  
कम् 1-4 p.)

भाई भ्रातृ m 10 सोदर m 2.

भास्त्रा भाषा f 1. वाच् f 14. बाणी  
f 5.

भाग भग, विभाग m 1. (-करना  
विभञ् I a.

भागना धच् I p. वेगेन चल् I p.

पलाय् I a. (2) अपवृष् I p.

भादानं-परिव्रं I p. (3) मन्त्रिणं

मन्त्र (सर् ) 1p.

भागवत श्री गदभागवत, श्री भागवत  
महा पुराण n 1.

भागवान् भागवन् a 16. महाभाग  
a 1. सुभग a 1.

भागी भागिन् a 11, दायाद a 1.  
भंशहर a 2.

भागीरथ भागीरथ m 1. गङ्गानेत्र  
m 11.

भागीरथी भागीरथी f 5. जान्हवी f 5.  
गङ्गा f 2.

भाग्य भाग्य, देव, भागधेय n 1.  
भवितव्यता f 2.

भाजन भाजन, भाण्ड n 1. पत्र n 2  
(2) योग्य a 1, अधिकारिन् a 11

भाजी शाक m 1. उपलेचन n 1.  
व्यञ्जन n 1. अश्रावस्कर n 2.

भाट चारण मन्दिजन m 1. कवि



भुजंग भुजग, भुजङ्ग m 1. सर्प m 2.

भुष्टा भुच्छ m 1.

भुतना भूत, भ्रत, पिशाच m 1. (स्त्री)

पिशाची f 5.

भुतनी भ्रता f 2. पिशाची f 5.

भुनना भ्रञ् (भञ्ज्. 1 p. (v i) भ्रञ्

पण्, gass. भ्रुण् 1 p.

भुना पक, भुज्ज, ईषद् दग्ध a 1.

भुनाना भ्रुण्, ईषद् दग्ध, भ्रञ् c.

भुलसना ईषद् दग्ध, 1 p. भ्रञ्भ्रञ्

1 p. भ्रुण् 1 p.

भुलाना भ्रिष्ट (भ्रम्) 1 p. (2) वञ्च

पण् c. भ्रन्वया नी 1 p.

भुलाचा दशन, प्रतारण n 1. (-देना=

see भुलाना above)

भुवन भुवन n 1. लोक m 1. संतार

m 2. जगत् n 11.

भुस भुप, प्रतार दग्ध n 2. भुष n 1.

भू भू f 11, भूमि f 4. चण्डसा f 2.

भुचिनी f 5.

भूषा भ्रिष्ट f 13. भ्रिष्ट भ्रिणी f 5.

भूष भुषा f 2. भ्रु f 16. (-भ्रगना=

भ्रुषां-भ्रुभू 1 p.) (-भ्र्याम=

भ्रुषिपासा f 2. (du).)

भूषा भ्रुषित. भ्रुषांत a 1.

भूषोल भूकम्प, भूचात m 1. (-भ्राना

=भूः कम्प 1 a.)

भुतना above. (2) भ्रतांत

व्यतीत, भूत, a 1. भूतनात्र

m 1. (3) भूत न 1. पञ्चभूत

(भ्रुषिव्यसे ओ पाथ्याक्षरा n 1.

(inpl).)

भुनना see भुनना above.

भूप भूर, भूमि m 1. भूपति, भूपति

m 4. राजन् m 23.

भूपाल भूषात m 1. see भूप.

भूमल उष्ण भ्रामन्, तप्तभ्रामन् n 12.

भूमि see भू above.

भूमिका भूमिक, प्रस्तावना f 2. उपेद्

पत, m 1. प्रारम्भ संदर्भ m 2.

भूर दान, विहरण n 1. (-भ्रुसां=भ्रि

(तर ) 1p)

भूल

भृगु न्यु m 9. सुकचार्थ m 2. शुक्र m 2. (2) भृगु संहिताकार m 2.	भौंगा त्रियङ् नेत्र a 2. त्रियणत् a 2.
भृत्य घृत्य, सेवक m I अनुचर m 2.	भैल महिषी f 6.
दास m I. (स्त्री) दासी f 5.	भैसा महिष m 2
पारिचारिका f I. अनुचरी f p.	भैया धातृ m 10, मौदर m 2.
भेजना भेष्, भेरु IO, ग्रहि 5 p.	भैरव भैरव देव m I. (2) भयंकर,
भनुषा 9 p.	भैरव a 2. भयावह a I.
भैट दर्शन n I. चंत्ताप m I. (2)	भैरवी भैरवी गीत n I. (-चक्र=शाक्त
उपायन, प्रायत n I. उपहार m	समा f 2, वामभार्गीय समिति f 4)
2. (-करना=इत् ( पश्य् ) I p	भोक्ता भोक्त्वृ a 7. उपभोगिन a 11.
संभित् I p. संलप् I p. (2)	भोग, विश्वास, भानेट, उभोग m I.
उपहारी कृ 8 u उपायनं-प्रायतं-	(2) सम्भोग m I.
दा 3 p.)	भोगना उपभुञ्ज् I a. विलग् I p. (2)
भङ्ग एहका f 2 मेधी f 6.	स्त्री संज्ञे कृ 8 u विपया सक्त a भृ
भङ्गा भेष m. 2. एहक m I.	I p-
रडिया व्याघ्र m 2. सिंह m I.	भोगी भोगिन् a 11, उपभोक्त्वृ a I.
भेद रत्नस्य n I, गुप्त मन्वणा f 2.	भोज भोज्य, धन m I. भक्ष्य n 2.
(2) विरोध m I. (3) विशेष	भोज m I. (2) भोजरण m I.
m 2. भेद m I. मन्तर n 2.	भोजन भोजन n I. भक्ष्य n 2.
(-सुप्तना=रहस्यं प्रकृत् p 183.)	माहार m 2. (-करना=भुञ्ज् I a.
(-स्वोचना=रहस्यं प्रकाश c.)	आह (इत् ) I p. भद 2 p.)
भेदी रहस्यस्य a I. रहस्यंशातृ a 7.	भोजपत्र भूत्रे पत्र n 2. वन्कन n I.
भेरी पट्टं m I. हुंहुभि m 4.	भोर प्रभाव n I. प्रातःकाल, उपःकाल
भेलिया कृमाण्ट m I. कर्कशु m 8.	m I. उपा f I. प्रातर् ind.
भेली शुक पिण्ड m I.	भोला धन, धनभिन्न, मूढ a I. मूर्ख
भेष वेश m I. भेष m 2. (-वदतना=	a 2 (2) सरल, शुद्ध चित्त a I.
वेपं-परिवृत् c. अग्नं वेग परिधा	मरुपटिन् a 11. छल रहित a I.
3 p. वेश परिवर्तने विधां 3p.)	भोली सरता, शुद्ध चित्ता f 2.
	भोसड़ा (डी) भग, स्त्री लिङ्ग n I.

भुजंग भुजग, भुजङ्ग m I. सर्प m 2.

भुष्टा शुद्ध m I.

भुतना भूत, प्रेत, पिशाच m I. (स्त्री)

पिशाची f 5.

भुतनी प्रेता f 2. पिशाची f 5.

भुनना भ्रज् (भृञ्. I p. (vi) भ्रस्ज्

पय्, gass. प्लुप् I p.

भुना पक, भृञ्ज, ईपद् दह् a I.

भुनाना प्लुप्, ईद् दह्, भ्रस्ज् c.

भुलसना ईपद् दह्, I p. भ्रवभ्रस्ज्

I p. प्लुप् I p.

भुलाना विस्मृ (स्मृ) I p. (2) वञ्च्

प्रतृ c. अग्यथा नी I p.

भुलाचा वचन, प्रतारण n I. (-देना=

see भुलाना above)

भुघन भुवन n I. लोक m I. संसार

m 2. जगत् n 11.

भुस तुप, भ्रसार द्रव्य n 2. सुस n I.

भू भू f 11, भूमि f 4. वसुंधरा f 2.

पृथिवी f 5.

भूष्ठा पितृपुत्र f 13. पितृ भगिनी f 5.

भूख दुधा f 2, धुन् f 16. (-लगना=

धुषां-प्रनुम् I p.) (-प्यास=

धुसिपासा f 2. (du).)

भूष्ठा नुधित. नुधार्त a 1.

भूडोल भूकम्प, भूचाल m I. (-भाना

=भूः कम् I a.)

see भुतना above. (2) भ्रतति

व्यतीत, भूत, a. I. भूतकाज

m I. (3) भूत n I. पञ्चभूत

(पृथिव्यप्ते जो वाय्वाकाश n I.

(inpl).)

भूनना see भुनना above.

भूप भूप, भूमि m I. भूपति, नृपति

m 4. राजन् m 23.

भूपाल भूपाल m I. see भूप.

भूमल उष्ण भस्मन्, तप्तभस्मन् n 12.

भूमि see भू above.

भूमिका भूमिका, प्रस्तावना f 2. उपोद्

घात, m I. आरम्भ संदर्भ m 2.

भूर दान, वितरण n I. (-कस्ता=वितृ

(तर) I p)

भूल प्रनाद m I. खालित n I. (2)

अशुद्धि f 4. (3) विस्मृति भ्रान्ति

f 4. भ्रम m 2. दोष m 2.

मिथ्यामति f 4. व्यामोह m I.

भूलना भ्रम् 1-4 p. सुह् 4 p. प्रमद्

4 p. खल्ल I p. अपराध् 4 p.

भूलभूलैषां भ्रान्ति चक्र n 2. व्यामोहा

वर्त m I.

भूला भ्रान्तच्युत, पयभ्रष्ट a I. भ्रान्ति

मत् a 9. (2) विस्मित a I.

भूपण भूपण, आभरण n I, भ्रलंकार

m 2.

भूसा धान्यतृण, भ्रसारतृण n I.

भूकुटी भूकुटी f 5. भ्रू f 11.

मिथुन मिथुन, युगल. युग्म n I. (२)  
 - तृतीय राशि m 4.  
 मिथ्या मिथ्या adv. असत्य n I.  
 अतृत् n I.  
 मिन्नत विगति f 4 अर्धिता f २.  
 अनुनय m I. अभ्यर्चना f २.  
 (-करना = सानुनये-अभि-प्र-अर्थ  
 10 a, अनु-नी (नय्) I p.  
 सनिनये निविद् c. विनयेन  
 प्रसद् c.)  
 मियां महाशय, महातुभाव a I. उत्तम  
 a I.  
 मियाना मध्यम a I.  
 मिरगी अपभार m २.  
 मिरासी दीन्द्रभय, पाश्चिक a I. गान  
 वाद्यजाविन् a 11, (२) पश्याहना  
 नर्त्तकी-चर m २.  
 मिर्च मसौचिका f २.  
 मिलनसार सुशाल, सौम्य, सुस्वभाव,  
 सौम्य स्वभाव a I.  
 मिलना संयुज्, संघा pass. संगम्,  
 (गच्छ्) I a. s. संगम संयोग  
 m I सम्मेलन n I.  
 मिलाणा संयुज्, संश्लेष्, संगम्, समिन्  
 c.  
 संयोग, संगम, समागम, सम्मेल,  
 I. संश्लेष m २. संगम m २  
 १ f 4.

मिळापी संगम शाल, सुस्वभाव, सौम्य  
 a I. संसर्ग प्रिय, सांसारिक a २.  
 (२) मिन n I. सुहृद् m २०.  
 मिळाव संवृष्टा, संयुक्तता, मिश्रता  
 f २.  
 मिळलत मिश्रता f २ संगति, संघति  
 f 4. (२) मत n I. धर्म  
 m २ (३) जाति f 4.  
 मिळक सम्पत्ति f 4. सम्पद् f 17.  
 मिळकीयत सम्पत्ति f 4 सम्पद् f 17.  
 (२) प्रभुता f २. स्वल्प n I.  
 अधिकार m २.  
 मिश्र मिश्र a २. संयुक्त, मिश्रित a I.  
 (२) मान्य, प्रतिष्ठित a I.  
 मिष्ट मिष्ट a I. मधुर a २. स्वाड a 6.  
 मिष्टान्न मिष्टान्न, मधुरान्न n I.  
 मिसर मिश्र देश m I.  
 मिसरा श्लोक पाद, पचांश m I.  
 मिसरी मिश्रिता f २. मिश्रा f I.  
 मिसल अभियोग लेख m I. अभियोग  
 पत्र n २. न्यायलेख m I. (शामिल  
 -करना = न्यायलेखे संयुज् c अभियोग  
 पत्रे संबन्ध ७ p.)  
 मिस्तल दृष्टान्त m I. उपमा f २.  
 उदाहरण n I. (दिना = दृष्टान्त-  
 दम् c. उदाहर I p.)  
 मिस्त्री तक्षक m २. शस्त्रकर्तृ m २३.  
 (२) शिल्पकार m २. शिल्पिन्,

मण्ड m I. कागेत्तर n 2. नम हू  
m 32.

माश माप n I.

माशा गुञ्जाण्टक n I. माश m I,

माशूक प्रियतम, दयित, बद्धम m I.

माशूका दयिता, प्रियतमा, बद्धमा f 2.

मास मांस, पलक, पिशित, तरस n I.

कव्य n 2. (2) मास, चन्द्रमास  
सौरमास m I.

मासान्त मासान्त m I. मासान्त दिन  
n I.

मासिक मासिक a I. मासिक वेतन  
n I.

मासी मातृष्वसु f 13. मातृ भगिनी  
f 5,

मासूम शिशु m 8. वालिश a I.  
वालेश a I.

माह मास m I. (-वारं=मासिक  
a I.)

माहियत दशा, भवस्या, योग्यता f 2.  
(2) मूल्य n I.

माही मत्स्य, मीन m I. (-गीर=  
कस्त्याद a I. मत्स्य ग्राहिन् मत्स्य  
जीविन् a 11.)

माहेश्वरी माहेश्वरी f 6. देवी f 5.  
जगदम्बा f 2.

मिफदार मात्रा f I. प्रमाण, मान  
n I.

मिजाज शील n I, स्वभाव m I.

प्रकृति f 4. शरीर स्थिति f 4.

देहावस्था f 2. (-दार=गर्वित

a I. सदप a 2. अभिमानिन् a

11, वद- = दुस्वभाव, दुःशांत

a I. दुष्प्रकृति a 4.) (तेज- =

कोपन, चण्ड, क्रोधन a I (श्री)

चण्डो f 5.) (-नेक=गुरीक,

सुस्वभाव a I. सुजन m 1)

मिटना समाप्, भ्रवतो. वि pass.

(2) निवृत् I a. विरम् I p.

(with abl.) भव-सद् (सिद्)

I p:

मिटाना अप-प्र-सृज् 2 p: or c.

विनश् c. विलुप् 6 p. or c.

उन्मूल उद्-ह I p. भवसद् c.

मिट्टी धूलि f 4. रेणु, पाण्ड m 8.

सृद् f 17.

मिट्टाई मिट्टानं n I. (2) मधुरता

f 2. माधुर्य n 2.

मिट्टास माधुर्य n 2. मधुरता f 2.

मिती तिथि f 4. प्रविष्ट n 2. (2)

कुसीद n I. वृद्धि f 4.

मित्र मित्र n 2. सुहृद् m 20, सौ

m 14. (श्री) संखी, प्रती f 5.

(-ताई- मित्रता f 2. सौहार्द n 1.)

मिथिला मिथिला f 2. जनक पु

f 6. मिथिलादेश m I.

मिथुन मिथुन, युगल. युग्म n I. (2)  
 तृतीय राशि m 4.  
 मिथ्या मिथ्या adv. असत्य n I.  
 अवृत n 1.  
 मिन्नत विनीत f 4 अर्धिता f 2.  
 अनुनय m I. अभ्यर्चना f 2.  
 (-करना = साधुनय-अभि-प्र-अर्थ  
 10 a, अनु-नी (नय्) I p.  
 सविनयं विविद् c. विनयेन  
 प्रसद् c.)  
 मियां महाशय, महासुभाव a I. उत्तम  
 a I.  
 मियाना मध्यम a I.  
 मिरगी अपस्मार m 2.  
 मिरासी दौन्दभय, पाश्चििक a I. गान  
 वाद्यजीविन् a 11, (2) पण्यादना  
 नर्तकी-चर m 2.  
 मिर्च मरीचिका f 2.  
 मिलनसार सुशील, सौम्य, सुस्वभाव,  
 सौम्य स्वभाव a I.  
 मिलना संयुज्, संघा pass. संगम्,  
 (गच्छ्) I a. s. संगम संयोग  
 m I सम्मेलन n I.  
 मिलाना संयुज्, संश्लेष्, संगम्, सम्मिल  
 c.  
 मिलाप संयोग, संगम, समागम, सम्मेल,  
 m I. संश्लेष m 2. संसर्ग m 2  
 संगति f 4.

मिलापी संगम शील, सुस्वभाव, सौम्य  
 a I. संसर्ग प्रिय, सामर्गिक a 2  
 (2) मित्र n I. सुहृद् m 20.  
 मिलाघ संसृष्टता, संयुक्तता, मिथता  
 f 2.  
 मिललत मिथता f 2. संगति, संघाति  
 f 4. (2) मत n I. धर्म  
 m 2 (3) जाति f 4.  
 मिलक सम्पत्ति f 4. सम्पद् f 17.  
 मिलकीयत सम्पत्ति f 4 सम्पद् f 17.  
 (2) प्रभुता f 2. स्वत्व n I.  
 अधिकार m 2.  
 मिश्र मिश्र a 2. संयुक्त, मिश्रित a I.  
 (2) मान्य, प्रतिष्ठित a I.  
 मिष्ट मिष्ट n I. मधुर a 2. स्वाद a 6.  
 मिष्टाक्ष मिष्टाक्ष, मधुराक्ष n I.  
 मिसर मिश्र देश m I.  
 मिसरा श्लोक पाद, पचांश m I.  
 मिसरी मिश्रसिता f 2. मिथा f I.  
 मिसल अभियोग लेख m I. अभियोग  
 पत्र n 2. न्यायलेख m I. (शामिल  
 -करना = न्यायलेखे संयुज् c. अभियोग  
 पत्रेषु संबन्ध् 9 p.)  
 मिसाल दृष्टान्त m I. उपमा f 2.  
 उदाहरण n I. (दिना = दृष्टान्तेन-  
 दृश् c. उदाहर् I p.)  
 मिस्त्री तत्त्वक m 2. शुरुकर्मन् m 23.  
 (2) शिल्पकार m 2. शिल्पिन्,

मण्ड m I. कावेत्तर n 2. नम ह्ये  
m 32.

माश माप n I.

माशा गुञ्जाटक n I. माश m I,

माशूक प्रियतम, दयित, बद्धम m I.

माशूका दयिता, प्रियतमा, बद्धमा f 2.

मास मांस, पलञ्ज, भिशित, तरस n I.

मन्थ n 2. (2) मास, चन्द्रमार  
सौरमास m I.

मासान्त मासान्त m I. मासान्त दिन  
n I.

मासिक मासिक a I. मासिक वेतन  
n I.

मासी मातृष्य f 13. मातृ भगिनो  
f 5,

मासूम शिशु m 8. वालेश a I.  
वालेश a I.

माह मास m I. (-वारी=मासिक  
a I.)

माहियत दशा, भवस्या, योग्यता f 2.  
(2) मूल्य n I.

माही मत्स्य, मीन m I. (-गोर=  
मत्स्याद a I. मत्स्य ग्राहिन् मत्स्य  
जीविन् a 11.)

माहेश्वरी माहेश्वरी f 6. देवी f. 5.  
जगदम्बा f 2.

मिकदार मात्रा f I. प्रमाण, मान  
n I.

मिजाज शील n I, स्वभाव m I.

प्रकृति f 4. शरीर रिधाति f 4.

देहावर्या f 2. (-दार=गवित  
a I. सदर्प a 2. अभिमानिन् a

11, वद- =दुस्वभाव; दुःशाल  
a I. दुष्प्रकृति a 4.) (विज- =

कोपन, चण्ड, कोपन a I (श्री)  
चण्डा f 5.) (-नेक=सुशाल,

सुस्वभाव a I. मुन्न m 1)

मिटना समाप्, अवसो. वि pass.  
(2) निवृत् I a. विस्म् I p.  
(with abl.) भव सद् (सद्)  
I p.

मिटाना अव-प्र-मृन् 2 p. or c.  
विनश् c. विलप् 6 p. or c.  
उन्मूल उद्-ह I p. भवसद् c.

मिष्टी धूलि f 4. रेणु, पाण्ड m 8.  
मृद् f 17.

मिठाई मिष्ठान्न n I. (2) मधुरता  
f 2. माधुर्य n 2.

मिठास माधुर्य n 2. मधुरता f 2.

मिती तिथि f 4. प्रविष्ट n 2. (2)  
कुसीद n 1. वृद्धि f 4.

मित्र मित्र n 2. सुहृद् m 20, सति  
m 14. (श्री) सखी, भली f 5.

(-ताई- मित्रता f 2. सौहृद्य n I.)  
मिथिला मिथिला f 2. जनक पुरी  
f 6. मिथिलादेश m I.

मिथुन मिथुन, युगल. युग n I: (२)

तृतीय राशि m 4.

मिथ्या मिथ्या adv. असत्य n I.

अवृत n I.

मिन्नत विगति f 4 अर्धिता f 2.

अनुनय m I. अभ्यर्चना f 2.

(-करना=सानुनयं-अभि-प्र-अर्ग्य

10 a, अनु-नी (न्य्) I p.

सन्निव्यं निविद् c. विनयेन

प्रसद् c.)

मियां महाशय, महादुःख a I. उत्तम

a I.

मियाना मय्यम a I.

मिरगी अपघार m 2.

मिरासी दौन्दभय, पाण्डिक a I. गान

वायानोविन् a 11, (२) पण्याङ्गना

नर्तकी-चर m 2.

मिर्च मरीचिका f 2.

मिलनसार हराँव, सौम्य, सुस्वभाव,

सौम्य स्वभाव a I.

मिलना संयुज्, संधा pass. सं-गम्,

(गच्छ्) I a. s. संगम संयोग

m I सम्मेलन n I.

मिलाना संयुज्, संश्लेष्, संगम्, सम्मिल्

c.

मिलाप संयोग, संगम, समागम, सम्मेल,

m I. संश्लेष m 2. संगम m 2

संगति f 4.

मिलापी संगम शाल, सुस्वभाव, सौम्य

a I. संसर्ग मिय, सांमर्गिक a 2

(२) मिन n I. सुहृद् m 20.

मिलाच संवृष्टता, संयुक्तता, मिश्रता

f 2.

मितलत मिश्रता f 2. संगति, संघात

f 4. (२) मत n I. धर्म

m 2 (३) जाति f 4.

मित्क सम्पत्ति f 4. सम्पद् f 17.

मित्कीयत सम्पत्ति f 4. सम्पद् f 17.

(२) प्रभुता f 2. स्वत्य n I.

अधिकार m 2.

मिश्र मिश्र a 2. संयुक्त, मिश्रित a I.

(२) मात्य, प्रतिष्ठितं a I.

मिष्ट मिष्ट a I. मधुर a 2. खाड् a 6.

मिष्टान्न मिष्टान्न, मधुरान्न n I.

मिसर मिश्र देश m I.

मिसरा श्लोक पाद, पचांश m I.

मिसरी मिश्रिता f 2. पिया f I.

मिसल अभियोग लेख m I. अभियोग

पत्र n 2. न्यायलेख m I. (सामिल

-करना=न्यायलेखे संयुज् c. अभियोग

पत्रेषु संयुज् 9 p.)

मिस्ताल दहान्त m I. उपमा f 2.

उदाहरण n I. (दिना=दहान्तेन-

दन् c. उदाहर्. f p.)

मिस्त्री लच्छक m 2. शककर्मिन् m 23.

(२) शिल्पकार m 2. शिल्पिन्,



शेष a 2. अवशिष्ट a I.  
 श्वं वस्तु n 6. वस्तुजात n I. अर्थ-  
 m I. अर्थजात n I.  
 श्वतान मृत, पिशाच. वृताल m I.  
 श्वेदना v. t. विधुम्, विमुद् c.  
 व्याकुलो कृ 8 u.  
 श्वैव शैव; शिवभक्त, शिवोपासक a or  
 m I.  
 शोक शोक, अनुताप, पश्चात्ताप m I.  
 चिन्ता f 2. (-करना=शुच् (शोच्)  
 a I. अनुतप् 4 p. चिन्तां कृ  
 8 n.)  
 शोच्य प्रगल्भ सप्रतिभ, अविनीत a I.  
 शोच्यी प्रतिभा, प्रगल्भता, सप्रतिभता  
 f 2.  
 शोचनीय शोचनीय, विचारणीय, चिन्त-  
 नीय a I. ( 2 ) हीन, निन्द्य,  
 कुत्सित, घृणित a I.  
 शोधक शोधक, संशोधक a I. शुद्धि  
 कर्तृ a 7.  
 शोधन शोधन n I. शुद्धि f 4. संशोध  
 m I. ( 2 ) अनुसंधान, अन्वेषण  
 n I. (-करना=सं, शुष् c.  
 ( 2 ) अनुसंधा 3 p. अन्विप् c.)  
 शोभा शोभा f 2. कान्ति, दीप्ति, छवि  
 f 4. (-देना=सु-शुम् ( शोम् )  
 I a, शोभां वह् I p.)  
 शौर महाशय, कोत्राहत m I. कल-

ख m 2.  
 शोरवां जूष, यूष m 2. पक्व मांसवारि  
 n 3.  
 शोला ज्वाला, काला f 2. शिला,  
 अग्नि जिह्वा f 2. काल m I.  
 अर्चिस् f 22.  
 शोशा चिन्द n I. ( 2 ) दूषण n I.  
 दोष m 2. ( 3 ) किंवदन्ती f 5.  
 (-लगाना=दूप् c.)  
 शोद्धा शठ, धूर्त, घृणित m or  
 a I. दुर्व्यसनिन् a 11.  
 शोद्धरत कीर्ति, सुप्रसिद्धि, मुख्याति f 4.  
 यशम् n 15.  
 शोद्धरा चर्चा f 2. जनधुति f 4.  
 किंवदन्ती f 5.  
 शौक भौत्सुक्य n I. उत्कण्ठा, लालसा  
 f 2. (-रखना=सृष्ट् 10 p.  
 कम् ( काम् ). 10 a. ईद् a I.  
 आकांक्ष I a.)  
 शौकीन उत्सुक, उत्कण्ठित a I. इप्सु  
 a 6. ( 2 ) सुवेश, रसिक a I.  
 प्रसाधनशील a I. प्रसाधनपद  
 a 6.  
 शौच शौच n I. पवित्रता f 2. शुद्धि  
 f 4. ( 2 ) मल निष्कासन, मल  
 शोधन n I.  
 शौहर पति m 15. भर्तृ m 11.  
 स्वामिन् m 31.

शार्ङ्ग सिन्धूर n 2. (2) शोण m I.

रक्त n I.

श्मशान श्मशान, पितृवन n I श्रेत भू  
f 11. दाहभूमि f 4.

श्या (शा) म श्याम a I. कृष्ण a  
m I. (-सुन्दर=श्रीकृष्ण, वामुदेव  
m I.

शाम सन्ध्या f 2. सार्यकाल m I.  
प्रदोष m 2.

श्रद्धा भद्रा f 2. विश्वाय, विश्वम्भ,  
प्रत्यय m I. प्रास्तिक्य बुद्धि f 4.  
(-रखना=श्व-धा 3 p. विश्वस्  
2 p. with loc. प्रति-ई 2 p.  
सम्भू c. भद्रा-यु 10 p. with  
loc.)

श्रम श्रम, परिश्रम m 2. यत्न, उद्यम,  
उद्योग m I. (-उठाना=श्रम्  
(श्रम्) 4 p. यत् I a.)

श्रवण श्रवण u I. कर्ण m I. (2)  
श्रवण नक्षत्र n 2. श्रवण, श्राकर्णन  
n I. (-करना=श्रु (श्रु) 5 p.)

श्राद्ध पितृ पूजा f 2. श्राद्ध n I. (2)  
श्रुतदेश दान n I.

श्राप शाप, अभि शाप m I. श्रापितेप  
m 2. (-देना=शप् 1 p. श्रापितेप  
6 p.)

श्रावक भावक m-a 2. जैन, बौद्ध  
a-m I.

श्रावण भावण, श्रावणप्रास m I.

श्रावणी, श्रावितर्पणी f 5. भावण  
पूर्णिमा f 2.

श्री श्री f 7. लक्ष्मी f 5+7. सम्पद्,  
f 17. शोभा f 2.

श्रुत श्रुत भाकरिंत a I. (2) श्रुत n I.  
शास्त्र n 2.

श्रुति f 4. वेद m I.

श्रु (स्रु) वा सुव m 2.

श्रेणी श्रेणी f 5. पांके f 4. माला  
f 2. (2) श्रेणि f 4. गण m I.  
श्रुद, समूह m I.

श्रेष्ठ श्रेष्ठ, सर्वोत्तम a I.

श्रोता श्रोतृ a 7.

श्रोत्र श्रोत्र n 2. कर्ण m I.

श्लाघा श्लाघा, प्रशंसा f 2. स्तुति f 4.  
(-करना=श्लाष् I a. शम् I p.  
स्तु 2 p.)

श्लोभा श्लोभन् m 23. कफ m I.

श्लोक श्लोक m I. पद्य n I. (2)  
यशम् n 15. कीर्ति f 1.

श्लान स्नान-देह शोधन, शरीर चासन  
n I. (-करना=स्ना 2 p. देह  
शस् 10 p.)

श्वसुर श्वसुर m 2. पति जनक m I.  
(2) पत्नी जनक m I.

श्वश्रु श्वश्रु f 10, पति जननी or  
पत्नी जननी f 5.

Inst.	अक्षणा	अक्षिभ्याम्	अक्षिभिः
Dat.	अक्षणे	"	"
Abl.	अक्षणः	"	"
Gen.	"	अक्षणोः	अक्षणाम्
Loc.	अक्षिण, अक्षणि	"	अक्षिषु
Voc.	हे अक्षे, अक्षि	हे अक्षिणो	अक्षीणि

## 5. दधि Curd ( n 5. )

	Sing.	Dual.	Pl.
Nom.	दधि	दधिनी	दधीनि
Acc.	"	"	"
Inst.	दध्या	दधिभ्याम्	दधिभिः
Dat.	दधे	"	दधिभ्यः
Abl.	दधः	"	"
Gen.	"	दधोः	दधाम्
Loc.	दधि, दधनि	"	दधिषु
Voc.	हे दधे or दधि	हे दधिनी	हे दधीनि

## 6. मधु Honey ( n 6. )

## 7. अश्रु Tear. ( n 7 )

	Sing.	Dual.	Pl.
Nom.	अश्रु	अश्रुणी	अश्रुणि
Acc.	"	"	"
Inst.	अश्रुणा	अश्रुभ्याम्	अश्रुभिः
Dat.	अश्रुणे	"	अश्रुभ्यः
Abl.	अश्रुणः	"	"
Gen.	"	अश्रुणोः	अश्रुणाम्
Loc.	अश्रुणि	"	अश्रुषु
Voc.	हे अश्रु or अश्रु	हे अश्रुणी	हे अश्रुणि

## 8. पीलु Fruit of a wild tree. ( n 8. )

	Sing.	Dual.	Pl.
Nom.	पीलु	पीलुनी	पीलुनि
Acc.	"	"	"
Inst.	पीलुना	पीलुभ्याम्	पीलुभिः
Dat.	पीलुने, पीलवे	"	पीलुभ्यः
Abl.	पीलुनः, पीलोः	"	"
Gen.	"	पीलुनोः पील्वोः	पीलुनाम्
Loc.	पीलुनि, पीलौ	"	पीलुषु
Voc.	हे पीलो, पीलु	हे पीलुनी	हे पीलुनि

## 9. धातृ creator ( n 9. )

	Sing.	Dual.	Pl.
Nom.	धातृ	धातृणी	धातृणि
Acc.	"	"	"
Inst.	धात्रा, धातृणा	धातृभ्याम्	धातृभिः
Dat.	धात्रे, धातृणे	"	धातृभ्यः
Abl.	धातृः, धातृणः	"	"

Inst.	धनुषा	धनुश्शाम्	धनुभिः
Dat.	धनुषे	"	धनुभ्यः
Abl.	धनुषः	"	"
Gen.	"	धनुषोः	धनुषाम्
Loc.	धनुषि	"	धनुषु
Voc.	हे धनुः	हे धनुषी	हे धनुषि.

### Declensions of

Pronoun bases ending in vowels and consonants

1 सर्व् all (pro. 1)

#### Masculine

	Sing.	Dual	Pl.
nom.	सर्वः	सर्वौ	सर्वे
Acc.	सर्वम्	"	सर्वान्
Inst.	सर्वेण	सर्वाभ्याम्	सर्वैः
Dat.	सर्वस्मै	"	सर्वेभ्यः
Abl.	सर्वस्मात्	"	"
Gen.	सर्वस्य	सर्वयोः	सर्वेषाम्
Loc.	सर्वस्मिन्	"	सर्वेषु

#### Feminine

	Sing.	Dual	Pl.
Nom.	सर्वा	सर्वे	सर्वाः
Acc.	सर्वाम्	"	"
Inst.	सर्वया	सर्वाभ्याम्	सर्वाभिः
Dat.	सर्वस्यै	"	सर्वाभ्यः
Abl.	सर्वस्याः	"	"
Gen.	"	सर्वयोः	सर्वासाम्
Loc.	सर्वस्याम्	"	सर्वासु

## Neuter.

	Sing.	Dual	Pl.
Nom.	सर्वम्	सर्वे	सर्वाणि
Acc.	"	"	"

The rest like सर्व masculine.

2 अन्य other (Pro. 2)

## Neuter.

Nom. and Acc. Sing—अन्यत् ( द्व ) the rest like सर्व in three genders.

3 पूर्व First, before (pro 3)

## Masculine

	Sing.	Dual	Pl.
Nom.	पूर्वः	पूर्वा	पूर्व, पूर्वाः
Acc.	पूर्वम्	"	पूर्वान्
Inst.	पूर्वेण	पूर्वाभ्याम्	पूर्वैः
Dat.	पूर्वस्मै, पूर्वाय	"	पूर्वभ्यः
Abl.	पूर्वस्मात्, पूर्वात्	"	"
Gen.	पूर्वस्य	पूर्वयोः	पूर्वेषाम्
Loc.	पूर्वास्मिन्, पूर्वै	"	पूर्वेषु

## Feminine

In the feminine gender it is declined like सर्व (pro, I)

## Neuter

	Sing.	Dual	Pl.
Nom.	पूर्वम्	द्वे	पूर्वाणि
Acc.	"	"	"

the rest like the masculine.

## Neuter.

	Sing.	Dual	Pl.
Nom. and Acc.	यत्	ये	यानि

The rest like the masculine.

## 7. तद् ( He, she, it ) ( Pro. 7 )

## Masculine.

	Sing.	Dual	Pl.
Nom.	सः	तौ	ते
Acc.	तम्	"	तान्
Inst.	तेन	ताभ्याम्	तेभिः
Dat.	तस्मै	"	तेभ्यः
Abl.	तस्मात्	"	"
Gen.	तस्य	तयोः	तेषाम्
Loc.	तस्मिन्	"	तेषु

## Feminine.

	Sing.	Dual.	Pl.
Nom.	सा	ते	ताः
Acc.	ताम्	"	
Inst.	तया	ताभ्याम्	
Dat.	तस्यै	"	

The rest like the masculine.

8. एतद् This or That ( Pro. 8 )

Masculine.

	Sing.	Dual.	Pl.
Nom.	एतः	एतौ	एते
Acc.	एतम्, एनम्	एतौ, एनौ	एतान्, एनान्
Inst.	एतेन एनेन	एताभ्याम्	एतैः
Dat.	एतस्मै	"	एतेभ्यः
Abl.	एतस्मान्	"	"
Gen.	एतस्य	एतयोः, एनयोः	एतेषाम्
Loc.	एतस्मिन्	"	एतेषु

Femenine.

	Sing.	Dual.	Pl.
Nom.	एया	एतै	एताः
Acc.	एताम्, एनाम्	एतै, एनै	एताः, एनाः
Inst.	एतया, एनया	एताभ्याम्	एताभिः
Dat.	एतस्यै	"	एताभ्यः
Abl.	एतस्याः	"	"
Gen.	"	एतयोः	एतासाम्
Loc.	एतस्याम्	"	एतासु

Neuter.

	Sing.	Dual.	Pl.
Nom.	एतत्	एते	एतानि
Acc.	एतत्, एनत्	एते, एने	एतानि, एनानि

The rest like the masculine.

9. इदम् This ( Pro. 9 )

Masculine.

	Sing.	Dual.	Pl.
Nom.	इयम्	इमा	इमे



## लङ् First preterite

	1st p.	2nd p.	3rd p.
Sing.	अधिद्ये	अधिद्यथाः	अधिद्यत
Dual.	अधिद्यावहि	अधिद्येथाम्	अधिद्येताम्
Pl.	अधिद्यावाहि	अधिद्यध्वम्	अधिद्यन्त

## लृट् Second future

	1st p.	2nd p.	3rd p.
Sing.	द्येत्स्ये	द्येत्स्यसे	द्येत्स्यते
Dual.	द्येत्स्यावहे	द्येत्स्येथे	द्येत्स्येते
Pl.	द्येत्स्यामहे	द्येत्स्यध्वे	द्येत्स्यन्ते

## लोट् Imperative mood

	1st p.	2nd p.	3rd p.
Sing.	द्यिद्यी	द्यिद्यस्व	द्यिद्यताम्
Dual.	द्यिद्यावहे	द्यिद्येथाम्	द्यिद्येताम्
Pl.	द्यिद्यामहे	द्यिद्यध्वम्	द्यिद्यन्ताम्

## विधि लिङ् Potential mood

	1st p.	2nd p.	3rd p.
Sing.	द्यिद्येय	द्यिद्योथाः	द्यिद्येत
Dual.	द्यिद्येवहि	द्यिद्येथाम्	द्यिद्येताम्
Pl.	द्यिद्येमहि	द्यिद्येध्वम्	द्यिद्येन्त

## लृङ् Conditional mood

	1st p.	2nd p.	3rd p.
Sing.	अद्येत्स्ये	अद्येत्स्यथाः	अद्येत्स्यत
Dual.	अद्येत्स्यावहि	अद्येत्स्येथाम्	अद्येत्स्येताम्
Pl.	अद्येत्स्यामहि	अद्येत्स्यध्वम्	

## Roots of the fifth conjugation

'In this conjugation **ञु** is added an to the roots before the terminations, in the conjugational tenses.

### परस्मै पद Parasmai pada

ञु to hear

#### लट् Present tense

	1st p.	2nd p.	3rd p.
Sing.	शृणोमि	शृणोषि	शृणोति
Dual.	शृण्वः शृणुवः	शृणुथः	शृणुतः
Pl.	शृणमः, शृणुमः	शृणुथ	शृण्वन्ति

#### लङ् First preterite.

	1st p.	2nd p.	3rd p.
Sing.	अशृणवम्	अशृणोः	अशृणोत्
Dual.	अशृण्व, अशृणुव	अशृणुतम्	अशृणुताम्
Pl.	अशृणम अशृणुम	अशृणुत	अशृण्वन्

#### लृट् Second future.

	1st p.	2nd p.	3rd p.
Sing.	श्रोष्यामि	श्रोष्यसि	श्रोष्यति
Dual.	श्रोष्यावः	श्रोष्यथः	श्रोष्यतः
Pl.	श्रोष्यामः	श्रोष्यथ	श्रोष्यन्ति

#### लोट् Imperative mood.

	1st p.	2nd p.	3rd p.
Sing.	शृणुष्वानि	शृणु	शृणोतु
Dual.	शृणुष्व	शृणुतम्	शृणुताम्
Pl.	शृणुष्वाम	शृणुत	शृणुवन्तु

#### विधिलिङ् Potential mood.

	1st p.	2nd p.	3rd p.
Sing.	शृणुयाम्	शृणुयाः	शृणुयात्

to grow old, and पूर्यते from पृ to fill वृर्यते वृ to choose.

- 3 Roots ending in आ change it to ई as पीयते पा to drink. दीयते from दां to give.
- 4 Some roots such as मन्थ्, दंश्, रञ्ज्, वन्ध्, etc. drop their nasals. as मथ्यते, दश्यते, वध्यते, ग्रथयते, भ्रश्यते ।

### णिजन्त Causals

- 1 The Causal of a root is formed by the addition of अय, and making the same Vowel changes as the अय of the 10th Conjugation करोति he कारयति 'he causes to make.
- 2 Roots ending in अम् ( except कम्, अम् and चम् ), जृ, दृ, ऋ, वृ, ङृ, ञृ, ङृ, ञृ and several others do not change their vowel as-जनयति, बलयति.
- 3 Roots ending in आ and the roots ह्रीं and ऋ and the augment प् before अय, as-दा-दापयति स्थः हा-हेपयति, ऋ-अर्पयति.
- 4 Roots ending in ए, ऐ or ओ Substitute आ for vowels, as-धे-धा-धापयति, दो-दा-दापयति.
- 5 शो, ङो, सो, हे, व्ये, वे, and पा to drink, add य् just प् before अय, and पा 'to drink, adds ल् as यति and पालयति.
- 6 The Roots जि, क्री and इ with आधि, substitute their vowels, as-जाप्रयति, क्रापयति, अध्यापयति.
- 7 (a) रुह् substitutes प् for ह् optionally, as-रोहयति.  
(b) दृन् becomes घात् before अय. as-घातयति.

